

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19—जनवरी 25, 2019 (पौष 29, 1940)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19—JANUARY 25, 2019 (PAUSA 29, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2019

एयर शाखा

सं.11, दिनांक 17 दिसम्बर 2018—राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 के प्रावधानों के तहत 190 पायलट पाठ्यक्रम के निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दर्शाई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परखाधीन) और विंग्स प्रदान किये जाने की तारीख अर्थात् 15 दिसम्बर 12 से फ्लाईंग वेतन के पात्र हैं।

भारतीय वायु सेना

फ्लाईंग (पायलट) शाखा

पूर्व फ्लाईंग कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर किस्लया कुमार झा (34110) : 15 दिसम्बर 12 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 के प्रावधानों के तहत 191 पायलट कोर्स के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) तथा विंग्स प्रदान करते हैं। यह अफसर स्थायी कमीशन तथा विंग्स प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 22 जून 13 तथा 28 अगस्त 13 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

फ्लाईंग अफसर खान गाजी मोहम्मद बिलाल (33165), अनीश निशांत टीए (33168) परमवीर नरिन्द्र भुल्लर (33178), कलुंग पयंग (33189), सतलुरी रंगानाथ भारद्वाज (33192), निशांत जमवाल (33209), ईशान डागर (33218), कुमार कन्हैया (33223), 22 जून 13 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 के प्रावधानों के तहत 192 पायलट पाठ्यक्रम के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दर्शाई तारीखों से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परखाधीन) और विंग्स प्रदान किये जाने की तारीख अर्थात् 14 दिसम्बर 13 और 25 अप्रैल 14 से फ्लाईंग वेतन के पात्र हैं।

फ्लाईंग अफसर प्रवीण कुमार (33472), मिहिर विवेक चौधरी (33473), सौरभ दीप (33539), : 14 दिसम्बर 13 से प्रभावी।

फ्लाईंग अफसर हरमनरीत सिंह (34074) : 25 अप्रैल 14 से प्रभावी।

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/बीएम-4 तारीख 14 जून 07 के प्रावधानों के तहत भारतीय वायु सेना की उड़ान (पायलट) शाखा में 10 एस एस सी (एम) पी सी, के निम्नलिखित अफसरों को फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी सेवा अल्प कमीशन (पी एस एस सी) और विंग्स प्रदान करते हैं। ये अफसर पी एस एस सी और विंग्स प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 14 दिसम्बर 13 फ्लाईंग वेतन के पात्र हैं।

फ्लाईंग अफसर तपेश कुमार चौधरी (33602), अर्पित कुमार (33603), आकाश मनी (33607), करण कोहली (33611) : 14 दिसम्बर 13 से प्रभावी।

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/वीएम-4 तारीख 14 जून 07, के प्रावधानों के तहत भारतीय वायु सेना की उड़ान (नेविगेटर) शाखा में 117 नेव (10 एस एस सी (एम) पायलट पाठ्यक्रम) के निम्नलिखित अफसरों को 14 दिसम्बर 13 से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन (पी एस एस सी) और ब्रेवेट प्रदान करते हैं। ये अफसर पी एस एस सी और ब्रेवेट प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 14 दिसम्बर 13 से फ्लाईंग वेतन पाने के पात्र होंगे।

फ्लाईंग (नेविगेटर) शाखा

पूर्व फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर निखिल संजय महागोंकर (33615), : 14 दिसम्बर 13 से प्रभावी।

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/वीएम-4 तारीख 14 जून 07, के प्रावधानों के तहत भारतीय वायु सेना की उड़ान (नेविगेटर) शाखा में 117 नेव (39 एस एस सी (डब्ल्यू) पायलट पाठ्यक्रम) के निम्नलिखित अफसरों को 14 दिसम्बर 13 से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन और ब्रेवेट प्रदान करते हैं। ये अफसर पी एस एस सी और ब्रेवेट प्रदान करने की तारीख अर्थात् 14 दिसम्बर 13 से फ्लाईंग वेतन पाने के पात्र होंगे।

फ्लाईंग अफसर गावडे खुशबू यशवंत (33635), : 14 दिसम्बर 13 से प्रभावी।

राष्ट्रपति वा से आ 59/98 के प्रावधानों के तहत 133 जी डी ओ सी के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दर्शाई तारीखों से स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।

पूर्व फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर दीपक सिंह (33563), प्रदीप मेहता (33567), मोहित मलिक (33571), ज्ञानेन्द्र भट्ट (33575) : 14 दिसम्बर 13 से प्रभावी।

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डीएस/डी (एयर-III) तारीख 23 अप्रैल 01, के प्रावधानों के तहत 26 एस एस सी (एम) जी डी ओ सी के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दर्शाई तारीखों से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

फ्लाईंग अफसर फिरदौस अहमद दार (33618), सुबोध दीक्षित (33624), सनाबोइना वेंकटा प्रवीण कुमार (33625), दीपक कुमार (33627), 14 दिसम्बर 13 से प्रभावी।

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस डी (एयर-III) तारीख 23 अप्रैल 01, के प्रावधानों के तहत 42 एस एस सी (डब्ल्यू) जी डी ओ सी के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दर्शाई तारीखों से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

फ्लाईंग अफसर राजश्री रनावत (33651), जुफिला बत्रा (33653), : 14 दिसम्बर 13 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर ज्योति यादव (33661) : 14 दिसम्बर 13 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर वंदना चौधरी (33663) : 14 दिसम्बर 13 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. वा से आ/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस डी (वायु-III) तारीख 23 अप्रैल 2001 के प्रावधानों के तहत 42/एस एस सी के निम्नलिखित अफसर को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)

फ्लाईंग अफसर हिमांशु गुप्ता (34474), 05 जनवरी 15 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डीएस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत निम्नलिखित अफसर को फ्लाईंग अफसर के रैंक में प्रदान किए गए अस्थाई अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त कर उन्हें अल्पकालिक सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं जो उनके नामों के आगे लिखी तारीख से प्रभावी होगा।

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)

फ्लाईंग अफसर हिमांशु गुप्ता (34474), 04 जनवरी 16 से प्रभावी।

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 14 जून 07 के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/बी एम-IV के प्रावधानों के अंतर्गत 200/16एफ/एस एस सी (एम) के निम्नलिखित अफसर को दिनांक 16 दिसम्बर 17 से भारतीय वायु सेना की उड़ान (पायलट) शाखा में फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्पकालिक कमीशन (पी एस एस सी) और विंग्स प्रदान करते हैं। ये अफसर अस्थायी अल्पकालिक कमीशन और विंग्स प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 16 दिसम्बर 17 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर कार्तिक ठाकुर (35874), 16 दिसम्बर 17 से प्रभावी

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्कवाड्रन लीडर के स्थायी रैंक में

संभारिकी शाखा

राव बोसेती श्रीनिवासुला वेंकट (30486),

27 जून 15 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

शुक्ला अनिल कुमार (30487),

27 जून 15 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

सैनी संपूर्ण सिंह (30488),

27 जून 15 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

चोपड़ा अनुज (30618),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

सिंह गुरजीत (30619),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

देसाई ओंकार प्रवीण (30620),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

हिरवानी किशोर कुमार (30621),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

यादव अंकुर (30622),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

हतवाल स्वाति (30639),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

कुमारी सोनिका (30640),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

नंबूदरी वी कृष्णन (30570),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

सिंह अभिषेक कुमार (30623),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

हेमरजनी हिमांशु (30624),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

चौधरी गौरव (30625),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

पद्मानीस्वामी जसवन्त कुमार (30626),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

गुप्ता अंकित (30627),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

शर्मा अनिल (30628),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

ठकराल किशोर (30629),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

कृष्णास्वामी रमेश कुमार (30630),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

बहल मोहित कुमार (30631),

13 जुलाई 15 से प्रभावी

वीरावली राहुल (30633),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
सिन्हा अनुभव (30635),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
भोरानिया नचिकेत (30636),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
खुराना जितिन (30637),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
चौहान रोहित (30638),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
खान निलोफर (30642),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
आर्या तरंग (30643),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
पांडे बीना (30645),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
अभिरमन राजश्री (30646),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
चौहान ज्योति (30647),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
करवासरा प्रियंका (30649),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
कुमारी मीनाक्षी (30650),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
गुप्ता मेघा (30651),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
सोहलोत उपासना (30652),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
सोनिका (30653),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
सिंह आरती (30654),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
रैना प्रणीता (30655),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
जोशी प्रियंका (30656),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
शारदा जी (30657),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
त्यागी मनीषा (30658),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
जोसेफ रोज़लिन के एम (30659),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
काला दीप्ति (30660),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
गुप्ता सुविधा (30661),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
मोहित संजीवनी विठ्ठलराव (30662),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
गोयल सुरुचि (30663),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
राज ध्रुविका (30664),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
गौतम नेहा (30665),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
सिसोदिया अदिति (30666),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
श्रीवास्तव मीनाक्षी (30667),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
शिवांगी (30668),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
कौर तरनजोत (30669),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
वर्मा तृप्ति (30670),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
गौतम मेहा (30672),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
निगम अनुप्रिया (30673),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
जेमिनी (30674),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
ममता डी (30675),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
दीक्षित कृति (30676),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
गायत्री वी (30677),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
चोपड़ा सुमेधा (30678),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
शर्मा रेनी (30679),	13 जुलाई 15 से प्रभावी
नायर संगीता (30685),	14 जुलाई 15 से प्रभावी
गुप्ता सुभद्रा कुमार (30686),	17 जुलाई 15 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

रंगी मोनिका (30523),	27 जून 15 से प्रभावी
भट्ट तृष्णा (30524),	27 जून 15 से प्रभावी
ठाकुर प्रियंका (30525),	27 जून 15 से प्रभावी
रश्मि (30526),	27 जून 15 से प्रभावी
चानू खुमबोंगमायुम प्रिया (30527),	27 जून 15 से प्रभावी
कादयान शायना (30528),	27 जून 15 से प्रभावी
पांडे रिचा (30529),	27 जून 15 से प्रभावी
करकी कनुप्रिया (30530),	27 जून 15 से प्रभावी
नौटियाल अनुभूति (30531),	27 जून 15 से प्रभावी
बिष्ट नेहा (30532),	27 जून 15 से प्रभावी
साहू नेहा (30533),	27 जून 15 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

यादव रेखा (30534),	27 जून 15 से प्रभावी
सुंदरम स्वामीनारायणी (30535),	27 जून 15 से प्रभावी
शर्मा शुभी (30536),	27 जून 15 से प्रभावी
गुप्ता अदिति (30537),	27 जून 15 से प्रभावी
हुडा प्रियंका (30538),	27 जून 15 से प्रभावी
सिंह नुपुर (30539),	27 जून 15 से प्रभावी
सुनयना (30540),	27 जून 15 से प्रभावी
बालेकुंदरी मृणालिनी (30541),	27 जून 15 से प्रभावी

लेखा शाखा

राय नीरु कुमारी (30542),	27 जून 15 से प्रभावी
पांडे सपना (30543),	27 जून 15 से प्रभावी
पल्लवी (30544),	27 जून 15 से प्रभावी
शुक्ला पप्पी (30545),	27 जून 15 से प्रभावी
मुखर्जी अर्पिता (30546),	27 जून 15 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

भवानी बी (30547),	27 जून 15 से प्रभावी
-------------------	----------------------

मौसम विज्ञान शाखा

बाजपेयी पूजा (30135),	27 जून 15 से प्रभावी
कुंडु रितु (30136),	27 जून 15 से प्रभावी
सिंह शलिनी (30137),	27 जून 15 से प्रभावी
ठाकुर प्रिया (30138),	27 जून 15 से प्रभावी
शर्मा सोनाली (30139),	10 जुलाई 15 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

सिंह राहुल (30420),	27 जून 15 से प्रभावी
कुजीयेथ आचु (30453),	27 जून 15 से प्रभावी
सिंह अक्षय मान (30508),	27 जून 15 से प्रभावी
अग्रवाल अंशुल (30509),	27 जून 15 से प्रभावी
राठी विकुल कुमार (30515),	27 जून 15 से प्रभावी
संधु सुशील कुमार (30427),	10 जुलाई 15 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

मिथिलेश अरुण प्रकाश (30465),	27 जून 15 से प्रभावी
कुमार विजय (30466),	27 जून 15 से प्रभावी
राय मनीष कुमार (30467),	27 जून 15 से प्रभावी
चंदेल अभिमन्यु (30468),	27 जून 15 से प्रभावी
शेखावत आनंद सिंह (30469),	27 जून 15 से प्रभावी
शर्मा शीतल (30470),	27 जून 15 से प्रभावी
भट्टाचार्य सुधा (30471),	27 जून 15 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

महंत मन मोहन (30472),	27 जून 15 से प्रभावी
शर्मा बिबेक (30473),	27 जून 15 से प्रभावी
सिंह मनीष कुमार (30474),	27 जून 15 से प्रभावी

लेखा शाखा

अग्रवाल पीयूष (30475),	27 जून 15 से प्रभावी
सिंह शशिरंजन (30476),	27 जून 15 से प्रभावी
जुगरान संजय प्रसाद (30477),	27 जून 15 से प्रभावी
ऑगस्टीन कंडोत लायजु (30478),	27 जून 15 से प्रभावी
सिंह रवि शंकर (30479),	27 जून 15 से प्रभावी
त्यागी गौरव (30482),	27 जून 15 से प्रभावी
तुमुलू साईप्रसाद (30481)	06 नवम्बर 15 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

वैद्यनाथन अर्द्धनारी (30484),	27 जून 15 से प्रभावी
कुमार तमपैला रमेश (30485),	27 जून 15 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

शामी पद्मनाभन (30133),	27 जून 15 से प्रभावी
यादव अशोक (30134),	27 जून 15 से प्रभावी

स्कवाड्रन लीडर से विंग कमांडर के स्थायी रैंक में

प्रशासनिक शाखा

सिंह रघुवीर (27015),	22 जून 15 से प्रभावी
बेदी सतनाम सिंह (27016),	22 जून 15 से प्रभावी
दूबे आशीष (27017),	22 जून 15 से प्रभावी
बेरवाल दलवीर सिंह (27018),	22 जून 15 से प्रभावी
राठौर महाराघवेन्द्र सिंह (27019),	22 जून 15 से प्रभावी
प्रकाश पूर्णन्दु (27020),	22 जून 15 से प्रभावी
सिंह सरदुल (27021),	22 जून 15 से प्रभावी
कुमार आनंद (27022),	22 जून 15 से प्रभावी
एम विनोद पोनप्पा (27023),	22 जून 15 से प्रभावी
द्विवेदी पुष्कल (27024),	22 जून 15 से प्रभावी
नेगी अर्जुन सिंह (27025),	22 जून 15 से प्रभावी
नारायण मर्थी वी एल (27026),	22 जून 15 से प्रभावी

कुमार मुकेश (27027),	22 जून 15 से प्रभावी
वाल्सालन विजेश (27028),	22 जून 15 से प्रभावी
चौधरी राजेन्द्र (27029),	22 जून 15 से प्रभावी
कामत स्नेहल एस (27030),	22 जून 15 से प्रभावी
कुमार अजय (27031),	22 जून 15 से प्रभावी
अनापति राजू (27032),	22 जून 15 से प्रभावी
शर्मा त्रिलोक (27033),	22 जून 15 से प्रभावी
मुरुगन डी (27034),	22 जून 15 से प्रभावी
इलानकुमारन आई (27035),	22 जून 15 से प्रभावी
सैम मेलेहिसडेक एस (27036),	22 जून 15 से प्रभावी
मलारा पूरण सिंह (27037),	22 जून 15 से प्रभावी
आलमसेट्टी रवि किरण (27039),	22 जून 15 से प्रभावी
मिश्रा संकेत (27040),	22 जून 15 से प्रभावी

लेखा शाखा

राजा नारायण के (27041),	22 जून 15 से प्रभावी
श्रीवास्तव रोहित (27042),	22 जून 15 से प्रभावी
मेहता प्रतीक (27043),	22 जून 15 से प्रभावी
हंस सुमित (27045),	22 जून 15 से प्रभावी
जग्गी दिपिन्दर सिंह (27046),	22 जून 15 से प्रभावी
वर्मा दीपेन्द्र (27047),	22 जून 15 से प्रभावी
खान बिस्मिल्लाह (27048),	22 जून 15 से प्रभावी
चौधरी बिस्वजीत दास (27049),	22 जून 15 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

कांत लक्ष्मी बी (27051),	22 जून 15 से प्रभावी
परमार जसकरण सिंह (27052),	22 जून 15 से प्रभावी
रावत कमल सिंह (27053),	22 जून 15 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

सिंह बिजेन्द्र (27071),	04 अप्रैल 16 से प्रभावी
सुभाष चन्द्र (27073),	04 अप्रैल 16 से प्रभावी
प्रियदर्शी आनंद कसाल (27074),	04 अप्रैल 16 से प्रभावी
वजीर संजीव (27075),	04 अप्रैल 16 से प्रभावी
विकास (27077),	04 अप्रैल 16 से प्रभावी
सिंह शिवराज (27080),	04 अप्रैल 16 से प्रभावी
सिंह संजीव (27082),	04 अप्रैल 16 से प्रभावी
सिंह दीपक कुमार (27083),	04 अप्रैल 16 से प्रभावी
हरि करमाकर शिरीष (27093),	04 अप्रैल 16 से प्रभावी
वेंकट गोपाल कृष्ण टी (27099),	04 अप्रैल 16 से प्रभावी
जैन चेतन कुमार (27107)	04 अप्रैल 16 से प्रभावी
रवि जैन (27085)	04 अप्रैल 16 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

सुकान्त शिशिर (26951),	23 अप्रैल 15 से प्रभावी
चिन्ताडा सुरेश (26952),	22 जून 15 से प्रभावी
गेरा मनोज (26953),	22 जून 15 से प्रभावी
सिंह अविनाश (26954),	22 जून 15 से प्रभावी
झा परिजात (26955),	22 जून 15 से प्रभावी
झोराड़ आशीष (26957),	22 जून 15 से प्रभावी
रॉय श्यामंतक (26959),	22 जून 15 से प्रभावी
कुमार नितेश (26960),	22 जून 15 से प्रभावी
धंकर योगेन्द्र (26961),	22 जून 15 से प्रभावी
अमित कुमार (26962),	22 जून 15 से प्रभावी
खरे तन्मय (26963),	22 जून 15 से प्रभावी
अर्जरिया गौरव पी (26964),	22 जून 15 से प्रभावी
बेनीवाल पवन (26965),	22 जून 15 से प्रभावी
गुप्ता विजय कुमार (26966),	22 जून 15 से प्रभावी
बहल अनुज (26967),	22 जून 15 से प्रभावी
सूर्यनारायणन के (26968),	22 जून 15 से प्रभावी
गुप्ता पंकज (26969),	22 जून 15 से प्रभावी
रेप्पाल अनिल कुमार (26971),	22 जून 15 से प्रभावी
कुमार पोलीनेनी वरुण (26972),	22 जून 15 से प्रभावी
पाटिल रमनगौड़ा शम्भुगौड़ा (26973),	22 जून 15 से प्रभावी
सलारिया वरुण (26974),	22 जून 15 से प्रभावी
गर्ग अंकित (26975),	22 जून 15 से प्रभावी
राणा अमित (26976),	22 जून 15 से प्रभावी
मान सुरजीत (26977),	22 जून 15 से प्रभावी
अथवाल आशुतोष वसन्त (26978),	22 जून 15 से प्रभावी
गुप्ता सौरभ (26979),	22 जून 15 से प्रभावी
घुमन गुरप्रीत सिंह (26980),	22 जून 15 से प्रभावी
त्रिपाठी संदीप (26981),	22 जून 15 से प्रभावी
चौहान पृथ्वी सिंह (26982),	22 जून 15 से प्रभावी
गुलाटी धीरज (26983),	22 जून 15 से प्रभावी
रेड्डी बीमिडी सतीश (26984),	22 जून 15 से प्रभावी
थॉमस माथला जिनो (26985),	22 जून 15 से प्रभावी
मेहरोत्रा अंकित (26986),	22 जून 15 से प्रभावी
साहु बिकास कुमार (26987),	22 जून 15 से प्रभावी
भाटी हरप्रीत सिंह (26988),	22 जून 15 से प्रभावी
सौरभ कुमार (26989),	22 जून 15 से प्रभावी
आहुजा राहुल (26990),	22 जून 15 से प्रभावी
पंवार रोहित (26991),	22 जून 15 से प्रभावी
सिंह रजत कुमार (26992),	22 जून 15 से प्रभावी
वशिष्ठ क्षितिज (26993),	22 जून 15 से प्रभावी

भट्ट हंसराज (26994),	22 जून 15 से प्रभावी
अवस्थी क्षितिज (26995),	22 जून 15 से प्रभावी
सिंह मंतेज (26996),	22 जून 15 से प्रभावी
पांडे राहुल (26998),	22 जून 15 से प्रभावी
षण्मुखा टी (27000),	22 जून 15 से प्रभावी
सिंह राहुल (27001),	22 जून 15 से प्रभावी
अक्षय राज (27003),	22 जून 15 से प्रभावी
गर्ग चंदन (27004),	22 जून 15 से प्रभावी
पाठक नीतेश (27006),	22 जून 15 से प्रभावी
खान मोहम्मद काशिफ (27008),	22 जून 15 से प्रभावी
मुलतानी सुखविन्दर सिंह (27002),	26 फरवरी 16 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

बोब्डे पंकज श्रीकृष्णा (26999),	22 जून 15 से प्रभावी
वर्मा राजेन्द्र (27005),	22 जून 15 से प्रभावी
सिंह अनुपमा (27054),	22 जून 15 से प्रभावी
डिमरी भारती (27055),	22 जून 15 से प्रभावी
अतवाल गुरप्रीत (27058),	22 जून 15 से प्रभावी
सजिनी पी (27059),	22 जून 15 से प्रभावी
अबिरामी एल (27060),	22 जून 15 से प्रभावी
अय्यर हेमलता (27062),	22 जून 15 से प्रभावी

लेखा शाखा

पंत तनुश्री (27064),	22 जून 15 से प्रभावी
मसौन आशु (27065),	22 जून 15 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

ठाकुर पुष्पा (27066),	22 जून 15 से प्रभावी
-----------------------	----------------------

मौसम विज्ञान शाखा

सपना देवी (26639),	22 जून 15 से प्रभावी
--------------------	----------------------

ए ई (एम) शाखा

पांडे पल्लवी (27623),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
-----------------------	------------------------

ए ई (एल) शाखा

वर्मा पूनम (27626),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
बिट्टु सीमा (27627),	05 जुलाई 15 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

शेखर पीला चन्द्र (27938),	05 जून 15 से प्रभावी
राघवेन्द्रन एस (27939),	05 जून 15 से प्रभावी
जयप्रकाश (27940),	05 जून 15 से प्रभावी
कादरी सैयद शाह इमरान उल्लाह (27941),	05 जून 15 से प्रभावी
पांडे बिजेन्द्र (27942),	05 जून 15 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

भारद्वाज पवन कुमार (27944),	05 जून 15 से प्रभावी
हरीभाउ कालास्कर प्रदीप (27945),	05 जून 15 से प्रभावी
राजेन्द्रन के (27946),	05 जून 15 से प्रभावी
जॉन थॉमस (27947),	05 जून 15 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

दिनेश हैरिक जोसेफ (27330),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
पॉल फेजो के (27570),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
राठ शशांक शेखर (27571),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
घुले संदीप पांडुरंग (27572),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
श्रीनाथ वसन्तमंदीराम परमेश्वरण नायर (27573),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
निबन्धे पांडुरंग माधव (27575),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
जयन्त कुमार बी आर (27576),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
विक्टर चार्ल्स विनोद (27577),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
गोविन्दकृष्णन यू (27578),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
पल्लाह गुरविन्दर सिंह (27579),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
बाजपेयी पंकज (27580),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
शिवशंकर नवीन (27581),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
हर्ष एन एस (27582),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
देव बेबी विमल (27583),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
भुपल सकाले अमोल (27584),	05 जुलाई 15 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

अनवर शाजी सी (27408),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
बेहेरा शिबन कुमार (27586),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
राजेन्द्रन विजय (27588),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
बंधिया शेरनिक कुमार (27590),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
जीसस अलमेडा अल्विन (27591),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
गोस्वामी अर्नब (27592),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
थॉमस वर्गीज (27593),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
हबिन थॉमस बी (27594),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
जैन अभिनव (27595),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
राकेश (27596),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
संदीप देसाई एस (27597),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
गोडा कल्याण चक्रवर्ती (27598),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
थापर प्रतीक (27599),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
देब बिस्वारूप (27600),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
शेखर गुंडलुरु रेड्डी राजा (27601),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
सिंह देविन्दर (27602),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
साजवान संजीव (27603),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
बाबू परिमी राजेश (27604),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
रवि कुमार एच एन (27606),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
बसावाराज (27607),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
रामजी गुन्नम साई (27608),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
सचिन कुमार (27609),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
नन्जुंदास्वामी गुरुप्रसाद किक्कैरी (27610),	05 जुलाई 15 से प्रभावी

इंगेल मकरंद मधुकर (27612),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
प्रशान्त कुमार एम (27613),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
सेट्टी श्रीनिवासालु नामा सत्यानारायण (27615),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
सीता शैलेन्द्र दत्त (27616),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
चैतन्य कनुपारती कृष्ण (27617),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
साहा पार्थ (27618),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
रंजन अरविन्द (27619),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
जनाने अभिषेक (27620),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
मल्लिक अनुपम (27621),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
हसन अमनुल्लाह (27630),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
गोविन्दाराजन मणि (27634),	05 जुलाई 15 से प्रभावी
तिवारी आयुष (27587),	11 सितंबर 15 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

कुलश्रेष्ठ मुदित (27009),	22 जून 15 से प्रभावी
शिवकुमार अमित (27010),	22 जून 15 से प्रभावी
बोराह पार्थ प्रतिम (27011),	22 जून 15 से प्रभावी
पंजियार विकास कुमार (27012),	22 जून 15 से प्रभावी
कुमार रंजीत (27013),	22 जून 15 से प्रभावी

पलाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के स्थायी रैंक में

एफ (एन) शाखा

भावना देवीदास मखीजानी (30009),	21 जून 14 से प्रभावी
आज़ाद रविन्द्र कुमार (29922),	21 जून 14 से प्रभावी
सिंह सुकेश (29946),	21 जून 14 से प्रभावी
नारायणपेटकर येशवन्त अनिल (29956),	21 जून 14 से प्रभावी
खेदार प्रमोद (29960),	21 जून 14 से प्रभावी
जोशी पुष्कर विनोद (29968),	21 जून 14 से प्रभावी
भट्टाचार्य देबाब्रता (29963),	21 जून 14 से प्रभावी
नेगी दीपक (29964),	21 जून 14 से प्रभावी
दास अंजल (29965),	21 जून 14 से प्रभावी
मैक्समिलन जेराड गोम्ज (29966),	21 जून 14 से प्रभावी
त्रिपाठी पीयूष (29967),	21 जून 14 से प्रभावी
पांडा प्रवुपदा (29962),	21 जून 14 से प्रभावी
निवेदिता चौधरी (30010)	21 जून 14 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

मिश्रा प्रभास (29917),	21 जून 14 से प्रभावी
शेखर सुमित (29933),	21 जून 14 से प्रभावी
पांडे देव भूषण (29950),	21 जून 14 से प्रभावी
जेकब रोहन चाको (29892),	21 जून 14 से प्रभावी
भारद्वाज अखिल (29893),	21 जून 14 से प्रभावी
कुमार विकास (29894),	21 जून 14 से प्रभावी
राजा अरुमुगानाथन पिचिपू (29895),	21 जून 14 से प्रभावी

मोथाय आदित्य साईं कुमार (29896),	21 जून 14 से प्रभावी
गोपी कृष्णा (29897),	21 जून 14 से प्रभावी
वासीरेडुडी प्रनीथ कुमार (29898),	21 जून 14 से प्रभावी
धंकर दीपक (29899),	21 जून 14 से प्रभावी
उनियाल रजनीश चन्द्रा (29900),	21 जून 14 से प्रभावी
कुलकर्णी रोहन किशोर (29925),	21 जून 14 से प्रभावी
कुमार अश्विनी (29926),	21 जून 14 से प्रभावी
नैनवाल राहुल (29927),	21 जून 14 से प्रभावी
गोदरा राजेन्द्र कुमार (29928),	21 जून 14 से प्रभावी
भारज हिम्मतदल सिंह (29929),	21 जून 14 से प्रभावी
बिस्वास हिमाद्री (29930),	21 जून 14 से प्रभावी
भोला विराट (29932),	21 जून 14 से प्रभावी
शर्मा पवन कुमार (29934),	21 जून 14 से प्रभावी
सौरभ (29935),	21 जून 14 से प्रभावी
वर्मा संजय (29936),	21 जून 14 से प्रभावी
मोहन विवेक (29937),	21 जून 14 से प्रभावी
कुमार योगेश (29938),	21 जून 14 से प्रभावी
लाइशरम बिनाय सिंह (29939),	21 जून 14 से प्रभावी
देव कपिल (29940),	21 जून 14 से प्रभावी
दास दीपांकर (29957),	21 जून 14 से प्रभावी
संदीप भास्कर (29901),	21 जून 14 से प्रभावी
विगनेश्वर एस सक्थी (29902),	21 जून 14 से प्रभावी
सूरी अतुल (29903),	21 जून 14 से प्रभावी
प्रसाद अश्विन (29904),	21 जून 14 से प्रभावी
व्यास अनुभव (29905),	21 जून 14 से प्रभावी
शुक्ला अर्पित (29906),	21 जून 14 से प्रभावी
महेन्द्र अनुभव (29907),	21 जून 14 से प्रभावी
पटेल अर्जुन के (29908),	21 जून 14 से प्रभावी
सुब्रह्मण्यम विस्वानाथन नागा (29909),	21 जून 14 से प्रभावी
तोमर अंकुश (29910),	21 जून 14 से प्रभावी
शर्मा रिजुल (29911),	21 जून 14 से प्रभावी
गुप्ता अनुज (29912),	21 जून 14 से प्रभावी
राव सी कार्तिकेय (29913),	21 जून 14 से प्रभावी
गुप्ता मोहित (29914),	21 जून 14 से प्रभावी
पटनायक समबित (29915),	21 जून 14 से प्रभावी
शर्मा सागर (29916),	21 जून 14 से प्रभावी
चौहान रोहित कुमार (29918),	21 जून 14 से प्रभावी
डोगरा तिगमांशु (29919),	21 जून 14 से प्रभावी
मदान रक्षित (29958),	21 जून 14 से प्रभावी
सॉड मेहताब (29959),	21 जून 14 से प्रभावी
रावत आशीष (29961),	21 जून 14 से प्रभावी

ओला मोहित (29947),	21 जून 14 से प्रभावी
पोथेन प्रधायु जचरिया (29942),	21 जून 14 से प्रभावी
कुमार रवीश (29923),	21 जून 14 से प्रभावी
जोशी परिक्षित नंदलाल (29949),	21 जून 14 से प्रभावी
गौर अमित (29951),	21 जून 14 से प्रभावी
रावत विजयपाल (29952),	21 जून 14 से प्रभावी
बड़गुजर संजीव तुलसीराम (29953),	21 जून 14 से प्रभावी
कुमार केशव (29920),	21 जून 14 से प्रभावी
जेयाकृष्णन एम (29921),	21 जून 14 से प्रभावी
नेगी अश्वरे (29943),	21 जून 14 से प्रभावी
नकवी अम्मर हैदर (29944),	21 जून 14 से प्रभावी
खांडुरी आशुतोष (29945),	21 जून 14 से प्रभावी
कुमार सौरभ विशाल (29948),	21 जून 14 से प्रभावी
मिश्रा उज्जवल कुमार (29955),	21 जून 14 से प्रभावी
सूद अंकित (29873),	21 जून 14 से प्रभावी
पंवार मयंक (29874),	21 जून 14 से प्रभावी
अबरोल समीर (29875),	21 जून 14 से प्रभावी
चहल मनीष कुमार (29876),	21 जून 14 से प्रभावी
कुमार पी श्याम (29877),	21 जून 14 से प्रभावी
सिंह परविंदर (29878),	21 जून 14 से प्रभावी
मधवाल समीर (29879),	21 जून 14 से प्रभावी
अत्रे रोहन अतुल (29880),	21 जून 14 से प्रभावी
नायक लगनाजीत (29881),	21 जून 14 से प्रभावी
जोशी मनीष (29882),	21 जून 14 से प्रभावी
कुमार अनिकेत (29883),	21 जून 14 से प्रभावी
पठानिया गौरव (29884),	21 जून 14 से प्रभावी
कपूर साहिल (29885),	21 जून 14 से प्रभावी
जॉन इपेन (29886),	21 जून 14 से प्रभावी
कुमार निर्मल (29887),	21 जून 14 से प्रभावी
सिंह उमेश बहादुर (29888),	21 जून 14 से प्रभावी
कालरा कुनाल (29889),	21 जून 14 से प्रभावी
नोर्बू जिग्मे (29890),	21 जून 14 से प्रभावी
शर्मा रूपेश कुमार (29891),	21 जून 14 से प्रभावी

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के स्थायी रैंक में

ए ई (एम) शाखा

के माधव राव (27434),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सूरी हरप्रीत सिंह (27110),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह बलराज (27111),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
महेन्द्रनाथ सुरेश कुमार (26802),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
प्रकाश पी (27118),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
पुथालाथ दीपू सहदेवन (26835),	07 जुलाई 14 से प्रभावी

चौधरी अभिषेक (27112),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
रमेश एच (27115),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
त्रिवेदी कपिलेश (27120),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
श्रीधरन सुजीत के (26813),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
चमारती किरण कुमार (27114),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
होसे जीजो (27113),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह अरविन्द कुमार (27116),	07 जुलाई 14 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

वैद्या हर्ष (27152),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
तेजपाल सम्राट (27153),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह मनीष नारायण (27154),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
कुमार पीयूष (27155),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
वर्मा रोहित सिंह (27156),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
नामदेव दीपक (27157),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
श्रवण हरिहरण (27123),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
शुभेन्दु (27124),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह कर्मेन्द्र (27125),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
हरिहरण महादेवन (27126),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
कौरा दीपक (27150),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
चैटर्जी इंदरानिल (27127),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
गर्ग असित कृष्ण (27128),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
त्रिपाठी भास्वान प्रकाश (27129),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
गुगलानी अमित (27130),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह अमित कुमार (27131),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
कालरा जसनीत सिंह (27132),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह जगदीप (27133),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
शर्मा मुनीष (27134),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह अनूप (27135),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
उदय कुमार एस (27136),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
प्रसाद दीपक (27137),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
प्रसाद वी (27151),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
कुंतल जितेन्द्र (26862),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सैनी संदीप (26863),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
गंगुली पृथ्वीश (26878),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
अभिलाष आर (27149),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
चौधरी ओम नाथ (27147),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
मनीष (26840),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
डोगरा राजिन्द्र कुमार (27122),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
यादव प्रवीण (27142),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
गौतम शैलेष (27141),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
भारती विशाल (27140),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
खरे आशीष (27139),	07 जुलाई 14 से प्रभावी

बराल अनुपम (27138),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह सुखमिन्द्र (27121),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सगवाल विकास (27148),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
डींगरा गगनदीप सिंह (27146),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
किशोर अभिषेक (26950),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह समरजीत (27143),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
जैन अंशुल (27145),	07 जुलाई 14 से प्रभावी

प्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के स्थायी रैंक में
प्रशासनिक शाखा

सिंह तनुजा (30858),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
राठौर प्रज्ञा पयस्विनी (30859),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
शर्मा मिति (30866),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
दधीच अनुश्री (30865),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
द्विवेदी अन्नविता (30864),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
रोहिल्ला उर्वशी (30863),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
कौर जसदीप (30862),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
चंद बिमला (30861),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
नैन्सी महेश्वरी (30860),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

सिंह जागृति (30869),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
भट्ट मधु (30871),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
जैदी फिरदौस फातिमा (30874),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
तपरियाल अंकिता (30875),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
सिंह सौम्यता (30872),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
सिंह प्रेरणा (30873),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
बंद्रोपाध्याय दियांनिता (30870)	29 जनवरी 16 से प्रभावी

लेखा शाखा

यादव पूजा (30878),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
अंतिल अनिता (30876),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
सिंह विभा (30879),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
बाली अंकिता (30877),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

भटनागर अनुकृति (30881),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
कौर परविंदरजीत (30880),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

वशिष्ठ अनु (30345),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
शर्मा मेघा (30346),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
ठाकुर मीनाक्षी (30348),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
गुर प्रतिभा (30349),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
कुमारी सुमिता (30352),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
शर्मा रुही (30350),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
राधाकृष्णन श्रीरेखा कोटराथिल (30351),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

यादव बृजेन्द्र सिंह (30802),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
मुदगल पंकज (30804),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
गोस्वामी मनोज पुरी (30803),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
सिंह महेन्द्र (30796),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
मिर्जा मोहम्मद रकीबुर (30801),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
सिंह मनोज कुमार (30798),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
त्यागी गीत (30799),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
कुमार आशीतोष (30800),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
सेखों अटल सिंह (30797),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

गुप्ता जवाहर लाल (30805),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
सिंह अमरदीप (30808),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
राणा मनप्रीत सिंह (30809),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
महंत बिस्वदेव (30806),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी

लेखा शाखा

रेड्डी गनुगपेंता जयवर्धन (30810),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
-----------------------------------	--------------------------

शिक्षा शाखा

आर्या विनोद कुमार (30811),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
----------------------------	--------------------------

मौसम विज्ञान शाखा

मिश्रा सुमित (30343),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
मैतई युम्नन सरतचन्द्र (30344),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

घोले असरुबा (30813),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
महाजन अखिल (30817),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
मान मेहुल (30818),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
नाइक यतिन सीताराम (30819),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
मंदावगने निनाद अनिल (30820),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
कुमार योगेन्द्र (30821),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
शेखावत आकाश सिंह (30822),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
यादव जामवंत (30824),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
पांके प्रीतिश रविन्द्र (30825),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
गांवकर प्रथमेश मोहन (30828),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
सिंह जयवीर (30829),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
पंचाबुद्धे कृपाल पुरुषोत्तम (30832),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
गांदीकोटा जगन मोहन (30835),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
शर्मा अभिषेक (30836),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
शिन्दोदे प्रदीप दिनेश (30837),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
कुमार राजामणिकम एंथनी राजेश (30828),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
देसाई रंजीत राजेन्द्र (30839),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
रावत मोहित (30840),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी

सिंह मोयरंगतेम कृष्णब (30841),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
दावेरा नरेन (30843),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
आर्या प्रणव (30814),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
देसाई आदित्य विश्वास (30815),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
भारद्वाज प्रशांत (30816),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
सिंह शैलेन्द्र प्रताप (30831),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

जामवाल धीरज (30846),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
उपाध्याय अनूप कुमार (30849),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
शेखर हिमांशु (30844),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
वालिया सौरभ (30845),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
मौर्य उपेश कुमार (30847),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
कौशिक दीपक (30848),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

अरुण अंशुल (30850),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
शुक्ला कृष्ण कुमार (30851),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

स्वामी संजय कुमार (30812),	24 दिसम्बर 15 से प्रभावी
----------------------------	--------------------------

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के स्थायी रैंक में

विंग कमांडर सुधांशु दूबे (24535)एफ (पी)

निम्न को

दुबे सुधांशु (24535) प्रशासन,	21 जून 2010 से प्रभावी
-------------------------------	------------------------

निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा

दुबे सुधांशु (24535) एफ (पी),	21 जून 2010 से प्रभावी
-------------------------------	------------------------

(प्रशासनिक शाखा में विंग कमांडर के रैंक में पदोन्नति होने पर उपर्युक्त अफसर से संबंधित रक्षा मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना क्रम सं0 10/98/2013 पूरी तरह से रद्द की जाती है)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर के नाम के सामने दी गई तारीख से अफसर को प्रशासनिक शाखा से उड़ान (पी) शाखा में स्थानांतरित करते हैं और उनकी वरिष्ठता उड़ान शाखा में इस प्रकार समायोजित की जाएगी जैसे कि उन्हें मूल रूप से उस शाखा में ही कमीशन प्रदान किया गया था। इन्हे वायु सेना की सूची में विंग कमांडर बाजवा अवतार सिंह (24530)एफ (पी) और विंग कमांडर गौड शरद डोमिनिक (24537) एफ (पी) के बीच रखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय (वित्त/वायु/वेतन) आई डी सं0/1210/04/पी एण्ड डब्ल्यू/ए एफ/05 दिनांक 25 जनवरी 05 और अशासकीय पत्र सं0 408/पी एण्ड डब्ल्यू/ए एफ दिनांक 27 जुलाई 18 की सहमति से।

भारतीय वायु सेना

शाखा से स्थानांतरण

निम्न को

दुबे सुधांशु (24535) प्रशासन,	07 अक्टूबर 03 से प्रभावी
-------------------------------	--------------------------

प्रशासन सेएफ (पी)

निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा

दुबे सुधांशु (24535)एफ (पी),	07 अक्टूबर 03 से प्रभावी
------------------------------	--------------------------

(प्रशासनिक शाखा में विंग कमांडर के रैंक में शाखा स्थानांतरित होने पर उपर्युक्त अफसर से संबंधित रक्षा मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना क्रम सं.19/221/2004 पूरी तरह से रद्द की जाती है।)

	विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के स्थायी रैंक में
	ए ई एल शाखा
सुधीर नसियर (21417),	28 सितंबर 2016 से प्रभावी
आर कर (21445),	28 सितंबर 2016 से प्रभावी
	प्रशासनिक शाखा
आर एस सीसोदिया (20593)	15 दिसम्बर 2016 से प्रभावी
	स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के स्थायी रैंक में
	ए ई एल शाखा
बिके उपध्याय (28430)	29 जून 2016 से प्रभावी
	ए ई एम शाखा
पि कुमार (28857)	30 दिसम्बर 2016 से प्रभावी
	फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के स्थायी रैंक में
	एफ पी शाखा
एस अगरवाल (31561)	18 दिसम्बर 2016 से प्रभावी
	ए ई एल शाखा
एन रोहित (21410),	28 सितंबर 2016 से प्रभावी
	एफ पी शाखा
एस के सैनी (21021),	15 दिसम्बर 2016 से प्रभावी
टी ए श्रीनाथ (21269),	15 जून 2017 से प्रभावी
	लेखा शाखा
एस के मुर्ती (20636)	15 दिसम्बर 2016 से प्रभावी
	स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के स्थायी रैंक में
	ए ई एल शाखा
आर अरुण कुमार (27522)	21 जून 2016 से प्रभावी
	एफ पी शाखा
वर्मा चैतन्य कुमार (21268)	15 जून 2017 से प्रभावी
मोहम्मद असरार इसमाइल (21243)	15 जून 2017 से प्रभावी
	स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के स्थायी रैंक में
	प्रशासनिक शाखा
नायर जयचन्द्रन गोपालाकृष्णन (28293)	18 दिसम्बर 2017 से प्रभावी
मिश्रा मनोज कुमार (27819)	20 दिसम्बर 2016 से प्रभावी
सिन्हा मनोज कुमार (27820)	20 दिसम्बर 2016 से प्रभावी
शेटीपति कौंडलराव (28057)	19 जून 2017 से प्रभावी

	संभारिकी शाखा
सिंह निवास कुमार (27821)	20 दिसम्बर 2016 से प्रभावी
	लेखा शाखा
कुटप्पन बालाचंद्रन (27822)	20 दिसम्बर 2016 से प्रभावी
प्रामाणिक उत्तम कुमार (27823)	20 दिसम्बर 2016 से प्रभावी
	एई(एम) शाखा
हेगडे गजानन वेंकटरमण (27813)	19 दिसम्बर 2016 से प्रभाव
	एई(एल) शाखा
शर्मा हरि कृष्ण (27814)	19 दिसम्बर 2016 से प्रभावी
शर्मा चिरंजी लाल (27815)	19 दिसम्बर 2016 से प्रभावी
सिंह संजीव कुमार (27816)	19 दिसम्बर 2016 से प्रभावी
चतुर्वेदी धर्मेन्द्र (27818)	18 जनवरी 2017 से प्रभावी
	स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के रैंक में
	एफ पी शाखा
वत्स दुष्यंत (27484)	21 जून 2016 से प्रभावी
	फ्लाइट ऑफिसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट के स्थायी रैंक में
	ए ई एल शाखा
समृद्ध प्रभाकर (33357)	30 जून 2015 से प्रभावी
	स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के स्थायी रैंक में
	ए ई (एम) शाखा
सैम नितिन थॉमस (27574),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
	ए ई (एल) शाखा
नारायणन सुदीश (27611),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
	ए ई (एम) शाखा
दत्त आनंद (27932),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
लेंडे पंकज (28299),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
व्यास सन्नी (27934),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
चतुर्वेदी शिशिर (27926),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
निमल डी (28300),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
जोसेफ जॉर्ज (28298),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
शर्मा अनूप कुमार (28301),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
विश्वकर्मा राजन (27825),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
मिश्रा अर्पण (27826),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
नटराजन महेन्द्रन (27827),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
संजीव विनोद (27828),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
निखिल एम (27829),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
कोटुर हर्षवर्धन एस (27830),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
सौरभ मोहन (27831),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
कुरुप गोपालकृष्ण वेणु (27832),	03 जनवरी 16 से प्रभावी

रेबेरो बासिल ऑस्कर (27833),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
गोविन्द जागीरदार निलेश (27834),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
कुमार अनिल (27835),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
विश्वनाथ नरेडला (27836),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
कुमार सुरेश (27837),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
रामराव हजारे मनोज (27839),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
नागेन्द्र डीए (27840),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
सिंह युद्धवीर (27841),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
गोयल विशाल (27842),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
कार्तिक राजारतिनम (27843),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
राजगोपालन नटराजन (27845),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
देशमुख समीर सुधीर (27846),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
प्रदीप रामाचन्द्रन (27847),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
जोशवा गोला (27933),	03 जनवरी 16 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

परिहार योगेश (27915),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
दहिया तरुण शक्ति (27916),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
बोस कल्लोल (27930),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
चन्द्रशेखर श्रीकुमार (28303),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
मुखर्जी सोमनाथ (28304),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
बनर्जी बिमन (28305),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
नारायणन जैमी मूंजेली (28306),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
जॉन सचिन टॉम (27917),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
सुब्रमण्यम कार्तिक (27931),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
शुक्ला अभिनय (27918),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
चौहान पृथ्वीराज सिंह (27919),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
पंडारी सतीश कुमार (27922),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
जोशी तुषार (27920),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
ओझा पूरन देव (27923),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
गर्ग विनीत (27921),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
कृष्णन गिरीश (27925),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
नाथ सुरदीप (27928),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
रामाचन्द्रन काशीनाथन (27929),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
मणि कंदन नाबियार जी (28307),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
दास अभिनंदन (27848),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
जयराम नवीन कुमार (27849),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
देबनाथ संदीप (27850),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
मुथुवेल संपत कृष्णन (27851),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
छिब्वर विक्रम (27852),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
पाधी पंकज कुमार (27853),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
रस्तोगी तुषार (27854),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
गिरी बैनेहलैंग डीखर (27855),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
सिंह अभिषेक (27856),	03 जनवरी 16 से प्रभावी

वर्मा मनीष कुमार (27857),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
कौरा निमीत (27858),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
कपूर अनुपम (27859),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
सेन नयन कुमार (27860),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
बाजिया रवि कुमार (27862),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
ए ई (एल) शाखा	
पाटिल रविशंकर (27863),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
त्यागी अभिषेक (27864),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
खन्ना चिंतन (27865),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
बख्शी नितिन (27866),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
वीतिल प्रसाद काल्यत तलातु (27867),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
आनंद बलजीत सिंह (27868),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
नाडकर्णी विहंग प्रमोद (27871),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
गाधीराजु किशोर राजु (27872),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
परमेश्वरन सुधीर (27873),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
बलानी मनीष (27875),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
प्रमाणिक प्रसेनजीत (27876),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
मठपाल गिरीश चन्द्र (27877),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
गुप्ता मेहुल (27878),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
रस्तोगी मनीष (27880),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
जैकब अब्राहम (27881),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
चन्द्रू एम (27882),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
सिंह अमरदीप (27883),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
आनंद रोहित (27884),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
राधाकृष्णन रविन्द्रनाथ सेंथिल कुमार (27885),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
करण आशीष (27886),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
गोपाल मनु (27887),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
शर्मा सुमित (27888),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
प्रभु दीपक कृष्णानंद (27889),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
द्विवेदी गौरव (27890),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
वर्मा निशांत (27891),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
मैत्रा अनिर्बन (27892),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
गणेश कन्नन कन्नन (27893),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
मैथ्यू डी मेलो फ्रांसिस (27894),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
लक्ष्मय्या उपद्रष्टा विद्यासागर (27895),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
राज यशवंत आर (27896),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
सिंह अरुण (27897),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
धनशेखर एम (27898),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
कायस्थ मुकुल (27899),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
रहमान अब्दुल (27900),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
श्रीकांत पी ए (27901),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
दहिया मनीष (27902),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
सदाशिवन सचिन (27903),	03 जनवरी 16 से प्रभावी

तिवारी आशीष (27904),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
बाठ तेजिन्दर सिंह (27905),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
अनुप्रसाद टी (27906),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
जाधव अर्जुन (27907),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
विन्सेंट विट्स सुजैन (27908),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
भट्टाचार्य दीप्तिमान मुखी (27910),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
कारंदीकर गौरव रामकृष्ण (27911),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
नानू सुधाकरन पिल्लै (28302),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
धर्म वीर (27912),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
जुवनसिंह चूडसमा नरेन्द्रसिंह (27913),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
कालरा सौरभ (27914),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
नारायणन वाई अनंत (27614),	03 जनवरी 16 से प्रभावी
राघवाचार्य पेरुसोमला (27629),	03 जनवरी 16 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

मेहर बिनय भूषण (27263),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
राकेश कुमार (27258),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
पिल्लै वसंत कुमार एस (27265),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
अरोड़ा नितिन (27264),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
रेड्डी विद्या सागर एम (27255),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
राजेश कुमार एम एस (27254),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
डागा प्रणय (27249),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
पलावल्ली वाम्सी कृष्णा (27242),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
शर्मा मनीष (27261),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
अहमद शोएब (27260),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
सिंह मनोज कुमार (27244),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
मिश्रा ब्रह्मनंद (27251),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
मनोज कुमार (27262),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
जॉनसन जिम्मी (27245),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
चौधरी रमन कुमार (27250),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
बाबू अशोक आर (27243),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
चतुर्वेदी अक्षत (27246),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
कुमार गणेश एस (27247),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
तनेजा विकास (27248),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
राव चिट्ठी रेड्डी मोहन (27252),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
कुमार मनोज (27253),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
मयूरन एम (27256),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
सिंह विकास (27257),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
गुप्ता नीरज (27259),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

गणपति डी (27267),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
चौधरी दीपक (27266),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
विजय कुमार (27269),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
तुला राम (27274),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी

ठाकुर विक्रम (27275),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
शर्मा अजय कुमार (27268),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
कालान शक्ति सिंह (27276),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
मोहिन्दू ऋषि राज (27270),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
तिवारी दिनेश कुमार (27273),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
आदर्श अभिषेक (27271),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
यादव सम्राट (27270),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

घुमन प्रभजोत कौर (27283),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
धस्माना दक्षिणा भारती (27281),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
ठाकुर नीता (27285),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
पिल्लई रूपा पी (27282),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
धावड़े अस्मिता पुरुषोत्तम (27287),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
नेहरा दीपिका (27284),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

मीनाक्षी (27291),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
खरे रुचि (27294),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
भदौरिया आरती (27293),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
थॉमस जिन्सी (27292),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
सक्सेना वर्षा (27290),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

मिश्रा आशीष (27231),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
जोशी विपुल (27234),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
राउत सारदा प्रसन्ना (27235),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
शर्मा मनन (27236),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
रॉय रूपक (27237),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
काकुंजे शिव कुमार (27233),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
सांगवान रोहित (27239),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

सिंह विशाल (27240),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
नंदी तन्मोय (27238),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

धाबी भीकाजी रामाजी (27299),	17 जनवरी 16 से प्रभावी
पांडेय अरुण कुमार (27300),	17 जनवरी 16 से प्रभावी
नरेश कुमार (27298),	17 जनवरी 16 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

घोष अजीत कुमार (27301),	17 जनवरी 16 से प्रभावी
-------------------------	------------------------

एफ (पी) शाखा

प्रणव राज (27193),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
भाटिया वरुण (27196),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी

सागर शक्ति (27222),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
रावत नितिन (27199),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
हल्देकर पल्लव (27200),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
टम्टा अमित राय (27202),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
राणा सत्येन्द्र सिंह (27206),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
रेड्डी गोविन्दु दिनेश कुमार (27211),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
गुलिया मनीष (27213),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
मराठे शैलेन्द्र सुरेन्द्र (27230),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
खान सैफुल इस्लाम (27215),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
कटोच रोहित (27218),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
नीरज कुमार (27220),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
सतीश भोपी समीत (27221),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
कुमार अदीश प्रेम (27229),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
अग्रवाल राजेश (27197),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
हूडा मनदीप (27204),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
कांदलकर योगेश्वर के (27207),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
जौहरी यथार्थ (27210),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
दीक्षित नीलेश (27216),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
लाल सैदीप (27224),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
विनायक अगाशे आनंद (27228),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
धनखड़ आशीष (27194),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
कृष्णकांत पी (27195),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
अरोड़ा चितवन (27198),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
सांगवान अमित (27201),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
अवस्थी गौरव (27203),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
आजम अली (27205),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
धनंजय जगताप राहुल (27212),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
भटनागर गौरव (27214),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
दास बिकाश कुमार (27217),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
कुलकर्णी अमित हरिभाऊ (27219),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

पूनिया राजेश (27208),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी
चावला संदीप डी (27223),	21 दिसंबर 15 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

महाजन करण (30763),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
मुदगिल पंकज (30765),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
चौधरी मानवेन्द्र कुमार (30754),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
पठानिया प्रशांत सिंह (30755),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
आर्यन यश (30756),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
महालनोबिस रूप (30757),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
पोवार संदीप कृष्णाजी (30761),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी

महतो रोशन (30751),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
सैनी गगन जीत सिंह (30752),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
देसाले तन्मय दिलीप (30766),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
कुमार मनोज (30776),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
कुमार अभिषेक (30777),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
शर्मा पवन (30780),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
अनूप एस एल (30787),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
सक्सेना अंकुर (30716),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
शर्मा नितिन (30737),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
खत्री अमित (30739),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
सिंह हरजसलीन (30741),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
स्याल नमांश (30742),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
चेंगप्पा तिममाया मंडपांडा (30743),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
कुमार राजेश (30745),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
प्रसाद दीपक (30746),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
शेखर रवि (30750),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
गोपीकृष्णन पी (30719),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
वलियावीट्टिल सुधीप (30721),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
देसवाल राजेश (30722),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
सिंह अभिमन्यु (30725),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
सिंह जसपाल (30730),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
धेमुद संकल्प शिवाजी (30732),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी

स्ववाङ्मन लीडर से विंग कमांडर के स्थायी रैंक में

प्रशासनिक शाखा

सतेन्द्र कुमार चौहान (25193)	02 अप्रैल 2012 से प्रभावी
एसयूएनडीईआरईएसएन अय्यर (25197)	02 अप्रैल 2012 से प्रभावी
तपेश चौधरी (25206)	02 अप्रैल 2012 से प्रभावी
श्रीनिवास प्रसाद गिद्धा (25207)	02 अप्रैल 2012 से प्रभावी
एम दुरई राज (25208)	02 अप्रैल 2012 से प्रभावी
अनीश कुमार नायर (25210)	02 अप्रैल 2012 से प्रभावी
अनिल कुमार मलीक (25211)	02 अप्रैल 2012 से प्रभावी
पि प्राजेश (25212)	02 अप्रैल 2012 से प्रभावी
एन मंजुनाथ (25221)	02 अप्रैल 2012 से प्रभावी
अचिन पिल्लई (25223)	02 अप्रैल 2012 से प्रभावी
जीएन सतीश (25226)	12 अप्रैल 2012 से प्रभावी
शांतनु (25228)	12 अप्रैल 2012 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

देवी लाल (27308),	17 जनवरी 2016 से प्रभावी
सक्सेना अनिल कुमार (27302),	17 जनवरी 2016 से प्रभावी
शुक्ला राकेश कुमार (27304),	17 जनवरी 2016 से प्रभावी
इलामुगुरु पोरचेलवान एम (27305),	17 जनवरी 2016 से प्रभावी
शर्मा सुशील कुमार (27303),	17 जनवरी 2016 से प्रभावी
माम चंद (27306),	17 जनवरी 2016 से प्रभावी
यादराम (27307),	17 जनवरी 2016 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

वत्स रविंदर कुमार (27309),	17 जनवरी 2016 से प्रभावी
----------------------------	--------------------------

प्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के स्थायी रैंक में

एफ (पी) शाखा

सूद शिखा (30853),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
धावले नेहा (30857),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
राठी अंजलि (30856),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी
प्रकृति रमेश (30854),	24 दिसंबर 15 से प्रभावी

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के स्थायी रैंक में

एफ (पी) शाखा

दिनेश सभरवाल (26899),	18 मार्च 15 से प्रभावी
-----------------------	------------------------

स्क्वाड्रन लीडर से स्थायी विंग कमांडर

प्रशासन

नायर सुनील जनार्दनन (26752),	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
जोशी सुरेश (26753),	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
चेरियन जिम्मी (26754),	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
अधिकारी सुमन (26755),	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
अंबरीश (26756),	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
मेनन विजय कुमार सी एन (26757),	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
सलारिया विजय प्रताप सिंह (26758),	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
सिंह अजीत (26759),	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
घोल्वा निरंजन दिलीप (26760),	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
रुद्रशंकर बलियार सिंह (26761),	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
एंटी लिलेन (26762)	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
श्रीवास्तव प्रियांग प्रकाश (26763)	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
सुबैया टी पी (26764)	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
शर्मा रितेश (26766)	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
यादव अजय कुमार (26767)	15 दिसंबर 14 से प्रभावी

संभारिकी

पाण्डे मनोज कुमार (26769),	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
सिंह वीरेन्द्र (26770),	15 दिसंबर 14 से प्रभावी
राय संजय कुमार (26771)	15 दिसम्बर 14 से प्रभावी
माधवन मुरली (26772)	15 दिसम्बर 14 से प्रभावी
विनोद कुमार बी (26774)	15 दिसम्बर 14 से प्रभावी
किशोर लक्ष्मण ए (26775)	15 दिसम्बर 14 से प्रभावी
राणा मोहन (26776)	15 दिसम्बर 14 से प्रभावी
गुरू प्रसाद बी आर (26777)	15 दिसम्बर 14 से प्रभावी

पलाइंग अफसर से पलाइट लेफ्टिनेंट के स्थायी रैंक में

एफ (पी) शाखा

गिन्नी चौधरी (32216),	29 दिसंबर 13 से प्रभावी
नाज़िया मोदिन नदाफ़ (32214),	29 दिसंबर 13 से प्रभावी
निशा नैन (32215),	29 दिसंबर 13 से प्रभावी

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टी एस) के स्थायी रैंक में

एफ (पी) शाखा

चोपड़ा पंकज (21555),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
दन्द्दपनी सेंधील कुमार (21539),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
शर्मा अशोक कुमार (21566),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
सिंह शिव राम (21570),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
सिंह जितेन्द्र (21522),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
चीमा जी एस (21577),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
छाबरा संदीप सिंह (21512),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
कालिया संजीत सिंह (21552),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
आनंद राव टी एच (21560),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
मरचिहो यशवंत (21571),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

राव इगा प्रसाद (21618),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
वेलायुधन सुनील (21610),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
चटर्जी पिनाकी (21625),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
सतदेव मनोज कुमार (21621),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
फिलिप सुरेश (21611),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
अग्रवाल अनिल (21606),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
शर्मा राजेन्द्र कुमार (21623),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
तमांग रोहित चन्द्र (21612),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
सिंह जगविंदर जीत (21620),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
तांगरी एस एम (21622),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
शर्मा राजेश (21607),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
चौधरी अभिजीत (21617),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
कपूर अविनाश (21615),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
त्रिपाठी राकेश (21619)	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

रेड्डी वांगा कृष्णकांथ (21640),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
श्रीवास्तव आलोक (21641),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
प्रदीप हुघ मास्करनकांथ (21648),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
संजीव कुमार (21645),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
विधानी विवेक (21632),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
मेनजैस अक्वेनस पॉल (21644),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
भास्करन पुथुमंगलथ पुरुषोत्थमन (21638),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
शेनॉय प्रभाकर प्रेमानंद (21636),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
त्यागी अजय कुमार (21629),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
चंद्रशेखर एम एस एस (21646),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
शंकर रजत (21647),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
सिंह हरप्रीत (21634),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी

लेखा शाखा

नायर राकेश कुमार (21650),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
जोशी अवनीश (21654),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
संजय कुंदु (21657),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

नंदकरनी यतिन मोहन (21593),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
आहलुवालिया दीपक (21602),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
प्रसाद संकरा नीलकंदा (21588),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
जैन विपिन कुमार (21598),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
झा अजीत कुमार (21600),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
पॉल श्यामल कुमार (21586),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
प्रवीण एन पी (21590),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
पंवर राजीव (21592),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
रवि किरण (21589),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
सिंह संजय कुमार (21597),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

संजीव एस (21595),	14 दिसम्बर 17 से प्रभावी
-------------------	--------------------------

ए ई (एम) शाखा

थॉमस के अब्राहम (22370),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
समीर प्रभाष कंवलकर (22361),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
सुनील कुमार लालवानी (22360),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
अप्पिनी चक्रधरम (22375),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
रायदुर्गा शुद्धला नागराज (22371),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
मनोज कुमार शर्मा (22365),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
जी सतीश चन्दर (22364),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
सिंगम शेटी जगदीश (22372),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

आत्रे आर जगदीश (22399),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
यादव राजेश कुमार (22407),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
रियाज़ पी एम (22059),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
मिश्रा श्रीकुमार (22387),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
कृष्ण मोहन येल्लापडडी (22401),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
बरादिया जितेन्द्र कुमार एन (22406),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
वेंकटेश के एन (22414),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
साहनी अतुल (22419),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
ढागा संदीप (22383),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
मिश्रा सिबसंकर (22385),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
गुप्तन ससि (22395),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
श्रीवास्तव राजेश (22389),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
पिल्लई बिजु भास्करन (22393),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
काले विश्वास शंकर (22388),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
दंताले हरीश सी (22411),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
देशमुख रवि रामाराव (22394),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
झा अबदेश कुमार (22021),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
क्षीरसागर नितिन नारायण (22408),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
गोपाराजु रमना कुमार (22403),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
सिंहधरम पाल (22400),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
मलिक जावेद अनायत (22402),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
सिंह बिरेन्द्र (22397),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
सुरेश बाबु किज़ाक्के वलपिल (22386),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
साहु राजेश (22382),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

जयकिश जे (22427),	04 अप्रैल 18 से प्रभावी
-------------------	-------------------------

एफ (पी) शाखा

चौहान अनिल (21721),	08 फरवरी 18 से प्रभावी
सहगल ललित (21723),	08 फरवरी 18 से प्रभावी
गिल भूपेन्द्र सिंह (21253)	15 जून 17 से प्रभावी
जोसफ दीपक (21277)	15 जून 17 से प्रभावी
कोच्चर गुरप्रीत सिंह (21278)	15 जून 17 से प्रभावी
सेठी अविनाश चन्द्र (21264)	15 जून 17 से प्रभावी
जेजी जयदीप सिंह (21281)	15 जून 17 से प्रभावी
गुप्ता पंकज (21218)	15 जून 17 से प्रभावी
कुशवाहा अविनाश (21260)	15 जून 17 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

शर्मा बिमल कुमार (21324)	15 जून 17 से प्रभावी
चंदावत रणवीर सिंह (21316)	15 जून 17 से प्रभावी
सिंह हितेन्द्र पाल (21307)	15 जून 17 से प्रभावी
नरेन जी यू (21345)	15 जून 17 से प्रभावी

धवन संजय (21344)	15 जून 17 से प्रभावी
गुप्ता राजीव (21331)	15 जून 17 से प्रभावी
नाथ सुब्रोतो कुमार (21315)	15 जून 17 से प्रभावी
जोसफ विल्सन (21311)	15 जून 17 से प्रभावी
कांबुकल जोसफ जेम्स (21332)	15 जून 17 से प्रभावी
कुमार कंदराल राजेन्द्र (21348)	15 जून 17 से प्रभावी
मिश्रा नवीन (21338)	15 जून 17 से प्रभावी
नडार हिलेरी एडवर्ड (21334)	15 जून 17 से प्रभावी
पाठक दीपेश (21330)	15 जून 17 से प्रभावी
नंदकुमार इकन्दथ (21325)	15 जून 17 से प्रभावी
सिंह राकेश (21341)	15 जून 17 से प्रभावी
शर्मा अकेल्ला रवि नरसिम्हा (21313)	15 जून 17 से प्रभावी
त्रिपाठी वंछित (21320)	15 जून 17 से प्रभावी
आहुजा वासुदेव (21317)	15 जून 17 से प्रभावी
कुमार समेश (21308),	15 जून 17 से प्रभावी
अमृत अतुल अरविंद (21322),	15 जून 17 से प्रभावी
मोहन वाराणसी कृष्ण (21319),	15 जून 17 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

त्रिपाठी अरूण (21357),	15 जून 17 से प्रभावी
अवस्थी मृदुल (21362),	15 जून 17 से प्रभावी
रत्तन शुभ (21354),	15 जून 17 से प्रभावी
मारवाह प्रदीप (21351),	15 जून 17 से प्रभावी
तोमर सतीन (21356),	15 जून 17 से प्रभावी
बाबु अमलान आर (21352),	15 जून 17 से प्रभावी
गोसाईं संजीव कुमार सिंह (21358),	15 जून 17 से प्रभावी
चंद्रा रोहित (21360),	15 जून 17 से प्रभावी
शर्मा दीपक (21363),	15 जून 17 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

श्रीनिवास इमानी (21377),	15 जून 17 से प्रभावी
नटराज तिरुमलिसामी (21369),	15 जून 17 से प्रभावी
चौहान युवराज सिंह (21374),	15 जून 17 से प्रभावी
भटनागर रविन्द्र (21372),	15 जून 17 से प्रभावी
कुमार आनंद (21370),	15 जून 17 से प्रभावी
कटियार आयुष (21376),	15 जून 17 से प्रभावी
जेम्स वलियाथाल्ज़ाथु थॉमस (21367),	15 जून 17 से प्रभावी
मोहापात्रा प्रदीप कुमार (21373),	15 जून 17 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

रामाराव वेंकट कोथा (20816),	15 जून 17 से प्रभावी
मिश्रा ससंक शेखर (20815),	15 जून 17 से प्रभावी
चतुर्वेदी सौमित्र (20814),	15 जून 17 से प्रभावी
मेहता अनुपम (20813),	15 जून 17 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

थॉमस सज़िमोन (21288),	15 जून 17 से प्रभावी
कश्यप अरुण प्रसाद (21286),	15 जून 17 से प्रभावी
धाम्ने नितिन शांताराम (21291),	15 जून 17 से प्रभावी
चक्रवर्ती दीपांकर (21295),	15 जून 17 से प्रभावी
कुलकर्णी महेश कुमार (21299),	15 जून 17 से प्रभावी
स्वीट्टेन्स के ए एफ (21298),	15 जून 17 से प्रभावी
मित्रा देवजीत (21289),	15 जून 17 से प्रभावी
अग्रवाल विजय कुमार (21293),	15 जून 17 से प्रभावी
दीक्षित संजय (21297),	15 जून 17 से प्रभावी
अत्रेया प्रशांत (21300),	15 जून 17 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

श्रीश प्रदीप (22007),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
मालि वेणु माधव रेड्डी (22097),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
चौधरी दीपक राय (22101),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
सिंह सुनील कुमार (22096),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
गोपाकुमार रविन्द्रन नायर (22012),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
चाको थॉमस (22008),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
क्रिस्टोफर जूलियन (22010),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
श्रीधरन विनोद (22102),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
कवाडे मुरलीधर ए (22016),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
शीनु जी (22099),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

जानी सजल एन (22032),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
मुगेश राजेश्वरन (22027),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
बरेच दलजीत सिंह (22052),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
शुक्ला अमोल अरुण (22065),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
भारद्वाज विनय (22022),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
गोल कमल दीप (22037),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
कोहली अनिल (22051),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
मुरुगनंदम वेंकटाचलम (22062),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
पटेल सुनील वी (22043),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
भरत नर्सिम्हन नायडू (22029),	04 अक्टूबर 18 से प्रभावी
गणेश जय (22095),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी
परान्जपे नीरज विनय कुमार (22094),	04 अक्टूबर 17 से प्रभावी

के इलंचेलियन
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक
कार्मिक अफसर— 3 (डी)

(सेना शाखा)

सं. 12, दिनांक 18 दिसम्बर 2018—को राष्ट्रपति जी निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले0कर्नल से कर्नल (समय मान द्वारा) के मूल रैंक में

आई सी सं.	रैंक	नाम	आर्म	सबसटेंटिब तिथि
46876एक्स	ले कर्नल	पी जे श्रीखंडे	ए ओ सी	07 नवम्बर 2017
46904वाई	ले कर्नल	हरि प्रसाद	इंफैंट्री	07 नवम्बर 2017
46917डब्ल्यू	ले कर्नल	आर बी सिंह	आर्टी	22 अप्रैल 2018
46927ए	ले कर्नल	एन आर भिडे	आर्टी	22 अप्रैल 2018
49783एन	ले कर्नल	आर कटोच	ए सी	09 जून 2016
50612एन	ले कर्नल	आर एस शेखावत	इंफैंट्री	08 जून 2017
50813एम	ले कर्नल	के आर सिंह	ई एम ई	14 दिसम्बर 2017
51024के	ले कर्नल	विनय बाली	ए ओ सी	14 दिसम्बर 2017
52683एन	ले कर्नल	ए डेनियल	इंजीनियर्स	15 दिसम्बर 2017
वी-00467एल	ले कर्नल	के बी मृत्युंजय	आर वी सी	20 जनवरी 2017
46956पी	ले कर्नल	पी हरदास	ए सी	22 अप्रैल 2018
51044ए	ले कर्नल	एस पाल	ई एम ई	14 दिसम्बर 2017
51048डब्ल्यू	ले कर्नल	ओ एस सी सिंह	गार्ड्स मैक	14 दिसम्बर 2017
51141एक्स	ले कर्नल	अजय भूषण	ई एम ई	13 जून 2018
51215एफ	ले कर्नल	सतीश कुमार	आर्टी	13 जून 2018
51262वाई	ले कर्नल	संजय कुमार	आर्मी एविएशन	13 जून 2018
51304ए	ले कर्नल	संजीव सिंह	इंफैंट्री	13 जून 2018
51320एक्स	ले कर्नल	विरेन्द्र सिंह	इंफैंट्री	13 जून 2018
51322एच	ले कर्नल	एम रॉथन	इंफैंट्री	13 जून 2018
51351एक्स	ले कर्नल	एम पी विजयन	इंफैंट्री	13 जून 2018
51352ए	ले कर्नल	ए पांडे	ए एस सी	13 जून 2018
51353एच	ले कर्नल	विजय सिंह	इंफैंट्री	13 जून 2018
51354एल	ले कर्नल	टी एच लूवांगचा	इंफैंट्री	13 जून 2018
51357वाई	ले कर्नल	अजय उनियाल	इंफैंट्री	13 जून 2018
51380एम	ले कर्नल	ए के पाठक	ई एम ई	13 जून 2018
51381पी	ले कर्नल	अमरेन्द्र जीत सिंह	ए ए डी	13 जून 2018
51384एच	ले कर्नल	के आर कृष्णा	इंफैंट्री	13 जून 2018
51419एन	ले कर्नल	एस एस ठाकुर	ए ई सी	13 जून 2018
53087एन	ले कर्नल	हेमंत कुमार दवे	इंजीनियर्स	14 जून 2018
53098ए	ले कर्नल	एस के नायक	ई एम ई	14 जून 2018
50871डब्ल्यू	ले कर्नल	एन अबरोल	आर्टी	14 दिसम्बर 2017
50898एन	ले कर्नल	अवतार सिंह	इंफैंट्री	14 दिसम्बर 2017
50977एच	ले कर्नल	एम वी जोशी	इंफैंट्री	14 दिसम्बर 2017
50978एल	ले कर्नल	मुनीश पब्बी	इंफैंट्री	14 दिसम्बर 2017
51079डब्ल्यू	ले कर्नल	एस एच रानाडे	सिग्नल्स	14 दिसम्बर 2017

51171पी	ले कर्नल	आई पी मिश्रा	ए ओ सी	13 जून 2018
51172एक्स	ले कर्नल	बी प्रसाद	इंफैंट्री	13 जून 2018
51208एल	ले कर्नल	एस जग्गी	ए एस सी	13 जून 2018
51256एल	ले कर्नल	जयवीर सिंह	ए एस सी	13 जून 2018
51259वाई	ले कर्नल	आई एस मान	ए एस सी	13 जून 2018
51293वाई	ले कर्नल	संदीप शर्मा	ई एम ई	13 जून 2018
51296एम	ले कर्नल	एस तल्लापनेनी	इंफैंट्री	13 जून 2018
51303एक्स	ले कर्नल	सुमित पंत	इंफैंट्री	13 जून 2018
51312वाई	ले कर्नल	यू के रॉय	ए एस सी	13 जून 2018
51329एम	ले कर्नल	एस के सिंह	ई एम ई	13 जून 2018
51332एम	ले कर्नल	गौतम दास	ए ए डी	13 जून 2018
51335ए	ले कर्नल	डी मिश्रा	आर्टी	13 जून 2018
51342डब्ल्यू	ले कर्नल	डी पी एस यादव	इंफैंट्री	13 जून 2018
51360वाई	ले कर्नल	बी पराशर	ए एस सी	13 जून 2018
51363एम	ले कर्नल	आर गोयल	ए ओ सी	13 जून 2018
51394एम	ले कर्नल	आर के सदाना	इंफैंट्री	13 जून 2018
51417एच	ले कर्नल	डी एस राठौर	एम एफ	13 जून 2018
52326एल	ले कर्नल	एस के सिंघल	इंजीनियर्स	12 जून 2017
53067ए	ले कर्नल	एस शर्मा	ई एम ई	14 जून 2018
53085एच	ले कर्नल	एस वोहरा	सिग्नल्स	14 जून 2018
53095एम	ले कर्नल	जे पी सिंह	इंजीनियर्स	14 जून 2018
53112एफ	ले कर्नल	एन के चतुर्वेदी	इंजीनियर्स	14 जून 2018
55063एच	ले कर्नल	शशि कुमार	इंजीनियर्स	19 अप्रैल 2018
51076एच	ले कर्नल	एस के सिंह	ए एस सी	14 दिसम्बर 2017
51189एल	ले कर्नल	पी सभरवाल	आर्मी एविएशन	13 जून 2018
51214वाई	ले कर्नल	ए के आहूजा	इंफैंट्री	13 जून 2018
51330एफ	ले कर्नल	आर डी सिंह	मैक इंफैंट्री	13 जून 2018
51387डब्ल्यू	ले कर्नल	बी एस गहलावत	इंफैंट्री	13 जून 2018
53092वाई	ले कर्नल	मनोज कुमारए वी	ई एम ई	14 जून 2018
46937के	ले कर्नल	पी ए न्यूटन	इंफैंट्री	22 अप्रैल 2018
50735ए	ले कर्नल	ए के वशिष्ठ	ए ओ सी	14 दिसम्बर 2017
50904डब्ल्यू	ले कर्नल	वी सरदाना	सिग्नल्स	14 दिसम्बर 2017
51147वाई	ले कर्नल	ए के यादव	ए ओ सी	13 जून 2018
51232एफ	ले कर्नल	ए कुमार	इंफैंट्री	13 जून 2018
51235पी	ले कर्नल	एस एस चंडेल	गार्ड्स मैक	13 जून 2018
51258डब्ल्यू	ले कर्नल	पी एस जौहल	इंफैंट्री	13 जून 2018
51298एक्स	ले कर्नल	प्रमोद सिंह	आर्टी	13 जून 2018
51331के	ले कर्नल	ए पी एस संधू	ए एस सी	13 जून 2018
51392एफ	ले कर्नल	डी एस परमार	आर्टी	13 जून 2018
53079पी	ले कर्नल	अजय धवन	ई एम ई	14 जून 2018
53084ए	ले कर्नल	एम एम स्वामी	इंजीनियर्स	14 जून 2018
53088डब्ल्यू	ले कर्नल	ए दत्त	ई एम ई	14 जून 2018
46563वाई	ले कर्नल	पी के सिंह	इंफैंट्री	24 अप्रैल 2017
46720ए	ले कर्नल	पी सांगवान	इंफैंट्री	23 अप्रैल 2017

47744डब्ल्यू	ले कर्नल	जी चतुर्वेदी	मैक इंफैन्ट्री	11 जून 2014
50736एच	ले कर्नल	एस धालीवाल	इंफैन्ट्री	14 दिसम्बर 2017
51374वाई	ले कर्नल	एम एस थोसर	सिग्नल्स	13 जून 2018

स्थाई आयोग

मेजर से ले0 कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

आई सी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
आईसी 33466	हरजीत सिंह	इंफैन्ट्री	30 नवम्बर 1993

नवीन कुमार
उप निदेशक
एमएस-8ए

सेना शाखा

सं. 13, दिनांक 19 दिसम्बर 2018—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

आसूचना कोर

नायब सूबेदार (इन्ट जी डी) के पद पर

रैंक	नाम	आर्मी नं	जेसी नं	पदोन्नति की तारीख
हवलदार/इन्ट जी डी	जैक पिल्लर एम संगमा	7431297एच	जेसी-812468एफ	25 जनवरी 2018/01 जनवरी 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	विनोद कुमार जी	15473368एल	जेसी-812469के	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	भुपेन हात्तिमाता	14640874के	जेसी-812470वाई	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	परमिन्दर सिंह	3400235एच	जेसी-812471एफ	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	रागेश वी टी	14640878ए	जेसी-812472के	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	मेलवाने सचिन श्रिरंगा	14640879एच	जेसी-812473एम	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	अजय कुमार	3998929वाई	जेसी-812474पी	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	रूप लाल	13762934एम	जेसी-812475एक्स	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	लाभ सिंह	14426572एच	जेसी-812476ए	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	विकेन्दर सिंह	7431298एल	जेसी-812477एच	13 फरवरी 2018/01 जनवरी 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	साहनवाज़ अहमद खानडे	7431301ए	जेसी-812478एल	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	शीश राम यादव	4192756एल	जेसी-812479एन	23 जनवरी 2018/01 जनवरी 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	मोहमद रफीक खान	7431302एच	जेसी-812480एच	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	रनवीर सिंह	2894813ए	जेसी-812481एल	01 जनवरी 2018

हवलदार/इन्ट जी डी	प्रदीप कुमार	2490986एम	जेसी-812482एन	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	दिनेश शर्मा	3998993 डब्ल्यू	जेसी-812483 डब्ल्यू	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	जी प्रशान्थ कुमार	15137036एक्स	जेसी-812484वाई	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	शेर सिंह	2491045एल	जेसी-812485एफ	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	कुलदीप सिंह	3999039एल	जेसी-812486के	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	अश्वनि कुमार	3999046एफ	जेसी-812487एम	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	रविन्द्र राणा	2491123एक्स	जेसी-812488पी	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	अनिल कुमार तिवारी	13698996एच	जेसी-812489एक्स	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	मनजीत पठानिया	2491199एक्स	जेसी-812490एम	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	एम जया कुमार	14640955के	जेसी-812491पी	01 जनवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	तापस कुमार जाना	15611049ए	जेसी-812492एक्स	02 फरवरी 2018/01 जनवरी 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	मोहिन्दर सिंह	13760099एक्स	जेसी-812494एच	14 फरवरी 2018/01 मार्च 2017*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	राउत वसन्त शंकर राव	14639898एफ	जेसी-812496एल	13 फरवरी 2018/01 जून 2017*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जून 2017 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	सरवन बवन एस	14640958एक्स	जेसी-812495एल	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	सन्दीप कुमार	2894999पी	जेसी-812497 डब्ल्यू	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	बालामुरुगन पी	14640960पी	जेसी-812498वाई	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	चन्द्र नाथ पाल	15137224वाई	जेसी-812499एफ	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	जाविद अहमद फोमदा	7431304एन	जेसी-812500एल	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	श्री कुमार एस	15319036वाई	जेसी-812501एन	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	राजेश पी	14640942एम	जेसी-812571एम	18 अप्रैल 2018/01 फरवरी 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	अशोक कुमार	9103535एफ	जेसी-812502 डब्ल्यू	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	त्र्याम्बकेश्वर आर	14641046एल	जेसी-812503वाई	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	नवनीत कुमार मिश्रा	14925409वाई	जेसी-812504एफ	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	सिवा कुमार के	14427081वाई	जेसी-812505के	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	करण बीर सिंह	3400351एल	जेसी-812506एम	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	सुखजिन्दर सिंह	3400473पी	जेसी-812507पी	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	निर्मल सिंह	15561866ए	जेसी-812508एक्स	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	मिर्गल शरद शांताराम	2796334एच	जेसी-812509ए	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	उमेश चन्द्र जोशी	14925444एफ	जेसी-812510पी	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	सन्तोष कुमार यादव	15475832एच	जेसी-812511एक्स	01 फरवरी 2018

हवलदार/इन्ट जी डी	विनोद कुमार	15475839एम	जेसी-812512ए	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	कमल किशोर	2693028एन	जेसी-812513एच	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	किशन लाल यादव	4192939एफ	जेसी-812514एल	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	पुलिन बिहारी जेना	15611143के	जेसी-812515एन	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	मितु चंद्र नाथ	7431291एफ	जेसी-812516 डब्ल्यू	13 फरवरी 2018/01 फरवरी 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	मनिवनन के	14640887एफ	जेसी-812517वाई	01 फरवरी 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	विनोद	15475392ए	जेसी-812518एफ	26 फरवरी 2018/01 फरवरी 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	सुरिंदर पाल	4477164एच	जेसी-812519के	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	रबिंद्र सिंह	3400394ए	जेसी-812520वाई	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	शैलेन्द्र कुमार	15475794एक्स	जेसी-812521एफ	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	स्वपन कुमार नाथ	7431314एक्स	जेसी-812522के	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	ओम प्रकाश विश्वा	14925524वाई	जेसी-812523एम	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	कदम रमेश हिन्दूराव	2796500एल	जेसी-812524पी	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	सेवा सिंह	15137867 डब्ल्यू	जेसी-812525एक्स	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	गंगा सिंह रावत	4081196पी	जेसी-812526ए	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	शितेंद्र मावलॉग	7431316एच	जेसी-812527एच	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	तन्वड़े सोमनाथ माधव	2796564 डब्ल्यू	जेसी-812528एल	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	सुनील कुमार	4193121वाई	जेसी-812529एन	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	विजय कुमार	14427707एल	जेसी-812530एच	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	पुष्पेन्द्र सिंह राजपूत	14427713वाई	जेसी-812531एल	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	प्रहलाद सिंह	15611361एच	जेसी-812532एन	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	तरुण पॉल	14925788ए	जेसी-812533 डब्ल्यू	01 मार्च 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	बलजीत सिंह	2491661एल	जेसी-812539एक्स	02 अप्रैल 2018/01 अप्रैल 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	बलतेज सिंह	2491672एक्स	जेसी-812540एम	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	पंकज कुमार सिंह	4277774एल	जेसी-812541पी	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	पुष्कर ठाकुर	15476963ए	जेसी-812542एक्स	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	खेकुतो आई सुमि	4367815एल	जेसी-812543ए	02 अप्रैल 2018/01 अप्रैल 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	राजेश कुमार	15477205पी	जेसी-812544एच	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	धिरेंद्र सिंह करस्सी	4081284एल	जेसी-812545एल	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	उमेश सिंह	4081290वाई	जेसी-812546एन	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	हरि सिंह जाटव	14428188ए	जेसी-812547डब्ल्यू	04 अप्रैल 2018/01 अप्रैल 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है ।				

हवलदार/इन्ट जी डी	कमलेश कुमार रजक	15138489पी	जेसी-812548वाई	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	रिंकू कर्माकर	14640954एफ	जेसी-812549एफ	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	विकाश रंजन	14925799एम	जेसी-812550डब्ल्यू	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	जसविन्दर सिंह	3400974पी	जेसी-812551वाई	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	कुलदीप सिंह	13762978के	जेसी-812552एफ	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	बचे सिंह	4193016एच	जेसी-812553के	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	कृपेन्द्र सिंह	4193160एक्स	जेसी-812554एम	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	जितेंद्र कुमार	15562158ए	जेसी-812555पी	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	जतिन्दर सिंह	3400985एफ	जेसी-812556एक्स	25 अप्रैल 2018/01 अप्रैल 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	मनोज कुमार	4081346ए	जेसी-812557ए	02 अप्रैल 2018/01 अप्रैल 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	बलजिंदर सिंह	2491198पी	जेसी-812558एच	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	संजय कुमार	13763293एक्स	जेसी-812559एल	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	जयंता दत्ता	14640951एन	जेसी-812560ए	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	संदीप सिंह पवार	3192394वाई	जेसी-812561एच	02 अप्रैल 2018/01 अप्रैल 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	महेन्दर सिंह परिहार	4191695एम	जेसी-812562एल	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	राकेश चंद	14641237ए	जेसी-812563एन	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	दीपक कुमार भट्ट	4193215 डब्ल्यू	जेसी-812564डब्ल्यू	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	द्वारिका प्रसाद पाण्डेय	14641254ए	जेसी-812565वाई	01 अप्रैल 2018
हवलदार/इन्ट जी डी	राजन सिंह	4193247वाई	जेसी-812566एफ	02 अप्रैल 2018/01 अप्रैल 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	श्री कांता दास	7431303एल	जेसी-812567के	26 अप्रैल 2018/01 अप्रैल 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	अजयन ए	6941620एम	जेसी-812572पी	19 मई 2018/01 अप्रैल 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	सत्यवीर सहारन	15769383एफ	जेसी-812573एक्स	05 मई 2018/01 अप्रैल 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	कपिल तमांग	9422994एन	जेसी-812574ए	30 जून 2018/01मई 2017*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 मई 2017 से दी जाती है ।				
हवलदार/इन्ट जी डी	धरमपाल गुर्जर	2994791एफ	जेसी-812575एच	30 जून 2018/01 जून 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जून 2018 से दी जाती है ।				

नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी) के पद पर

रैंक	नाम	आर्मी नं.	जेसी नं.	पदोन्नति की तारीख
हवलदार/लिपिक	राज कुमार	9422958एच	जेसी-812467वाई	01 जनवरी 2018
हवलदार/लिपिक	जय प्रकाश मिश्रा	4277427एम	जेसी-812493ए	01 फरवरी 2018
हवलदार/लिपिक	ए मायाजहाकर	4277545ए	जेसी-812534वाई	26 मार्च 2018/01 मार्च 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 मार्च 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/लिपिक	अरुण कुमार	4080114पी	जेसी-812538पी	02 अप्रैल 2018/01 अप्रैल 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 अप्रैल 2018 से दी जाती है ।				
हवलदार/लिपिक	भोला घोष	8033625एम	जेसी-812568एम	01मई 2018
हवलदार/लिपिक	समिर कुमार विश्वास	4190856एक्स	जेसी-812569पे	01मई 2018
हवलदार/लिपिक	प्रसन्ता कुमार मिश्रा	15613121के	जेसी-812570के	01मई 2018
हवलदार/लिपिक	भदौरिया संतोष कुमार	13763233एच	जेसी-812581डब्ल्यू	17 जुलाई 2018/01 जून 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जून 2018 से दी जाती है ।				

नायब सूबेदार (टीसीएल) के पद पर

रैंक	नाम	आर्मी नं.	जेसी नं.	पदोन्नति की तारीख
हवलदार/टीसीएल	वीरेन्द्र सिंह	14838131एम	जेसी-812535एफ	10 मार्च 2018
हवलदार/टीसीएल	यशपाल सिंह	4193569वाई	जेसी-812536के	10 मार्च 2018
हवलदार/टीसीएल	ताम्बदे प्रवीन आत्माराम	15568179एम	जेसी-812537एम	10 मार्च 2018
हवलदार/टीसीएल	चौगुले मिलिन बबन	14848400एफ	जेसी-812576एल	30 जून 2018/01 जून 2018*
* नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले वरिष्ठता 01 जून 2018 से दी जाती है ।				

सुनील कुमार शर्मा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 14, दिनांक 20 दिसम्बर 2018—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति/पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार विक्रम सिंह शेखावत	(2889722एम अब जेसी-472060वाई)	15 नवम्बर 2017/*01 जुलाई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अजय कुमार	(2890872पी अब जेसी-472061एफ)	20 दिसम्बर 2017/*06 जुलाई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जुलाई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मजीद खान	(2889045ए अब जेसी-472062के)	20 नवम्बर 2017/*03 अगस्त 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अगस्त 2017 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार नरेश कुमार	(2889742ए अब जेसी-472063एम)	01 दिसम्बर 2017 / *03 अगस्त 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अगस्त 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजबीर सिंह	(2892602वाई अब जेसी-472064पी)	01 जनवरी 2018 / *03 अगस्त 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अगस्त 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार ज्ञान चंद	(2892722एक्स अब जेसी-472065एक्स)	01 जनवरी 2018 / *07 अगस्त 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अगस्त 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार विजय पाल	(2893420एक्स अब जेसी-472066ए)	06 नवम्बर 2017 / *16 अगस्त 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अगस्त 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रविन्दर	(16019643पी अब जेसी-472067एच)	06 नवम्बर 2017 / *21 अगस्त 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अगस्त 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अजीत सिंह	(2892264एम अब जेसी-472068एल)	23 अक्टूबर 2017 / *26 अगस्त 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अगस्त 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजू राम	(2892334ए अब जेसी-472069एन)	20 नवम्बर 2017 / *28 अगस्त 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अगस्त 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार गोंधन सिंह भाटी	(2890106वाई अब जेसी-472070एच)	03 अक्टूबर 2017 / *01 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अनिल कुमार	(2890401एफ अब जेसी-472071एल)	20 सितम्बर 2017 / *01 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार श्याम सिंह	(2889720एफ अब जेसी-472072एन)	13 नवम्बर 2017 / *01 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार पप्पू राम	(2890107एफ अब जेसी-472073डब्ल्यू)	20 सितम्बर 2017 / *01 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजेश कुमार	(2895515डब्ल्यू अब जेसी-472074वाई)	01 सितम्बर 2017
नायब सूबेदार शम्भू सिंह	(2890976डब्ल्यू अब जेसी-472075एफ)	01 सितम्बर 2017
नायब सूबेदार चोब सिंह	(2892714वाई अब जेसी-472076के)	01 सितम्बर 2017
नायब सूबेदार अजमल	(2889180एन अब जेसी-472077एम)	25 सितम्बर 2017 / *01 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार	(2890470एक्स अब जेसी-472078पी)	23 सितम्बर 2017 / *01 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राम कुमार	(2892074ए अब जेसी-472079एक्स)	11 नवम्बर 2017 / *01 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जय सिंह	(2892927एम अब जेसी-472080एम)	01 सितम्बर 2017
नायब सूबेदार काली चरन	(2894111एफ अब जेसी-472081पी)	01 सितम्बर 2017
नायब सूबेदार चन्द्रा सिंह	(2892076एल अब जेसी-472082एक्स)	12 दिसम्बर 2017 / *02 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार कपिल पूनिया	(2896476पी अब जेसी-472083ए)	01 जनवरी 2018 / *07 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजवीर सिंह तोमर	(2892352एच अब जेसी-472084एच)	27 नवम्बर 2017 / *10 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार राजकुमार	(2889527पी अब जेसी-472085एल)	21 दिसम्बर 2017 / *17 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राम खिलौना	(2891734ए अब जेसी-472086एन)	25 अक्टूबर 2017 / *18 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार इन्द्र सिंह राठौर	(2890614पी अब जेसी-472087डब्ल्यू)	27 नवम्बर 2017 / *18 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार विजेन्द्र	(2891774एफ अब जेसी-472088वाई)	21 नवम्बर 2017 / *19 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रमेश कुमार	(2890683एल अब जेसी-472089एफ)	26 अक्टूबर 2017 / *20 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार पूनम सिंह राजपूत	(2890721डब्ल्यू अब जेसी-472090डब्ल्यू)	28 दिसम्बर 2017 / *20 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता *20 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अशोक सिंह बघेल	(2890148एल अब जेसी-472091वाई)	21 नवम्बर 2017 / *24 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक सतीश कुमार गुप्ता	(2890377डब्ल्यू अब जेसी-472092एफ)	25 अक्टूबर 2017 / *01 अक्टूबर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नाहर सिंह तोमर	(2891448वाई अब जेसी-472093के)	01 अक्टूबर 2017
नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह	(16011511एम अब जेसी-472094एम)	01 अक्टूबर 2017
नायब सूबेदार रमेश सिंह	(2890525डब्ल्यू अब जेसी-472095पी)	13 नवम्बर 2017 / *01 अक्टूबर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह	(2890848वाई अब जेसी-472096एक्स)	13 नवम्बर 2017 / *01 अक्टूबर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नरेश सिंह	(2891309पी अब जेसी-472097ए)	13 नवम्बर 2017 / *01 अक्टूबर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लाडू सिंह	(2889798एम अब जेसी-472098एच)	01 दिसम्बर 2017 / *01 अक्टूबर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार विनोद कुमार सिंह	(2891049पी अब जेसी-472099एल)	01 अक्टूबर 2017
नायब सूबेदार वेद पाल	(2889788एच अब जेसी-472100पी)	15 दिसम्बर 2017 / *01 अक्टूबर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजेश कुमार	(2889192एच अब जेसी-472101एक्स)	18 नवम्बर 2017 / *01 अक्टूबर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार संदीप कुमार	(2891485एम अब जेसी-472102ए)	20 नवम्बर 2017 / *01 अक्टूबर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अरविंद सिंह	(2889873एल अब जेसी-472103एच)	28 नवम्बर 2017 / *02 अक्टूबर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह नरुका	(2891393ए अब जेसी-472104एल)	01 जनवरी 2018 / *02 अक्टूबर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जयवीर सिंह	(2891684ए अब जेसी-472105एन)	30 अक्टूबर 2017 / *05 अक्टूबर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार रमेश सिंह निर्वाण	(2890266वाई अब जेसी-472106डब्ल्यू)	15 जनवरी 2018/*29 अक्टूबर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता *29 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रिषीकेश	(2890755के अब जेसी-472107वाई)	26 दिसम्बर 2017/*30 अक्टूबर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक दीपक कुमार जखमोला	(2891574एल अब जेसी-472108एफ)	07 दिसम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जय सिंह नेगी	(2891578एफ अब जेसी-472109के)	07 दिसम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजेश	(2889357डब्ल्यू अब जेसी-472110वाई)	20 नवम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जगपाल सिंह	(2891719एल अब जेसी-472111एफ)	03 नवम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह चौधरी	(2890133एच अब जेसी-472112के)	18 नवम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बाग सिंह उदावत	(2891407पी अब जेसी-472113एम)	18 नवम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार करन सिंह	(2890248डब्ल्यू अब जेसी-472114पी)	18 नवम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजेश कुमार पुनिया	(2888471एफ अब जेसी-472115एक्स)	18 नवम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार	(2890327एल अब जेसी-472116ए)	18 नवम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जगमोहन सिंह	(2890257एक्स अब जेसी-472117एच)	30 नवम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार विनोद सिंह शेखावत	(2889734एफ अब जेसी-472118एल)	23 नवम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार प्रवीण कुमार	(2890999एक्स अब जेसी-472119एन)	10 नवम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सत्यपाल	(2889545एक्स अब जेसी-472120एच)	21 दिसम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अजयपाल सिंह	(2889795वाई अब जेसी-472121एल)	18 नवम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार देवा राम	(2890918एम अब जेसी-472122एन)	24 नवम्बर 2017/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार शिवराम सिंह भदौरिया	(2891944ए अब जेसी-472123डब्ल्यू)	25 जनवरी 2018/*01 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार विनोद कुमार पायल	(2891540एक्स अब जेसी-472124वाई)	27 दिसम्बर 2017/*02 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार विरेन्द्र कुमार	(2890613एम अब जेसी—472125एफ)	08 दिसम्बर 2017/*05 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सतेन्द्र कुमार सिंह	(2890059एम अब जेसी—472126के)	16 दिसम्बर 2017/*09 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मुकेश कुमार	(2891080एफ अब जेसी—472127एम)	22 जनवरी 2018/*30 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक बरुन कुमार मंडल	(2891613वाई अब जेसी—472128पी)	15 दिसम्बर 2017/*01 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक सुरेश	(2891623एच अब जेसी—472129एक्स)	08 दिसम्बर 2017/*01 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक जय भगवान सिंह	(2891624एल अब जेसी—472130एम)	12 दिसम्बर 2017/*01 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मनोहर सिंह	(2891790वाई अब जेसी—472131पी)	20 दिसम्बर 2017/*01 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	(2891056एल अब जेसी—472132एक्स)	01 दिसम्बर 2017
नायब सूबेदार संतोष कुमार सिंह	(2891642एन अब जेसी—472133ए)	26 दिसम्बर 2017/*01 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अमर सिंह	(2890268के अब जेसी—472134एच)	26 दिसम्बर 2017/*01 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजेश कुमार	(2890287पी अब जेसी—472135एल)	22 दिसम्बर 2017/*01 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह	(2890288एक्स अब जेसी—472136एन)	22 दिसम्बर 2017/*01 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार प्रदीप कुमार	(2892796एम अब जेसी—472137डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2017
नायब सूबेदार संजय	(2890154वाई अब जेसी—472138वाई)	27 दिसम्बर 2017/*01 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुनील	(16017199एल अब जेसी—472139एफ)	08 दिसम्बर 2017/*01 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार प्रताप सिंह राणावत	(2890962डब्ल्यू अब जेसी—472140डब्ल्यू)	01 फरवरी 2018/*09 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बलजीत	(2889666वाई अब जेसी—472141वाई)	25 जनवरी 2018/*09 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अनूप	(2891868वाई अब जेसी—472142एफ)	12 मार्च 2018/*09 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार श्रवण	(472143के अब जेसी—472143के)	07 अप्रैल 2018/11 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक प्रदीप कुमार जेना	(2891848एल अब जेसी—472144एम)	17 जनवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार लिपिक सुनील कुमार	(2891872एफ अब जेसी-472145पी)	13 जनवरी 2018 / *01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार हजारी लाल	(2895138एल अब जेसी-471942एन)	08 मार्च 2017 / *19 मई 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मई 2016 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार प्रवेश कुमार सिंह	(2890579एक्स अब जेसी-471943डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017 / *23 दिसम्बर 2016
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार हनुमान प्रसाद जाट	(2890583ए अब जेसी-471944वाई)	01 अप्रैल 2017 / *01 जनवरी 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार शीश राम सहारन	(2889651डब्ल्यू अब जेसी-471945एफ)	14 मार्च 2017 / *01 फरवरी 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जयबीर सिंह	(2891024एच अब जेसी-471946के)	01 अप्रैल 2017 / *01 फरवरी 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार ब्रिजेन्द्र बहादुर सिंह	(2895296ए अब जेसी-471947एम)	02 मार्च 2017 / *01 फरवरी 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुरेश कुमार	(2892289वाई अब जेसी-471948पी)	10 फरवरी 2017 / *01 फरवरी 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह	(2889640के अब जेसी-471949एक्स)	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार संतोष कुमार सिंह	(2890936पी अब जेसी-471950एम)	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार भवानी सिंह	(2890080पी अब जेसी-471951पी)	25 मार्च 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महेन्द्र पाल सिंह	(2895944एक्स अब जेसी-471952एक्स)	02 अप्रैल 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार ईश्वर सिंह	(2889670एफ अब जेसी-471953ए)	02 अप्रैल 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार पाबूदान सिंह	(2890895डब्ल्यू अब जेसी-471954एच)	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार गुमान सिंह	(2890939एच अब जेसी-471955एल)	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह	(2890707के अब जेसी-471956एन)	03 मार्च 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार भँवर सिंह	(2890312एच अब जेसी-471957डब्ल्यू)	03 मार्च 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार शैलेन्द्र प्रताप सिंह	(2890368पी अब जेसी-471958वाई)	03 मार्च 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार भूप सिंह	(2890718डब्ल्यू अब जेसी-471959एफ)	27 मार्च 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	(2889693एच अब जेसी-471960डब्ल्यू)	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार बलबीर सिंह	(2890794एच अब जेसी-471961वाई)	03 मार्च 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह	(2890799एफ अब जेसी—471962एफ)	05 मार्च 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	(2891992ए अब जेसी—471963के)	15 मार्च 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बाबू लाल सारन	(2892377पी अब जेसी—471964एम)	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार तुलचा राम सियाग	(2892398एल अब जेसी—471965पी)	18 मार्च 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार उदय सिंह	(2891171एल अब जेसी—471966एक्स)	01 अप्रैल 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजेश कुमार	(2890663एक्स अब जेसी—471967ए)	03 मार्च 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मनवीर सिंह	(2890665एच अब जेसी—471968एच)	03 मार्च 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार शरवन लाल जाट	(2890105डब्ल्यू अब जेसी—471969एल)	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार उमेन्द्र सिंह	(2892222ए अब जेसी—471970ए)	25 अप्रैल 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुग्रीन, सेना मेडल	(2891459एल अब जेसी—471971एच)	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार मनवीर सिंह	(2893157एक्स अब जेसी—471972एल)	23 मार्च 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राज कुमार राठौड	(2892809वाई अब जेसी—471973एन)	17 मार्च 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार हेमा राम	(2893612पी अब जेसी—471974डब्ल्यू)	02 मार्च 2017 / *01 मार्च 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक दिलीप कुमार	(2891164पी अब जेसी—471975वाई)	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार देशराज	(2889681एन अब जेसी—471976एफ)	10 मई 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार परमार प्रताप राजसी	(2889036वाई अब जेसी—471977के)	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार राजवीर	(2888963ए अब जेसी—471978एम)	03 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार धना राम	(2890387ए अब जेसी—471979पी)	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार भवानी सिंह शेखावत	(2889970एच अब जेसी—471980के)	22 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार शरवन कुमार	(2891679पी अब जेसी—471981एम)	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार लक्ष्मन सिंह	(2890940एक्स अब जेसी—471982पी)	03 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मूल सिंह भाटी	(2890966एम अब जेसी—471983एक्स)	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह	(2890995एफ अब जेसी—471984ए)	09 मई 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह	(2889802के अब जेसी-471985एच)	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार राम निवास	(2889998एच अब जेसी-471986एल)	07 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार	(2889694एल अब जेसी-471987एन)	03 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बाबू राम	(2890621एल अब जेसी-471988डब्ल्यू)	02 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार प्रहलाद राम	(2890619एम अब जेसी-471989 वाई)	02 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह	(2892229के अब जेसी-471990एन)	25 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नरेन्द्र	(2891712एफ अब जेसी-471991डब्ल्यू)	25 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रवि प्रकाश	(2892212डब्ल्यू अब जेसी-471992वाई)	25 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार आजाद सिंह	(2892586एम अब जेसी-471993एफ)	12 मई 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बाबू लाल चौधरी	(2892400एक्स अब जेसी-471994के)	*01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार सुरेन्द्र	(2890293एच अब जेसी-471995एम)	03 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बसीर अहमद	(2890164एच अब जेसी-471996पी)	06 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार दान सिंह	(2890900डब्ल्यू अब जेसी-471997एक्स)	10 मई 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार भंवर लाल भाकर	(2890111के अब जेसी-471998ए)	05 मई 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार पूरन सिंह	(2891699एच अब जेसी-471999एच)	03 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नरेश कुमार	(2889797के अब जेसी-472000के)	03 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जीतेन्द्र बहादुर सिंह	(2892058एच अब जेसी-472001एम)	*01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह	(2892109एल अब जेसी-472002पी)	02 अप्रैल 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुभाष चन्द जाट	(2892295एम अब जेसी-472003एक्स)	04 मई 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार चन्ना राम इशराम	(2893212एच अब जेसी-472004ए)	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार सुनील कुमार	(2892003वाई अब जेसी-472005एच)	07 मई 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार सतेन्द्र सिंह भदौरिया	(2892366एच अब जेसी-472006एल)	07 मई 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार विकेश कुमार सिंह	(2892372डब्ल्यू अब जेसी-472007एन)	01 जून 2017 / *01 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अजीत सिंह	(2892760एन अब जेसी-472008डब्ल्यू)	25 अप्रैल 2017 / *02 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक विपिन कुमार राठी	(2891182एक्स अब जेसी-472009वाई)	01 मई 2017
नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह राठौर	(2889794डब्ल्यू अब जेसी-472010एन)	01 मई 2017
नायब सूबेदार लोकेन्द्र सिंह	(2894173एफ अब जेसी-472011डब्ल्यू)	01 मई 2017
नायब सूबेदार सोना राम	(2890320एफ अब जेसी-472012वाई)	06 मई 2017 / *01 मई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मोहम्मद इमाउद्दीन खान	(2890436एक्स अब जेसी-472013एफ)	06 मई 2017 / *01 मई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	(2889398ए अब जेसी-472014के)	01 मई 2017
नायब सूबेदार रंजीत सिंह	(2895780एम अब जेसी-472015एम)	01 मई 2017
नायब सूबेदार पंकज कुमार राठी	(2889304एक्स अब जेसी-472016पी)	06 मई 2017 / *01 मई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सोमवीर	(2889337एच अब जेसी-472017एक्स)	06 मई 2017 / *01 मई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जय प्रकाश	(2890323पी अब जेसी-472018ए)	25 मई 2017 / *01 मई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार (पंडित) राजेश पीडी सिंह	(15164917ए अब जेसी-472019एच)	19 मई 2017
नायब सूबेदार मनोज कुमार	(2892445एक्स अब जेसी-472020एक्स)	22 अगस्त 2017 / *27 अप्रैल 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अनुरुद्ध सिंह	(2891575एन अब जेसी-472021ए)	12 जून 2017 / *07 मई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार ईश्वर सिंह	(2892621के अब जेसी-472022एच)	23 अगस्त 2017 / *07 मई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जसबीर सिंह	(2889314एफ अब जेसी-472023एल)	28 जून 2017 / *19 मई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार योगेन्द्र सिंह चहार	(2890845एल अब जेसी-472024एन)	09 जून 2017 / *20 मई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 मई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह तँवर	(2890041डब्ल्यू अब जेसी-472025 डब्ल्यू)	10 जून 2017 / *01 जून 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	(2890009एफ अब जेसी-472026वाई)	*01 जून 2017
नायब सूबेदार मंगला राम	(2888733एम अब जेसी-472027एफ)	01 जून 2017
नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार	(2890132ए अब जेसी-472028के)	01 जून 2017
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह	(2891568एक्स अब जेसी-472029एम)	01 जून 2017

नायब सूबेदार मीर सिंह	(2889377के अब जेसी-472030एफ)	05 जून 2017 / *01 जून 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार किशना राम हरदू	(2892404एन अब जेसी-472031के)	01 जून 2017
नायब सूबेदार अजीत सिंह	(2892285एच अब जेसी-472032एम)	24 जून 2017 / *01 जून 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार समुन्द्र सिंह	(2892463ए अब जेसी-472033पी)	30 जून 2017 / *01 जून 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह	(2890051ए अब जेसी-472034एक्स)	01 जुलाई 2017
नायब सूबेदार मदन सिंह	(2891434वाई अब जेसी-472035ए)	01 जुलाई 2017
नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह	(2890454ए अब जेसी-472036एच)	23 अगस्त 2017 / *01 जुलाई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार भवानी सिंह	(2889846एफ अब जेसी-472037एल)	01 जुलाई 2017
नायब सूबेदार परमल सिंह	(2890520एक्स अब जेसी-472038एन)	05 जुलाई 2017 / *01 जुलाई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार खेत सिंह भाटी	(2893918एक्स अब जेसी-472039डब्ल्यू)	13 जुलाई 2017 / *01 जुलाई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार संतोष कुमार सिंह	(3996257वाई अब जेसी-472040एल)	08 जुलाई 2017 / *01 जुलाई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मनोहर सिंह सोलंकी	(2890877एन अब जेसी-472041एन)	25 अगस्त 2017 / *14 जुलाई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जुलाई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह, सेना मेडल	(2891481डब्ल्यू अब जेसी-472042डब्ल्यू)	25 अगस्त 2017 / *20 जुलाई 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जुलाई 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक राहुल सिंह राठौर	(2891191वाई अब जेसी-472043वाई)	01 अगस्त 2017
नायब सूबेदार लिपिक भावेन्द्र सिंह	(2891509एल अब जेसी-472044एफ)	01 अगस्त 2017
नायब सूबेदार लिपिक शमीम अली	(2891512एल अब जेसी-472045के)	01 अगस्त 2017
नायब सूबेदार लक्ष्मन सिंह	(2890319एम अब जेसी-472046एम)	01 अगस्त 2017
नायब सूबेदार जगदेव सिंह	(2890321के अब जेसी-472047पी)	01 अगस्त 2017
नायब सूबेदार संजय कुमार	(16020361एच अब जेसी-472048एक्स)	30 अगस्त 2017 / *01 अगस्त 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राकेश कुमार सिंह	(2891421एफ अब जेसी-472049ए)	30 अगस्त 2017 / *01 अगस्त 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुरेश सिंह	(2889727एल अब जेसी-472050पी)	09 सितम्बर 2017 / *01 अगस्त 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार दिवंकल	(2890147एच अब जेसी-472051एक्स)	01 अगस्त 2017
नायब सूबेदार पप्पू सिंह तोमर	(2890821एफ अब जेसी-472052ए)	01 सितम्बर 2017 / *01 अगस्त 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महा सिंह	(2890276एच अब जेसी-472053एच)	22 अगस्त 2017 / *01 अगस्त 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2017 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	(2892037एम अब जेसी-472054एल)	22 अगस्त 2017/*01 अगस्त 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक परसा राम चौधरी	(2891563वाई अब जेसी-472055एन)	01 सितम्बर 2017
नायब सूबेदार लिपिक राघवेन्द्र सिंह	(2891567पी अब जेसी-472056डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2017
नायब सूबेदार लिपिक वेद राम	(2891569ए अब जेसी-472057वाई)	01 सितम्बर 2017
नायब सूबेदार गोसई धीरजगर अमृतगर	(2889253पी अब जेसी-472058एफ)	15 सितम्बर 2017/*01 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार दिनेश कुमार सिंह	(2891390एम अब जेसी-472059के)	05 सितम्बर 2017/*01 सितम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2017 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार किशन सिंह	(2892792डब्ल्यू अब जेसी-472146एक्स)	08 फरवरी 2018/*17 अक्टूबर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार प्रेमा राम हुड्डा	(2890131एक्स अब जेसी-472147ए)	08 फरवरी 2018/*03 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुनील कुमार सिंह	(2891834एल अब जेसी-472148एच)	20 फरवरी 2018/*08 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार कृष्ण कुमार	(2892826वाई अब जेसी-472149एल)	08 फरवरी 2018/*14 नवम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 नवम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राम रतन	(2891668एच अब जेसी-472150ए)	26 मार्च 2018/*02 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार प्रमोद कुमार	(16012633एच अब जेसी-472151एच)	18 फरवरी 2018/*08 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुभ करन	(2889962के अब जेसी-472152एल)	26 मार्च 2018/*16 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह तोमर	(2893958वाई अब जेसी-472153एन)	14 मार्च 2018/*24 दिसम्बर 2017
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 दिसम्बर 2017 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक सत्यपाल	(2891875पी अब जेसी-472154डब्ल्यू)	09 मार्च 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक सतेन्द्र सिंह	(2891898डब्ल्यू अब जेसी-472155वाई)	09 मार्च 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार कौशलेन्द्र सिंह	(2892321एच अब जेसी-472156एफ)	14 अप्रैल 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राज कुमार सिंह रावौर	(2892323एन अब जेसी-472157के)	06 अप्रैल 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राकेश कुमार सिंह	(2890370एम अब जेसी-472158एम)	08 मार्च 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार शीश राम महला	(2889587के अब जेसी—472159पी)	12 अप्रैल 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह	(2890444डब्ल्यू अब जेसी—472160के)	15 मार्च 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राम प्रसाद	(2890391एच अब जेसी—472161एम)	17 मार्च 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुनील कुमार सिंह	(2890012एफ अब जेसी—472162पी)	22 जनवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार कमलेश कुमार सिंह	(2890022एल अब जेसी—472163एक्स)	21 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुमेर सिंह राठौर	(2891306एफ अब जेसी—472164ए)	03 जनवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार दीपक सिंह	(2890146ए अब जेसी—472165एच)	12 मार्च 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बलबीर सिंह	(2889580ए अब जेसी—472166एल)	05 अप्रैल 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार वेदपाल सिंह शेखावत	(2890317एफ अब जेसी—472167एन)	05 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुनील कुमार	(2891722एल अब जेसी—472168डब्ल्यू)	24 जनवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नव रत्न	(2891731एम अब जेसी—472169वाई)	15 जनवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रामेश्वर प्रसाद	(2891735एच अब जेसी—472170एन)	16 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार तेजपाल सिंह	(2891759एम अब जेसी—472171डब्ल्यू)	16 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रईस अहमद	(2889000ए अब जेसी—472172वाई)	10 अप्रैल 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह सिसोदिया	(2890896वाई अब जेसी—472173एफ)	23 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार दुर्गा राम	(2892132वाई अब जेसी—472174के)	05 मार्च 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार बलबीर सिंह	(2892177वाई अब जेसी—472175एम)	16 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार ज्ञान सिंह	(2892178एफ अब जेसी—472176पी)	22 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार विकास सिंह	(16019285पी अब जेसी—472177एक्स)	31 मार्च 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार डूंगर सिंह	(2890897एफ अब जेसी—472178ए)	23 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद	(2891495डब्ल्यू अब जेसी—472179एच)	23 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह	(2891697एक्स अब जेसी—472180एक्स)	23 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जाकिर हुसैन	(2891535एम अब जेसी—472181ए)	25 जनवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार विनोद सिंह	(2892144एन अब जेसी—472182एच)	13 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जंगबीर सिंह	(2890298एफ अब जेसी—472183एल)	24 जनवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार संजीव कुमार	(2892521वाई अब जेसी—472184एन)	05 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह सोलंकी	(2890342ए अब जेसी—472185डब्ल्यू)	24 जनवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार भूपेन्द्र प्रताप सिंह	(2891657डब्ल्यू अब जेसी—472186वाई)	28 मार्च 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महिपाल सिंह	(2891730के अब जेसी—472187एफ)	05 अप्रैल 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राज करन	(2893009एम अब जेसी—472188के)	05 अप्रैल 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार दया शंकर सिंह	(2889762एन अब जेसी—472189एम)	27 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मदन सिंह भाटी	(2890394डब्ल्यू अब जेसी—472190एफ)	24 जनवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नंद सिंह राठौर	(2890458डब्ल्यू अब जेसी—472191के)	03 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार संत राम	(2892830एफ अब जेसी—472192एम)	17 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रमेश कुमार	(2889557एम अब जेसी—472193पी)	01 जनवरी 2018
नायब सूबेदार छत्तर सिंह	(2892376एम अब जेसी—472194एक्स)	22 फरवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मोहन सिंह	(2891320एन अब जेसी—472195ए)	17 मार्च 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		

[illegible]

[illegible]

नायब सूबेदार बेगराज सिंह	(2893886ए अब जेसी-472234एन)	25 जनवरी 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुरेन्द्र	(2895019पी अब जेसी-472235डब्ल्यू)	10 मार्च 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नरवीर	(2894573एन अब जेसी-472236वाई)	10 मार्च 2018/*01 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सोलंकी दिनेश भाई दुधा भाई	(2889771पी अब जेसी-472237एफ)	16 फरवरी 2018/*04 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार धर्मेन्द्र	(2889905एच अब जेसी-472238के)	21 फरवरी 2018/*04 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार ओंकार सिंह	(2890037एन अब जेसी-472239एम)	16 फरवरी 2018/*04 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार विजय पाल	(2890112एम अब जेसी-472240एफ)	16 फरवरी 2018/*04 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार दया राम	(2890114एक्स अब जेसी-472241के)	16 फरवरी 2018/*04 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अनुराग सिंह	(2893992वाई अब जेसी-472242एम)	16 फरवरी 2018/*04 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह	(2894222वाई अब जेसी-472243पी)	16 अप्रैल 2018/*18 जनवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जनवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक राजा राम	(2891921वाई अब जेसी-472244एक्स)	07 मार्च 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक अजय सिंह	(2891922एफ अब जेसी-472245ए)	07 मार्च 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार लिपिक महेन्द्र सिंह	(2891980एल अब जेसी-472246एच)	07 मार्च 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मनोज कुमार	(2890475डब्ल्यू अब जेसी-472247एल)	19 मार्च 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह	(2892196के अब जेसी-472248एन)	08 मार्च 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र	(2893760ए अब जेसी-472249डब्ल्यू)	05 अप्रैल 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार विजय प्रताप सिंह	(2891063एफ अब जेसी-472250एल)	07 अप्रैल 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार ओम प्रकाश खेदार	(2890122डब्ल्यू अब जेसी-472251एन)	16 फरवरी 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह	(2890235वाई अब जेसी—472252डब्ल्यू)	16 फरवरी 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह	(2890247एन अब जेसी—472253वाई)	20 फरवरी 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार	(2891478डब्ल्यू अब जेसी—472254एफ)	07 अप्रैल 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार रमेश सिंह तेंवर	(2891396एन अब जेसी—472255के)	07 अप्रैल 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार अमरजीत	(2891220एच अब जेसी—472256एम)	27 फरवरी 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह	(2890316वाई अब जेसी—472257पी)	16 फरवरी 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार भूप सिंह	(2890783डब्ल्यू अब जेसी—472258एक्स)	09 मई 2018/*01 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जगवीर सिंह	(2891327एक्स अब जेसी—472259ए)	27 फरवरी 2018/*04 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार उपेन्द्र सिंह	(2891057एन अब जेसी—472260पी)	01 मार्च 2018/*12 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राबरी नागाजी भाई सोमा भाई	(2889917एक्स अब जेसी—472261एक्स)	19 मार्च 2018/*21 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार जंगबीर	(2894704एन अब जेसी—472262ए)	17 अप्रैल 2018/*25 फरवरी 2018
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 फरवरी 2018 से दी जायेगी)		

सुदर्शन कुमार
अवर सचिव

सं. 15, दिनांक 21 दिसम्बर 2018—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं:—

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

लै. कर्नल दीपक सकसैना	टीए(एम)—1160	एएमसी (टीए)	31 जनवरी 2014 (अप.)
लै. कर्नल संजय बसरकर	टीए—42518	इन्जीनियर (टीए)	31 मार्च 2017 (अप.)

सुदर्शन कुमार
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 19th January 2019

AIR BRANCH

No. 11, dated 17th December 2018—The President is pleased to award Permanent Commission (On Probation) and Wing to the under mentioned officer of 190 Pilot Course in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against his name, under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC(On Probation) & Wings i.e. 15 Dec 12.

INDIAN AIRFORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

EX FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Kislaya Kumar Jha (32804), wef 15 Dec 12

The President is pleased to award Permanent Commission (On Probation) and Wings to the under mentioned officers of 191 Pilot Course in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names, under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC(On Probation) & Wings i.e. 22 Jun 13 and 28 Aug 13.

FLYING (PILOT) BRANCH

EX FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Khan Ghazi Mohammed Bilal (33165), Anish Nishanth TA (33168), Paramveer Narinder Bhullar (33178), Kalung Payang (33189), Sataluri Ranganatha Bharadwaj (33192), Nishant Jamwal (33209), Ishan Dagar (33218), Kumar Kanhaiya (33223), wef 22 Jun 13

The President is pleased to award Permanent Commission (On Probation) and Wings to the under mentioned officers of 192 Pilot Course in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names, under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC(On Probation) & Wings i.e. 14 Dec 13 and 25 Apr 14.

Fg Offr Praveen Kumar (33472), Mihir Vivek Chaudhari (33473), Saurabh Deep (33539), wef 14 Dec 13

Fg Offr Harmanreet Singh (34074) : wef 25 Apr 14

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Wings in Flying (Pilot) branch of the IAF, to the under mentioned officers of 10 SSC(M) PC, in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against each under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/BM-IV dated 14 Jun 07. These officers are eligible for flying pay wef the dates of grant of PSSC & Wings i.e. 14 Dec 13.

Fg Offr Tapesh Kumar Chaudhary (33602), Arpit Kumar (33603), Akash Mani (33607), Karan Kohli (33611), wef 14 Dec 13

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Brevets in Flying (Navigator) branch of the IAF to the undermentioned officer of 117 NAV (10 SSC(M) Pilot Course) in the rank of Fg Offr wef 14 Dec 13 under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/BM-IV dated 14 Jun 07. He is eligible for flying pay wef the date of grant of PSSC & Brevets i.e. 14 Dec 13.

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

EX-FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Nikhil Sanjay Mahagaonkar (33615): wef 14 Dec 13

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Brevets in Flying (Navigator) branch of the IAF to the undermentioned officer of 117 NAV (39 SSC(W) Pilot Course) in the rank of Fg Offr wef 14 Dec 13 under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/BM-IV dated 14 Jun 07. These officers are eligible for flying pay wef the date of grant of PSSC & Brevets i.e. 14 Dec 13.

Fg Offr Gawde Khushbu Yeshwant (33635), wef 14 Dec 13

The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned officers of 133 GDOC wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

EX-FLT CDTS TO BE FG OFFR

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Deepak Singh (33563), Pradeep Mehta (33567), Mohit Malik (33571), Gyanendra Bhatt (33575), wef 14 Dec 13

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the under mentioned officers of 26 SSC(M) GDOC wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

Fg Offr: Firdous Ahmad Dar (33618), Subodh Dixit (33624), Sanaboyina Venkata Praveen Kumar (33625), Deepak Kumar (33627) : wef 14 Dec 13

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers of 42 SSC (W) GDOC wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

Fg Offr Rajshree Ranawat (33651), Zuffila Batra (33653) : wef 14 Dec 13

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Jyoti Yadav (33661) : wef 14 Dec 13

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Vandana Chaudhary (33663) : wef 14 Dec 13

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the under mentioned officer of 196/15T/SSC wef the date as mentioned against his name under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr Himanshu Gupta (34474) : (Trainee No 196064) wef 05 Jan 15

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officer of 196/15T/SSC and grant them Short Service Commission (On probation) wef the date as mentioned against his names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr Himanshu Gupta (34474) : wef 04 Jan 16

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Wing in Flying (Pilot) branch of the IAF, to the under mentioned officer of 200/16F/SSC(M), in the rank of Fg Offr wef 16 Dec 17, under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/BM-IV dated 14 Jun 07. The officer is eligible for flying pay wef the date of grant of PSSC & Wing i.e. 16 Dec 17.

FLYING (PILOT) BRANCH

EX FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Kartik Thakur (35874) : wef 16 Dec 17

The President is pleased to make the following Substantive Promotion:-

FLT LT TO BE SUBSTANTIVE SQN LDR

LGS BRANCH

RAO BOSETTY SRINIVASULA VENKAT (30486), w.e.f 27-JUN-15

EDN BRANCH

SHUKLA ANIL KUMAR (30487), w.e.f 27-JUN-15

MET BRANCH

SAINI SAMPURAN SINGH (30488), w.e.f 27-JUN-15

AE(M) BRANCH

CHOPRA ANUJ (30618), w.e.f 13-JUL-15

SINGH GURJEET (30619), w.e.f 13-JUL-15

DESAI AUMKAR PRAVEEN (30620), w.e.f 13-JUL-15
HIRWANI KISHORE KUMAR (30621), w.e.f 13-JUL-15
YADAV ANKUR (30622), w.e.f 13-JUL-15
HATWAL SWATI (30639), w.e.f 13-JUL-15
KUMARI SONIKA (30640), w.e.f 13-JUL-15

AE(L) BRANCH

NAMBOODIRI V KRISHNAN (30570), w.e.f 13-JUL-15
SINGH ABHISHEK KUMAR (30623), w.e.f 13-JUL-15
HEMRAJANI HIMANSHU (30624), w.e.f 13-JUL-15
CHOUDHRY GAURAV (30625), w.e.f 13-JUL-15
PAZHANISWAMY JESWANTH KUMAR (30626), w.e.f 13-JUL-15
GUPTA ANKIT (30627), w.e.f 13-JUL-15
SHARMA ANIL (30628), w.e.f 13-JUL-15
THAKRAL KISHOR (30629), w.e.f 13-JUL-15
KRISHNASAMY RAMESH KUMAR (30630), w.e.f 13-JUL-15
BAHAL MOHIT KUMAR (30631), w.e.f 13-JUL-15
VEERAVALI RAHUL (30633), w.e.f 13-JUL-15
SINHA ANUBHAV (30635), w.e.f 13-JUL-15
BHORANIYA NACHIKETA (30636), w.e.f 13-JUL-15
KHURANA JITIN (30637), w.e.f 13-JUL-15
CHAUHAN ROHIT (30638), w.e.f 13-JUL-15
KHAN NEELOFER (30642), w.e.f 13-JUL-15
ARYA TARANG (30643), w.e.f 13-JUL-15
PANDEY BEENA (30645), w.e.f 13-JUL-15
ABHIRAMAN RAJSHREE (30646), w.e.f 13-JUL-15
CHAUHAN JYOTI (30647), w.e.f 13-JUL-15
KARWASRA PRIYANKA (30649), w.e.f 13-JUL-15
KUMARI MEENAKSHI (30650), w.e.f 13-JUL-15
GUPTA MEGHA (30651), w.e.f 13-JUL-15
SOHLOT UPASNA (30652), w.e.f 13-JUL-15
SONIKA (30653), w.e.f 13-JUL-15
SINGH AARTI (30654), w.e.f 13-JUL-15
RAINA PRANEETA (30655), w.e.f 13-JUL-15
JOSHI PRIYANKA (30656), w.e.f 13-JUL-15
SHARADA G (30657), w.e.f 13-JUL-15
TYAGI MANISHA (30658), w.e.f 13-JUL-15
JOSEPH ROSELINE K M (30659), w.e.f 13-JUL-15
KALA DIPTI (30660), w.e.f 13-JUL-15
GUPTA SUVIDHA (30661), w.e.f 13-JUL-15
MOHITE SANJIVANI VITTHALRAO (30662), w.e.f 13-JUL-15
GOEL SURUCHI (30663), w.e.f 13-JUL-15

RAJ DHRUVIKA (30664), w.e.f 13-JUL-15
GAUTAM NEHA (30665), w.e.f 13-JUL-15
SISODIA ADITI (30666), w.e.f 13-JUL-15
SHRIVASTAVA MEENAKSHI (30667), w.e.f 13-JUL-15
SHIVANGI (30668), w.e.f 13-JUL-15
KAUR TARANJOT (30669), w.e.f 13-JUL-15
VERMA TRIPTI (30670), w.e.f 13-JUL-15
GAUTAM MEHA (30672), w.e.f 13-JUL-15
NIGAM ANUPRIYA (30673), w.e.f 13-JUL-15
JEMINI (30674), w.e.f 13-JUL-15
MAMATHA D (30675), w.e.f 13-JUL-15
DIXIT KRATI (30676), w.e.f 13-JUL-15
GAYATHRY V (30677), w.e.f 13-JUL-15
CHOPRA SUMEDHA (30678), w.e.f 13-JUL-15
SHARMA RAINY (30679), w.e.f 13-JUL-15
NAIR SANGEETHA (30685), w.e.f 14-JUL-15
GUPTA SAUBHADRA KUMAR (30686), w.e.f 17-JUL-15

ADM BRANCH

RANGI MONIKA (30523), w.e.f 27-JUN-15
BHATT TRISHNA (30524), w.e.f 27-JUN-15
THAKUR PRIYANKA (30525), w.e.f 27-JUN-15
RASHMI (30526), w.e.f 27-JUN-15
CHANU KHUMBONGMAYUM PRIYA (30527), w.e.f 27-JUN-15
KADYAN SHAYANA (30528), w.e.f 27-JUN-15
PANDEY RICHA (30529), w.e.f 27-JUN-15
KARKI KANUPRIYA (30530), w.e.f 27-JUN-15
NAUTIYAL ANUBHUTI (30531), w.e.f 27-JUN-15
BISHT NEHA (30532), w.e.f 27-JUN-15
SAHU NEHA (30533), w.e.f 27-JUN-15

LGS BRANCH

YADAV REKHA (30534), w.e.f 27-JUN-15
SUNDARAM SOWMYANARAYANI (30535), w.e.f 27-JUN-15
SHARMA SHUBHI (30536), w.e.f 27-JUN-15
GUPTA ADITI (30537), w.e.f 27-JUN-15
HOODA PRIYANKA (30538), w.e.f 27-JUN-15
SINGH NUPUR (30539), w.e.f 27-JUN-15
SUNAYANA (30540), w.e.f 27-JUN-15
BALEKUNDRI MRUNALINI (30541), w.e.f 27-JUN-15

ACCTS BRANCH

RAI NIROO KUMARI (30542), w.e.f 27-JUN-15
PANDEY SAPNA (30543), w.e.f 27-JUN-15

PALLAVI (30544), w.e.f 27-JUN-15

SHUKLA PAPPY (30545), w.e.f 27-JUN-15

MUKHERJI ARPITA (30546), w.e.f 27-JUN-15

EDN BRANCH

BHAVANI B (30547), w.e.f 27-JUN-15

MET BRANCH

BAJPAI POOJA (30135), w.e.f 27-JUN-15

KUNDU RITU (30136), w.e.f 27-JUN-15

SINGH SHALINI (30137), w.e.f 27-JUN-15

THAKUR PRIYA (30138), w.e.f 27-JUN-15

SHARMA SONALI (30139), w.e.f 10-JUL-15

F(N) BRANCH

SINGH RAHUL (30420), w.e.f 27-JUN-15

KUZHİYETH ACHU (30453), w.e.f 27-JUN-15

SINGH AKSHAY MANN (30508), w.e.f 27-JUN-15

AGARWAL ANSHUL (30509), w.e.f 27-JUN-15

RATHI VIKUL KUMAR (30515), w.e.f 27-JUN-15

SANDHU SUSHIL KUMAR (30427), w.e.f 10-JUL-15

ADM BRANCH

MITHILESH ARUN PRAKASH (30465), w.e.f 27-JUN-15

KUMAR VIJAY (30466), w.e.f 27-JUN-15

RAI MANISH KUMAR (30467), w.e.f 27-JUN-15

CHANDEL ABHIMANYU (30468), w.e.f 27-JUN-15

SHEKHAWAT ANAND SINGH (30469), w.e.f 27-JUN-15

SHARMA SHEETAL (30470), w.e.f 27-JUN-15

BHATTACHARJEE SUDDHA (30471), w.e.f 27-JUN-15

LGS BRANCH

MAHANT MAN MOHAN (30472), w.e.f 27-JUN-15

SHARMA BIVEK (30473), w.e.f 27-JUN-15

SINGH MANISH KUMAR (30474), w.e.f 27-JUN-15

ACCTS BRANCH

AGARWAL PIYUSH (30475), w.e.f 27-JUN-15

SINGH SASHIRANJAN (30476), w.e.f 27-JUN-15

JUGRAN SANJAY PRASAD (30477), w.e.f 27-JUN-15

AUGUSTINE KANDOTH LAIJU (30478), w.e.f 27-JUN-15

SINGH RAVI SHANKAR (30479), w.e.f 27-JUN-15

TYAGI GAURAV (30482), w.e.f 27-JUN-15

TUMULU SAIPRASAD (30481), w.e.f 06-NOV-15

EDN BRANCH

VAIDYANATHAN ARDHANARI (30484), w.e.f 27-JUN-15

KUMAR TAMPELLA RAMESH (30485), w.e.f 27-JUN-15

MET BRANCH

SHAMMY PADMANABHAN (30133), w.e.f 27-JUN-15

YADAV ASHOK (30134), w.e.f 27-JUN-15

SQN LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR

ADM BRANCH

SINGH RAGHUVIR (27015), w.e.f 22-JUN-15

BEDI SATNAM SINGH (27016), w.e.f 22-JUN-15

DUBEY ASHISH (27017), w.e.f 22-JUN-15

BAIRWAL DALVIR SINGH (27018),w.e.f 22-JUN-15

RATHORE MAHARAGVENDRA SINGH (27019), w.e.f 22-JUN-15

PRAKASH POORNENDU (27020), w.e.f 22-JUN-15

SINGH SARDUL (27021), w.e.f 22-JUN-15

KUMAR ANAND (27022), w.e.f 22-JUN-15

M VINOD PONNAPPA (27023), w.e.f 22-JUN-15

DWIVEDI PUSHKAL (27024), w.e.f 22-JUN-15

NEGI ARJUN SINGH (27025), w.e.f 22-JUN-15

NARAYANA MARTHI VL (27026), w.e.f 22-JUN-15

KUMAR MUKESH (27027), w.e.f 22-JUN-15

VALSALAN VIJESH (27028), w.e.f 22-JUN-15

CHOUDHARY RAJENDRA (27029), w.e.f 22-JUN-15

KAMAT SNEHAL S (27030), w.e.f 22-JUN-15

KUMAR AJAY (27031), w.e.f 22-JUN-15

ANAPARTI RAJU (27032), w.e.f 22-JUN-15

SHARMA TRILOK (27033), w.e.f 22-JUN-15

MURUGAN D (27034), w.e.f 22-JUN-15

ILANKUMARAN I (27035), w.e.f 22-JUN-15

SAM MELEHISEDEC S (27036), w.e.f 22-JUN-15

MALARA PURAN SINGH (27037), w.e.f 22-JUN-15

ALLAMSETTY RAVI KIRAN (27039),w.e.f 22-JUN-15

MISHRA SANKET (27040), w.e.f 22-JUN-15

ACCTS BRANCH

RAJA NARAYANAN K (27041), w.e.f 22-JUN-15

SRIVASTAVA ROHIT (27042), w.e.f 22-JUN-15

MEHTA PRATEEK (27043), w.e.f 22-JUN-15

HANS SUMIT (27045), w.e.f 22-JUN-15

JAGGI DEEPINDER SINGH (27046),w.e.f 22-JUN-15

VERMA DEEPENDRA (27047), w.e.f 22-JUN-15

KHAN BISMILLAH (27048), w.e.f 22-JUN-15

CHOWDHURY BISWAJIT DAS (27049),w.e.f 22-JUN-15

EDN BRANCH

KANTH LAKSHMI B (27051), w.e.f 22-JUN-15

PARMAR JASKARAN SINGH (27052), w.e.f 22-JUN-15

RAWAT KAMAL SINGH (27053), w.e.f 22-JUN-15

ADM BRANCH

SUBHASH CHANDER (27073), w.e.f 04-APR-16

SINGH SANJEEV (27082), w.e.f 04-APR-16

HARI KARMARKAR SHIRISH (27093), w.e.f 04-APR-16

VENKAT GOPALA KRISHNA T (27099), w.e.f 04-APR-16

JAIN CHETAN KUMAR (27107), w.e.f 04-APR-16

SINGH SHIVRAJ (27080), w.e.f 04-APR-16

VIKAS (27077), w.e.f 04-APR-16

SINGH DEEPAK KUMAR (27083), w.e.f 04-APR-16

SINGH BIJENDER (27071), w.e.f 04-APR-16

WAZIR SANJEEV (27075), w.e.f 04-APR-16

PRIYADARSHI ANAND KASAL (27074), w.e.f 04-APR-16

RAVI JAIN (27085), w.e.f 04-APR-16

F(P) BRANCH

SUKANT SHISHIR (26951), w.e.f 23-APR-15

CHINTADA SURESH (26952), w.e.f 22-JUN-15

GERA MANOJ (26953), w.e.f 22-JUN-15

SINGH AVINASH (26954), w.e.f 22-JUN-15

JHA PARIJAT (26955), w.e.f 22-JUN-15

JHORAR ASHISH (26957), w.e.f 22-JUN-15

ROY SYAMANTAK (26959), w.e.f 22-JUN-15

KUMAR NITESH (26960), w.e.f 22-JUN-15

DHANKHAR YOGENDER (26961), w.e.f 22-JUN-15

AMIT KUMAR (26962), w.e.f 22-JUN-15

KHARE TANMAY (26963), w.e.f 22-JUN-15

ARJARIYA GAURAV P (26964), w.e.f 22-JUN-15

BENIWAL PAWAN (26965), w.e.f 22-JUN-15

GUPTA VIJAY KUMAR (26966), w.e.f 22-JUN-15

BAHL ANUJ (26967), w.e.f 22-JUN-15

SURYANARAYANAN K (26968), w.e.f 22-JUN-15

GUPTA PANKAJ (26969), w.e.f 22-JUN-15

REPSWAL ANIL KUMAR (26971), w.e.f 22-JUN-15

KUMAR POLINENI VARUN (26972), w.e.f 22-JUN-15

PATIL RAMANGOUDA SHAMBHUGOUDA (26973)), w.e.f 22-JUN-15

SLARIA VARUN (26974), w.e.f 22-JUN-15

GARG ANKIT (26975), w.e.f 22-JUN-15

RANA AMIT (26976), w.e.f 22-JUN-15

MANN SURJEET (26977), w.e.f 22-JUN-15

ATHAVALA ASHUTOSH VASANT (26978), w.e.f 22-JUN-15

GUPTA SAURABH (26979), w.e.f 22-JUN-15
GHUMAN GURPREET SINGH (26980),w.e.f 22-JUN-15
TRIPATHI SANDEEP (26981), w.e.f 22-JUN-15
CHAUHAN PRITHVI SINGH (26982),w.e.f 22-JUN-15
GULATI DHEERAJ (26983), w.e.f 22-JUN-15
REDDY BEEMIDI SATEESH (26984),w.e.f 22-JUN-15
THOMAS MATHALA JINO (26985), w.e.f 22-JUN-15
MEHROTRA ANKIT (26986), w.e.f 22-JUN-15
SAHU BIKASH KUMAR (26987), w.e.f 22-JUN-15
BHATI HARPREET SINGH (26988),w.e.f 22-JUN-15
SAURABH KUMAR (26989), w.e.f 22-JUN-15
AHUJA RAHUL (26990), w.e.f 22-JUN-15
PANWAR ROHIT (26991), w.e.f 22-JUN-15
SINGH RAJAT KUMAR (26992), w.e.f 22-JUN-15
VASHIST SHITIJ (26993), w.e.f 22-JUN-15
BHATT HANS RAJ (26994), w.e.f 22-JUN-15
AWASTHI KSHITIJ (26995), w.e.f 22-JUN-15
SINGH MANTEJ (26996), w.e.f 22-JUN-15
PANDEY RAHUL (26998), w.e.f 22-JUN-15
SHANMUKHA T (27000), w.e.f 22-JUN-15
SINGH RAHUL (27001)), w.e.f 22-JUN-15
AKSHAY RAJ (27003)), w.e.f 22-JUN-15
GARG CHANDAN (27004)), w.e.f 22-JUN-15
PATHAK NEETESH (27006)), w.e.f 22-JUN-15
KHAN MOHAMMED KASHIF (27008),w.e.f 22-JUN-15
MULTANI SUKHWINDER SINGH (27002), w.e.f 26-FEB-16

ADM BRANCH

BOBDE PANKAJ SHRIKRISHNA (26999)), w.e.f 22-JUN-15
VERMA RAJENDRA (27005),w.e.f 22-JUN-15
SINGH ANUPAMA (27054), w.e.f 22-JUN-15
DIMRI BHARATI (27055), w.e.f 22-JUN-15
ATWAL GURPREET (27058), w.e.f 22-JUN-15
SAJINI P (27059), w.e.f 22-JUN-15
ABIRAMI L (27060), w.e.f 22-JUN-15
IYER HEMALATA (27062), w.e.f 22-JUN-15

ACCTS BRANCH

PANT TANUSHREE (27064), w.e.f 22-JUN-15
MASOAN ASHU (27065), w.e.f 22-JUN-15

EDN BRANCH

THAKUR PUSHPA (27066), w.e.f 22-JUN-15

MET BRANCH

SAPNA DEVI (26639), w.e.f 22-JUN-15

AE(M) BRANCH

PANDEY PALLAVI (27623), w.e.f 05-JUL-15

AE(L) BRANCH

VERMA POONAM (27626), w.e.f 05-JUL-15

BITTU SEEMA (27627), w.e.f 05-JUL-15

AE(M) BRANCH

SHEKAR PEELA CHANDRA (27938), w.e.f 05-JUN-15

RAGHAVENDRAN S (27939), w.e.f 05-JUN-15

JAYAPRAKASH (27940), w.e.f 05-JUN-15

QUADRI SYED SHAH IMRAN ULLAH (27941), w.e.f 05-JUN-15

PANDEY BIJENDRA (27942), w.e.f 05-JUN-15

AE(L) BRANCH

BHARDWAJ PAWAN KUMAR (27944), w.e.f 05-JUN-15

HARIBHAU KALASKAR PRADEEP (27945), w.e.f 05-JUN-15

RAJENDRAN K (27946), w.e.f 05-JUN-15

JOHN THOMAS (27947), w.e.f 05-JUN-15

AE(M) BRANCH

DENESH HERRICK JOSEPH (27330), w.e.f 05-JUL-15

PAUL FEJO K (27570), w.e.f 05-JUL-15

RATH SHASHANK SHEKHAR (27571), w.e.f 05-JUL-15

GHULE SANDEEP PANDURANG (27572), w.e.f 05-JUL-15

SREENATH VASANTHAMANDIRAM PARAMESWARAN NAIR (27573), w.e.f 05-JUL-15

NIBANDHE PANDURANG MADHAV (27575), w.e.f 05-JUL-15

JAYANTH KUMAR BR (27576), w.e.f 05-JUL-15

VICTOR CHARLES VINOD (27577), w.e.f 05-JUL-15

GOVINDAKRISHNAN U (27578), w.e.f 05-JUL-15

PALLHA GURVINDER SINGH (27579), w.e.f 05-JUL-15

BAJPAI PANKAJ (27580), w.e.f 05-JUL-15

SHIVSHANKAR NAVEEN (27581), w.e.f 05-JUL-15

HARSHA NS (27582), w.e.f 05-JUL-15

DEV BABY VIMAL (27583), w.e.f 05-JUL-15

BHUPAL SAKALE AMOL (27584), w.e.f 05-JUL-15

AE(L) BRANCH

ANVAR SHAJI C (27408), w.e.f 05-JUL-15

BEHERA SHIBAN KUMAR (27586), w.e.f 05-JUL-15

RAJENDRAN VIJAY (27588), w.e.f 05-JUL-15

BANTHIA SHRENIK KUMAR (27590), w.e.f 05-JUL-15

JESUS ALMEIDA ALVIN (27591), w.e.f 05-JUL-15

GOSWAMI ARNAB (27592), w.e.f 05-JUL-15

THOMAS VARGHESE (27593), w.e.f 05-JUL-15
HABIN THOMAS B (27594), w.e.f 05-JUL-15
JAIN ABHINAV (27595), w.e.f 05-JUL-15
RAKESH (27596), w.e.f 05-JUL-15
SUNDEEP DESAI S (27597), w.e.f 05-JUL-15
GEDA KALYAN CHAKRAVARTY (27598), w.e.f 05-JUL-15
THAPAR PRATEEK (27599), w.e.f 05-JUL-15
DEB BISWARUP (27600), w.e.f 05-JUL-15
SEKHAR GUNDLURU REDDY RAJA (27601), w.e.f 05-JUL-15
SINGH DEVINDER (27602), w.e.f 05-JUL-15
SAJWAN SANJEEV (27603), w.e.f 05-JUL-15
BABU PARIMI RAJESH (27604), w.e.f 05-JUL-15
RAVI KUMAR HN (27606), w.e.f 05-JUL-15
BASAVARAJ (27607), w.e.f 05-JUL-15
RAMJI GUNNAM SAI (27608), w.e.f 05-JUL-15
SACHIN KUMAR (27609), w.e.f 05-JUL-15
NANJUNDASWAMY GURUPRASAD KIKKERY (27610), w.e.f 05-JUL-15
INGALE MAKRAND MADHUKAR (27612), w.e.f 05-JUL-15
PRASHANT KUMAR M (27613), w.e.f 05-JUL-15
SETTY SREENIVASALU NAMA SATHYANARAYANA (27615), w.e.f 05-JUL-15

AE(L) BRANCH

SEETHA SHAILENDRA DUTT (27616), w.e.f 05-JUL-15
CHAITANYA KANUPARTI KRISHNA (27617), w.e.f 05-JUL-15
SAHA PARTHA (27618), w.e.f 05-JUL-15
RANJAN ARVIND (27619), w.e.f 05-JUL-15
ZANANE ABHISHEK (27620), w.e.f 05-JUL-15
MULLICK ANUPAM (27621), w.e.f 05-JUL-15
HASAN AMANULLAH (27630), w.e.f 05-JUL-15
GOVINDARAJAN MANI (27634), w.e.f 05-JUL-15
TIWARI AAYUSH (27587), w.e.f 11-SEP-15

F(N) BRANCH

KULSHRESHTHA MUDIT (27009), w.e.f 22-JUN-15
SHIVKUMAR AMIT (27010), w.e.f 22-JUN-15
BORAH PARTHA PRATIM (27011), w.e.f 22-JUN-15
PANJIYAR VIKAS KUMAR (27012), w.e.f 22-JUN-15
KUMAR RANJIT (27013), w.e.f 22-JUN-15
BHAWNA DEVIDAS MAKHIJANI (30009), w.e.f 21-JUN-14
AZAD RAVINDRA KUMAR (29922), w.e.f 21-JUN-14
SINGH SUKESH (29946), w.e.f 21-JUN-14
NARAYANPETHKAR YESHWANT ANIL (29956), w.e.f 21-JUN-14
KHEDAR PRAMOD (29960), w.e.f 21-JUN-14

JOSHI PUSHKAR VINOD (29968), w.e.f 21-JUN-14
BHATTACHARJEE DEBABRATA (29963), w.e.f 21-JUN-14
NEGI DEEPAK (29964), w.e.f 21-JUN-14
DAS ANJAL (29965), w.e.f 21-JUN-14
MAXMILLAN GERARD GOMES (29966), w.e.f 21-JUN-14
TRIPATHI PIYUSH (29967), w.e.f 21-JUN-14
PANDA RRAVUPADA (29962), w.e.f 21-JUN-14
NIVEDITA CHOUDHARY (30010), w.e.f 21-JUN-14

F(P) BRANCH

MISHRA PRABHASH (29917), w.e.f 21-JUN-14
SHEKHAR SUMIT (29933), w.e.f 21-JUN-14
PANDEY DEV BHUSHAN (29950), w.e.f 21-JUN-14
JACOB ROHAN CHACKO (29892), w.e.f 21-JUN-14
BHARDWAJ AKHIL (29893), w.e.f 21-JUN-14
KUMAR VIKASH (29894), w.e.f 21-JUN-14
RAJA ARUMUGANATHAN PICHIPPOO (29895), w.e.f 21-JUN-14
MOTHAY ADITYA SAI KUMAR (29896), w.e.f 21-JUN-14
GOPI KRISHNA (29897), w.e.f 21-JUN-14
VASIREDDY PRANEETH KUMAR (29898), w.e.f 21-JUN-14
DHANKHAR DEEPAK (29899), w.e.f 21-JUN-14
UNIYAL RAJNEESH CHANDRA (29900), w.e.f 21-JUN-14
KULKARNI ROHAN KISHOR (29925), w.e.f 21-JUN-14
KUMAR ASHWINI (29926), w.e.f 21-JUN-14
NAINWAL RAHUL (29927), w.e.f 21-JUN-14
GODARA RAJENDRA KUMAR (29928), w.e.f 21-JUN-14
BHARAJ HIMMATDAL SINGH (29929), w.e.f 21-JUN-14
BISWAS HIMADRI (29930), w.e.f 21-JUN-14
BHOLA VIRAT (29932), w.e.f 21-JUN-14
SHARMA PAWAN KUMAR (29934), w.e.f 21-JUN-14
SAURABH (29935), w.e.f 21-JUN-14
VERMA SANJAY (29936), w.e.f 21-JUN-14
MOHAN VIVEK (29937), w.e.f 21-JUN-14
KUMAR YOGESH (29938), w.e.f 21-JUN-14
LAISHRAM BINOY SINGH (29939), w.e.f 21-JUN-14
DEV KAPIL (29940), w.e.f 21-JUN-14
DAS DIPANKAR (29957), w.e.f 21-JUN-14
SANDEEP BHASKAR (29901), w.e.f 21-JUN-14
VIGNESHWAR S SAKTHI (29902), w.e.f 21-JUN-14
SURI ATUL (29903), w.e.f 21-JUN-14
PRASAD ASHWIN (29904), w.e.f 21-JUN-14
VYAS ANUBHAV (29905), w.e.f 21-JUN-14

SHUKLA ARPIT (29906), w.e.f 21-JUN-14
MAHENDRA ANUBHAV (29907), w.e.f 21-JUN-14
PATEL ARJUN K (29908), w.e.f 21-JUN-14
SUBRAMANIAM VISWANATHAN NAGA (29909), w.e.f 21-JUN-14
TOMAR ANKUSH (29910), w.e.f 21-JUN-14
SHARMA RIJUL (29911), w.e.f 21-JUN-14
GUPTA ANUJ (29912), w.e.f 21-JUN-14
RAO C KARTIKEYA (29913), w.e.f 21-JUN-14
GUPTA MOHIT (29914), w.e.f 21-JUN-14
PATNAIK SAMBIT (29915), w.e.f 21-JUN-14
SHARMA SAGAR (29916), w.e.f 21-JUN-14
CHAUHAN ROHIT KUMAR (29918), w.e.f 21-JUN-14
DOGRA TIGMANSHU (29919), w.e.f 21-JUN-14
MADAN RAKSHIT (29958), w.e.f 21-JUN-14
SOND MEHTAB (29959), w.e.f 21-JUN-14
RAWAT ASHISH (29961), w.e.f 21-JUN-14
OLA MOHIT (29947), w.e.f 21-JUN-14
POTHEN PRADHYU ZACHARIAH (29942), w.e.f 21-JUN-14
KUMAR RAVEESH (29923), w.e.f 21-JUN-14
JOSHI PARIKSHIT NANDLAL (29949), w.e.f 21-JUN-14
GAUR AMIT (29951), w.e.f 21-JUN-14
RAWAT VIJAYPAL (29952), w.e.f 21-JUN-14
BADGUJAR SANJIV TULSHIRAM (29953), w.e.f 21-JUN-14
KUMAR KESHOV (29920), w.e.f 21-JUN-14
JEYAKRISHNAN M (29921), w.e.f 21-JUN-14
NEGI ASHRAY (29943), w.e.f 21-JUN-14
NAQVI AMMAR HAIDER (29944), w.e.f 21-JUN-14
KHANDURI ASHUTOSH (29945), w.e.f 21-JUN-14
KUMAR SAURABH VISHAL (29948), w.e.f 21-JUN-14
MISHRA UJJWAL KUMAR (29955), w.e.f 21-JUN-14
SOOD ANKIT (29873), w.e.f 21-JUN-14
PANWAR MAYANK (29874), w.e.f 21-JUN-14
ABROL SAMIR (29875), w.e.f 21-JUN-14
CHAHAL MANISH KUMAR (29876), w.e.f 21-JUN-14
KUMAR P SHYAM (29877), w.e.f 21-JUN-14
SINGH PARVINDER (29878), w.e.f 21-JUN-14
MADHWAL SAMIR (29879), w.e.f 21-JUN-14
ATRE ROHAN ATUL (29880), w.e.f 21-JUN-14
NAYAK LAGNAJEET (29881), w.e.f 21-JUN-14
JOSHI MANISH (29882), w.e.f 21-JUN-14
KUMAR ANIKET (29883), w.e.f 21-JUN-14

PATHANIA GOURAV (29884), w.e.f 21-JUN-14

KAPOOR SAHIL (29885), w.e.f 21-JUN-14

JOHN EAPEN (29886), w.e.f 21-JUN-14

KUMAR NIRMAL (29887), w.e.f 21-JUN-14

SINGH UMESH BAHADUR (29888), w.e.f 21-JUN-14

KALRA KUNAL (29889), w.e.f 21-JUN-14

NORBU JIGMET (29890), w.e.f 21-JUN-14

SHARMA RUPESH KUMAR (29891), w.e.f 21-JUN-14

SQN LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR

AE(M) BRANCH

K MADHAVA RAO (27434), w.e.f 07-JUL-14

SURI HARPREET SINGH (27110), w.e.f 07-JUL-14

SINGH BALRAJ (27111), w.e.f 07-JUL-14

MAHENDRANATH SURESH KUMAR (26802), w.e.f 07-JUL-14

PRAKASH P (27118), w.e.f 07-JUL-14

PUTHALATH DEEPU SAHADEVAN (26835), w.e.f 07-JUL-14

CHAUDHARY ABHISHEK (27112), w.e.f 07-JUL-14

RAMESH H (27115), w.e.f 07-JUL-14

TRIVEDI KAPILESH (27120), w.e.f 07-JUL-14

SREEDHARAN SUJEETH K (26813), w.e.f 07-JUL-14

CHAMARTI KIRAN KUMAR (27114), w.e.f 07-JUL-14

JOSE JIJO (27113), w.e.f 07-JUL-14

SINGH ARVIND KUMAR (27116), w.e.f 07-JUL-14

AE(L) BRANCH

VAIDYA HARSH (27152), w.e.f 07-JUL-14

TEJPAL SAMRAT (27153), w.e.f 07-JUL-14

SINGH MANISH NARAYAN (27154), w.e.f 07-JUL-14

KUMAR PIYUSH (27155), w.e.f 07-JUL-14

VERMA ROHIT SINGH (27156), w.e.f 07-JUL-14

NAMDEV DEEPAK (27157), w.e.f 07-JUL-14

SARVANAN HARIHARAN (27123), w.e.f 07-JUL-14

SHUBHENDU (27124), w.e.f 07-JUL-14

SINGH KARMENDRA (27125), w.e.f 07-JUL-14

HARIHARAN MAHADEVAN (27126), w.e.f 07-JUL-14

KAURA DEEPAK (27150), w.e.f 07-JUL-14

CHATERJEE INDRANIL (27127), w.e.f 07-JUL-14

GARG ASIT KRISHAN (27128), w.e.f 07-JUL-14

TRIPATHY BHASWAN PRAKAS (27129), w.e.f 07-JUL-14

GUGLANI AMIT (27130), w.e.f 07-JUL-14

SINGH AMIT KUMAR (27131), w.e.f 07-JUL-14

KALRA JASNEET SINGH (27132), w.e.f 07-JUL-14

SINGH JAGDEEP (27133), w.e.f 07-JUL-14
SHARMA MUNISH (27134), w.e.f 07-JUL-14
SINGH ANUP (27135), w.e.f 07-JUL-14
UDAY KUMAR S (27136), w.e.f 07-JUL-14
PRASAD DEEPAK (27137), w.e.f 07-JUL-14
PRASAD V (27151), w.e.f 07-JUL-14
KUNTAL JITENDRA (26862), w.e.f 07-JUL-14
SAINI SANDEEP (26863), w.e.f 07-JUL-14
GANGULI PRITHWISH (26878), w.e.f 07-JUL-14
ABHILASH R (27149), w.e.f 07-JUL-14
CHOUDHARY OM NATH (27147), w.e.f 07-JUL-14
MANISH (26840), w.e.f 07-JUL-14
DOGRA RAJINDER KUMAR (27122), w.e.f 07-JUL-14
YADAV PARVEEN (27142), w.e.f 07-JUL-14
GAUTAM SAILESH (27141), w.e.f 07-JUL-14
BHARATI VISHAL (27140), w.e.f 07-JUL-14
KHARE ASHISH (27139), w.e.f 07-JUL-14
BARAL ANUPAM (27138), w.e.f 07-JUL-14
SINGH SUKHMINDER (27121), w.e.f 07-JUL-14
SAGWAL VIKAS (27148), w.e.f 07-JUL-14
DHINGRA GAGANDEEP SINGH (27146), w.e.f 07-JUL-14
KISHORE ABHISHEK (26950), w.e.f 07-JUL-14
SINGH SAMARJEET (27143), w.e.f 07-JUL-14
JAIN ANSHUL (27145), w.e.f 07-JUL-14

ADM BRANCH

SINGH TANUJA (30858), w.e.f 24-DEC-15
RATHORE PRAGYA PAYASWINI (30859), w.e.f 24-DEC-15
SHARMA MITI (30866), w.e.f 24-DEC-15
DADHICH ANUSHREE (30865), w.e.f 24-DEC-15
DWIVEDI ANNAVITA (30864), w.e.f 24-DEC-15
ROHILLA URVASHI (30863), w.e.f 24-DEC-15
KAUR JASDEEP (30862), w.e.f 24-DEC-15
CHAND BIMLA (30861), w.e.f 24-DEC-15
NANCY MAHESWARI (30860), w.e.f 24-DEC-15

LGS BRANCH

SINGH JAGRITI (30869), w.e.f 24-DEC-15
BHATT MADHU (30871), w.e.f 24-DEC-15
ZAIDI FIRDOUS FATIMA (30874), w.e.f 24-DEC-15
TAPRIAL ANKITA (30875), w.e.f 24-DEC-15
SINGH SAUMYATA (30872), w.e.f 24-DEC-15
SINGH PRERNA (30873), w.e.f 24-DEC-15
BANDYOPADHYAY DEEPANNITA (30870), w.e.f 29-JAN-16

ACCTS BRANCH

YADAV POOJA (30878), w.e.f 24-DEC-15

ANTIL ANITA (30876), w.e.f 24-DEC-15

SINGH VIBHA (30879), w.e.f 24-DEC-15

BALI ANKITA (30877), w.e.f 24-DEC-15

EDN BRANCH

BHATNAGAR ANUKRITI (30881), w.e.f 24-DEC-15

KAUR PARWINDERJIT (30880), w.e.f 24-DEC-15

MET BRANCH

VASHISHT ANU (30345), w.e.f 24-DEC-15

SHARMA MEGHA (30346), w.e.f 24-DEC-15

THAKUR MINAKSHI (30348), w.e.f 24-DEC-15

GUR PRATIBHA (30349), w.e.f 24-DEC-15

KUMARI SUMITA (30352), w.e.f 24-DEC-15

SHARMA RUHI (30350), w.e.f 24-DEC-15

RADHAKRISHNAN SREEREKHA KOTTARATHIL (30351),w.e.f 24-DEC-15

ADM BRANCH

YADAV BRIJENDRA SINGH (30802),w.e.f 24-DEC-15

MUDGAL PANKAJ (30804), w.e.f 24-DEC-15

GOSWAMI MANOJ PURI (30803), w.e.f 24-DEC-15

SINGH MAHENDRA (30796), w.e.f 24-DEC-15

MIRZA MD RAKIBUR (30801), w.e.f 24-DEC-15

SINGH MANOJ KUMAR (30798), w.e.f 24-DEC-15

TYAGI GEET (30799), w.e.f 24-DEC-15

KUMAR ASHITOSH (30800), w.e.f 24-DEC-15

SEKHON ATTAL SINGH (30797), w.e.f 24-DEC-15

LGS BRANCH

GUPTA JAWAHAR LAL (30805), w.e.f 24-DEC-15

SINGH AMARDEEP (30808), w.e.f 24-DEC-15

RANA MANPREET SINGH (30809), w.e.f 24-DEC-15

MAHANTA BISWADEV (30806), w.e.f 24-DEC-15

ACCTS BRANCH

REDDY GANUGAPENTA JAIVARDHAN (30810),w.e.f 24-DEC-15

EDN BRANCH

ARYA VINOD KUMAR (30811), w.e.f 24-DEC-15

MET BRANCH

MISHRA SUMIT (30343), w.e.f 24-DEC-15

MEITEI YUMNAN SARATCHANDRA (30344), w.e.f 24-DEC-15

F (P) BRANCH

GHOLVE ASRUBA (30813), w.e.f 24-DEC-15

MAHAJAN AKHIL (30817), w.e.f 24-DEC-15

MANN MEHUL (30818), w.e.f 24-DEC-15
NAIK YATIN SEETARAM (30819), w.e.f 24-DEC-15
MANDAVGANE NINAD ANIL (30820), w.e.f 24-DEC-15
KUMAR YOGENDRA (30821), w.e.f 24-DEC-15
SHEKHAWAT AKASH SINGH (30822), w.e.f 24-DEC-15
YADAV JAMWANT (30824), w.e.f 24-DEC-15
PANKE PRITISH RAVINDRA (30825), w.e.f 24-DEC-15
GAONKAR PRATHAMESH MOHAN (30828), w.e.f 24-DEC-15
SINGH JAYVEER (30829), w.e.f 24-DEC-15
PANCHABUDDHEY KRUPAL PURUSHOTTAM (30832), w.e.f 24-DEC-15
GANDIKOTA JAGAN MOHAN (30835), w.e.f 24-DEC-15
SHARMA ABHISHEK (30836), w.e.f 24-DEC-15
SHINDODE PRADEEP DINESH (30837), w.e.f 24-DEC-15
KUMAR RAJAMANICKM ANTHONY RAJESH (30838), w.e.f 24-DEC-15
DESAI RANJIT RAJENDRA (30839), w.e.f 24-DEC-15
RAWAT MOHIT (30840), w.e.f 24-DEC-15
SINGH MOIRANGTHEM KRISHANBA (30841), w.e.f 24-DEC-15
DAVERA NAREN (30843), w.e.f 24-DEC-15
ARYA PRANAV (30814), w.e.f 24-DEC-15
DESAI ADITYA VISHWAS (30815), w.e.f 24-DEC-15
BHARDWAJ PRASHANT (30816), w.e.f 24-DEC-15
SINGH SHAILENDRA PRATAP (30831), w.e.f 24-DEC-15

ADM BRANCH

JAMWAL DHEERAJ (30846), w.e.f 24-DEC-15
UPADHYAY ANUP KUMAR (30849), w.e.f 24-DEC-15
SHEKHAR HIMANSHU (30844), w.e.f 24-DEC-15
WALIA SOURABH (30845), w.e.f 24-DEC-15
MAURYA UPESH KUMAR (30847), w.e.f 24-DEC-15
KAUSHIK DEEPAK (30848), w.e.f 24-DEC-15

LGS BRANCH

ARUN ANSHUL (30850), w.e.f 24-DEC-15
SHUKLA KRISHAN KUMAR (30851), w.e.f 24-DEC-15

ADM BRANCH

SWAMI SANJAY KUMAR (30812), w.e.f 24-DEC-15

SQN LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR

WG CDR SUDHANSHU DUBEY (24535) F(P)

READ AS

DUBEY SUDHANSHU (24535) F (P), w.e.f 21-JUN-2010

FOR

DUBEY SUDHANSHU (24535) ADM, w.e.f 21-JUN-2010

(Ministry of Defence Gazette Notification SI No. 10/98/2013 stands cancelled in toto i.r.o. the above named officer with respect to promotion to the rank of Wg Cdr in Adm branch)

The President is pleased to transfer the under mentioned officer from Adm branch to Flying (P) branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Flying Branch. The officer will be placed between Wg Cdr Bajwa Avtar Singh (24530) F(P) and Wg Cdr Gaur Sharad

Dominic (24537) F(P) In the Air Force List. Concurrence of Ministry of Defence (Fin/Air/Pay) ID No./1210/04/P&W/AF/05 dated 25 Jan 05 and U.O No. 408/P&W/AF dated 27 Jul 18.

INDIAN AIR FORCE
TRANSFER OF BRANCH
ADM TO F(P)

READ AS

DUBEY SUDHANSHU (24535) F(P), w.e.f 07-OCT-03

FOR

DUBEY SUDHANSHU (24535) ADM, w.e.f 07-OCT-03

(Ministry of Defence Gazette Notification SI No. 19/221/2004 stands cancelled in toto i.r.o. the above named officer with respect to transfer of branch to the rank of Flt Lt in Adm branch)

WG CDR TO BE SUBSTANTIVE GP CAPT (TS)

AE(L) BRANCH

SUDHIR NASIAR (21417), w.e.f 28-SEP-2016

R KAR (21445), w.e.f 28-SEP-2016

ADM BRANCH

RS SISODIA (20593), w.e.f 15-DEC-2016

SQN LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR

AE(L) BRANCH

BK UPADHYAY (28430), w.e.f 29-JUN-2016

AE(M) BRANCH

P KUMAR (28857), w.e.f 30-DEC-2016

FLT LT TO BE SUBSTANTIVE SQN LDR

F(P) BRANCH

S AGGARWAL (31561), w.e.f 18-DEC-2016

AE(L) BRANCH

N ROHIT (21410), w.e.f 28-SEP-2016

F(P) BRANCH

SK SAINI (21021), w.e.f 15-DEC-2016

TA SREENATH (21269), w.e.f 15-JUN-2017

ACCTS BRANCH

SK MURTY (20636), w.e.f 15-DEC-2016

SQN LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR

AE(L) BRANCH

R ARUN KUMAR (27522), w.e.f 21-JUN-2016

COURSE NO. 147PC,56 NTBC,57 NTBC,20TBCC,114 GDOC

The President is pleased to make the following Substantive Promotion:—

WG CDR TO BE SUBSTANTIVE GP CAPT (TS)

F(P) BRANCH

VERMA CHAITANYA KUMAR (21268), w.e.f 15-JUN-2017

MOHAMMAD ASRAR ISMAIL (21243), w.e.f 15-JUN-2017

SQN LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR

ADM BRANCH

NAIR JAYACHANDRAN GOPALKRISHNAN (28293), w.e.f 18-DEC-2017

MISHRA MANOJ KUMAR (27819), w.e.f 20-DEC-2016

SINHA MANOJ KUMAR (27820), w.e.f 20-DEC-2016

SETTIPALLI KONDALARAO (28057), w.e.f 19-JUN-2017

LGS BRANCH

SINGH NIWAS KUMAR (27821), w.e.f 20-DEC-2016

EDN BRANCH

KUTTAPPAN BALACHANDRAN (27822), w.e.f 20-DEC-2016

PRAMANIK UTTAM KUMAR (27823), w.e.f 20-DEC-2016

AE(M) BRANCH

HEGDE GAJANANA VENKATRAMANA (27813), w.e.f 19-DEC-2016

AE(L) BRANCH

SHARMA HARI KRISHAN (27814), w.e.f 19-DEC-2016

SHARMA CHIRANJI LAL (27815), w.e.f 19-DEC-2016

SINGH SANJIV KUMAR (27816), w.e.f 19-DEC-2016

CHATURVEDI DHARMENDRA (27818), w.e.f 18-JAN-2017

INDIAN AIR FORCE

WG CDR TO BE SUBSTANTIVE GP CAPT(TS)

F(P) BRANCH

SINGH ARVIND (21816) w.e.f 13-JUN-2018

SQN LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR

F(P) BRANCH

VATS DUSHYANT (27484) w.e.f 21-JUN-2016

FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

A(L) BRANCH

SAMRIDH PRABHAKAR (33357) w.e.f 30-JUN-2015

SQN LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR

AE(M) BRANCH

SAM NITIN THOMAS (27574), AE(L) BRANCH w.e.f 03-JAN-16

AE(L) BRANCH

NARAYANAN SUDEESH (27611), w.e.f 03-JAN-16

AE(M) BRANCH

DUTT ANAND (27932), w.e.f 03-JAN-16

LENDE PANKAJ (28299), w.e.f 03-JAN-16

VYAS SUNNY (27934), w.e.f 03-JAN-16

CHATURVEDI SHISHIR (27926), w.e.f 03-JAN-16

NIMAL D (28300), w.e.f 03-JAN-16

JOSEPH GEORGE (28298), w.e.f 03-JAN-16
SHARMA ANOOP KUMAR (28301), w.e.f 03-JAN-16
VISHWAKARMA RAJAN (27825), w.e.f 03-JAN-16
MISHRA ARPAN (27826), w.e.f 03-JAN-16
NATRAJAN MAHENDRAN (27827), w.e.f 03-JAN-16
SANJEEV VINOD (27828), w.e.f 03-JAN-16
NIKHIL M (27829), w.e.f 03-JAN-16
KOTUR HARSHAVARDHAN S (27830) w.e.f 03-JAN-16
SAURABH MOHAN (27831), w.e.f 03-JAN-16
KURUP GOPALAKRISHNA VENU (27832), w.e.f 03-JAN-16
REBERO BASIL OSCAR (27833), w.e.f 03-JAN-16
GOVIND JAHAGIRDAR NILESH (27834), w.e.f 03-JAN-16
KUMAR ANIL (27835), w.e.f 03-JAN-16
VISWHANATH NAREDLA (27836), w.e.f 03-JAN-16
KUMAR SURESH (27837), w.e.f 03-JAN-16
RAMRAO HAJARE MANOJ (27839), w.e.f 03-JAN-16
NAGENDRA DA (27840), w.e.f 03-JAN-16
SINGH YUDHVIR (27841), w.e.f 03-JAN-16
GOYAL VISHAL (27842), w.e.f 03-JAN-16
KARTHIK RAJARATHINAM (27843), w.e.f 03-JAN-16
RAJAGOPALAN NATRAJAN (27845), w.e.f 03-JAN-16
DESHMUKH SAMEER SUDHIR (27846), w.e.f 03-JAN-16
PRADEEP RAMACHANDRAN (27847), w.e.f 03-JAN-16
JOSHVA GOLLA (27933), w.e.f 03-JAN-16

AE(L) BRANCH

PARIHAR YOGESH (27915), w.e.f 03-JAN-16
DAHIYA TARUN SHAKTI (27916), w.e.f 03-JAN-16
BOSE KALLOL (27930), w.e.f 03-JAN-16
CHANDRASEKHAR SREEKUMAR (28303), w.e.f 03-JAN-16
MUKHERJEE SOMNATH (28304), w.e.f 03-JAN-16
BANERJEE BIMAN (28305), w.e.f 03-JAN-16
NARAYANAN JAIMY MOONJELY (28306), w.e.f 03-JAN-16
JOHN SACHIN TOM (27917), w.e.f 03-JAN-16
SUBRAMANIAM KARTHIK (27931), w.e.f 03-JAN-16
SHUKLA ABHINAY (27918), w.e.f 03-JAN-16
CHOUHAN PRITHVIRAJ SINGH (27919), w.e.f 03-JAN-16
PANDARI SATISH KUMAR (27922), w.e.f 03-JAN-16
JOSHI TUSHAR (27920), w.e.f 03-JAN-16
OJHA PURAN DEO (27923), w.e.f 03-JAN-16
GARG VINEET (27921), w.e.f 03-JAN-16
KRISHNAN GIREESH (27925), w.e.f 03-JAN-16
NATH SURADEEP (27928), w.e.f 03-JAN-16

RAMACHANDRAN KASINATHAN (27929), w.e.f 03-JAN-16
MANI KANDAN NAMBIAR G (28307), w.e.f 03-JAN-16
DAS ABHINANDAN (27848), w.e.f 03-JAN-16
JAYARAM NAVEEN KUMAR (27849), w.e.f 03-JAN-16
DEBNATH SANDEEP (27850), w.e.f 03-JAN-16
MUTHUVEL SAMPATH KRISHNAN (27851), w.e.f 03-JAN-16
CHHIBBER VIKRAM (27852), w.e.f 03-JAN-16
PADHY PANKAJ KUMAR (27853), w.e.f 03-JAN-16
RASTOGI TUSHAR (27854), w.e.f 03-JAN-16
GIRI BANNEHLANG DKHAR (27855), w.e.f 03-JAN-16
SINGH ABHISHEK (27856), w.e.f 03-JAN-16
VERMA MANISH KUMAR (27857), w.e.f 03-JAN-16
KAURA NIMIT (27858), w.e.f 03-JAN-16
KAPOOR ANUPAM (27859), w.e.f 03-JAN-16
SEN NAYAN KUMAR (27860), w.e.f 03-JAN-16
BAJIA RAVI KUMAR (27862), w.e.f 03-JAN-16
PATIL RAVISHANKAR (27863), w.e.f 03-JAN-16
TYAGI ABHISHEK (27864), w.e.f 03-JAN-16
KHANNA CHINTAN (27865), w.e.f 03-JAN-16
BAKHSHI NITIN (27866), w.e.f 03-JAN-16
VEETIL PRASAD KALYAT THAZATHU (27867), w.e.f 03-JAN-16
ANAND BALJEET SINGH (27868), w.e.f 03-JAN-16
NADKARNI VIHANG PRAMOD (27871), w.e.f 03-JAN-16
GADHIRAJU KISHORE RAJU (27872), w.e.f 03-JAN-16
PARAMESHWARAN SUDHEER (27873), w.e.f 03-JAN-16
BALANI MANISH (27875), w.e.f 03-JAN-16
PRAMANIK PRASENJIT (27876), w.e.f 03-JAN-16
MATHPAL GIRISH CHANDRA (27877), w.e.f 03-JAN-16
GUPTA MEHUL (27878), w.e.f 03-JAN-16
RASTOGI MANISH (27880), w.e.f 03-JAN-16
JACOB ABRAHAM (27881), w.e.f 03-JAN-16
CHANDRU M (27882), w.e.f 03-JAN-16
SINGH AMARDEEP (27883), w.e.f 03-JAN-16
ANAND ROHIT (27884), w.e.f 03-JAN-16
RADHAKRISHNAN RAVINDRANATH SENTHIL KUMAR
(27885), w.e.f 03-JAN-16
KARAN ASHISH (27886), w.e.f 03-JAN-16
GOPAL MANU (27887), w.e.f 03-JAN-16
SHARMA SUMIT (27888), w.e.f 03-JAN-16
PRABHU DEEPAK KRISHNANANDA (27889), w.e.f 03-JAN-16
DWIVEDI GAURAV (27890), w.e.f 03-JAN-16
VERMA NISHANT (27891), w.e.f 03-JAN-16

MAITRA ANIRBAN (27892), w.e.f 03-JAN-16
GANESH KANNAN KANNAN (27893), w.e.f 03-JAN-16
MATHEW D'MELLO FRANCIS (27894), w.e.f 03-JAN-16
LAXMAYYA UPADRASTA VIDYASAGAR (27895), w.e.f 03-JAN-16
RAJ YASHAVANTH R (27896), w.e.f 03-JAN-16
SINGH ARUN (27897), w.e.f 03-JAN-16
DHANASEKAR M (27898), w.e.f 03-JAN-16
KAISTHA MUKUL (27899), w.e.f 03-JAN-16
REHMAN ABDUL (27900), w.e.f 03-JAN-16
SRIKANT PA (27901), w.e.f 03-JAN-16
DAHIYA MANISH (27902), w.e.f 03-JAN-16
SADASIVAN SACHIN (27903), w.e.f 03-JAN-16
TIWARI ASHISH (27904), w.e.f 03-JAN-16
BAATH TEJINDER SINGH (27905), w.e.f 03-JAN-16
ARUNPRASAD T (27906), w.e.f 03-JAN-16
JADHAV ARJUN (27907), w.e.f 03-JAN-16
VINCENT VITS SUSAN (27908), w.e.f 03-JAN-16
BHATTACHARYA DIPTIMAN MUKHI (27910), w.e.f 03-JAN-16
KARANDIKAR GAURAV RAMKRISHNA (27911), w.e.f 03-JAN-16
NANOO SUDHAKARAN PILLAI (28302), w.e.f 03-JAN-16
DHARM VIR (27912), w.e.f 03-JAN-16
JUVANSINH CHUDASAMA NARENDRASINH (27913), w.e.f 03-JAN-16
KALRA SAURABH (27914), w.e.f 03-JAN-16
NARAYANAN Y ANANTHA (27614), w.e.f 03-JAN-16
RAGHAVACHARYA PERUSOMALA (27629), w.e.f 03-JAN-16

ADM BRANCH

MEHER BINAYA BHUSAN (27263), w.e.f 21-DEC-15
RAKESH KUMAR (27258), w.e.f 21-DEC-15
PILLAI VASANTH KUMAR S (27265), w.e.f 21-DEC-15
ARORA NITIN (27264), w.e.f 21-DEC-15
REDDY VIDYA SAGAR M (27255), w.e.f 21-DEC-15
RAJESH KUMAR MS (27254), w.e.f 21-DEC-15
DAGA PRANAYA (27249), w.e.f 21-DEC-15
PALAVALLI VAMSEE KRISHNA (27242), w.e.f 21-DEC-15
SHARMA MANISH (27261), w.e.f 21-DEC-15
AHMED SHUAIB (27260), w.e.f 21-DEC-15
SINGH MANOJ KUMAR (27244), w.e.f 21-DEC-15
MISHRA BRAHMANANDA (27251), w.e.f 21-DEC-15
MANOJ KUMAR (27262), w.e.f 21-DEC-15
JOHNSON JIMMY (27245), w.e.f 21-DEC-15
CHOUDHARY RAMAN KUMAR (27250), w.e.f 21-DEC-15
BABU ASHOK R (27243), w.e.f 21-DEC-15

CHATURVEDI AKSHAT (27246), w.e.f 21-DEC-15
KUMAR GANESH S (27247), w.e.f 21-DEC-15
TANEJA VIKAS (27248), w.e.f 21-DEC-15
RAO CHITTI REDDY MOHAN (27252), w.e.f 21-DEC-15
KUMAR MANOJ (27253), w.e.f 21-DEC-15
MAYURAN M (27256), w.e.f 21-DEC-15
SINGH VIKAS (27257), w.e.f 21-DEC-15
GUPTA NEERAJ (27259), w.e.f 21-DEC-15

LGS BRANCH

GANAPATI D (27267), w.e.f 21-DEC-15
CHAUDHARY DEEPAK (27266), w.e.f 21-DEC-15
VIJAY KUMAR (27269), w.e.f 21-DEC-15
TULA RAM (27274), w.e.f 21-DEC-15
THAKUR VIKRAM (27275), w.e.f 21-DEC-15
SHARMA AJAY KUMAR (27268), w.e.f 21-DEC-15
KALAAN SHAKTI SINGH (27276), w.e.f 21-DEC-15
MOHINDRU RISHI RAJ (27270), w.e.f 21-DEC-15
TIWARI DINESH KUMAR (27273), w.e.f 21-DEC-15
ADARSH ABHISHEK (27271), w.e.f 21-DEC-15
YADAV SAMRAT (27272), w.e.f 21-DEC-15

ADM BRANCH

GHUMAN PRABHJOT KAUR (27283), w.e.f 21-DEC-15
DHASMANA DAXINA BHARATI (27281), w.e.f 21-DEC-15
THAKUR NEETA (27285), w.e.f 21-DEC-15
PILLAI ROOPA P (27282), w.e.f 21-DEC-15
DHAWADE ASMITA PURUSHOTTAM (27287), w.e.f 21-DEC-15
NEHRA DIPIKA (27284), w.e.f 21-DEC-15

LGS BRANCH

MEENAKSHI (27291), w.e.f 21-DEC-15
KHARE RUCHI (27294), w.e.f 21-DEC-15
BHADOARIA AARTI (27293), w.e.f 21-DEC-15
THOMAS GINCY (27292), w.e.f 21-DEC-15
SAXENA VARSHA (27290), w.e.f 21-DEC-15

F(N) BRANCH

MISHRA ASHISH (27231), w.e.f 21-DEC-15
JOSHI VIPUL (27234), w.e.f 21-DEC-15
ROUT SARADA PRASSANA (27235), w.e.f 21-DEC-15
SHARMA MANAN (27236), w.e.f 21-DEC-15
ROY RUPAK (27237), w.e.f 21-DEC-15
KAKUNJE SHIVA KUMAR (27233), w.e.f 21-DEC-15
SANGWAN ROHIT (27239), w.e.f 21-DEC-15

ADM BRANCH

SINGH VISHAL (27240), w.e.f 21-DEC-15

NANDY TANMOY (27238), w.e.f 21-DEC-15

AE(M) BRANCH

DABHI BHIKHAJI RAMAJI (27299), w.e.f 17-JAN-16

PANDEY ARUN KUMAR (27300), w.e.f 17-JAN-16

NARESH KUMAR (27298), w.e.f 17-JAN-16

AE(L) BRANCH

GHOSH AJIT KUMAR (27301), w.e.f 17-JAN-16

F(P) BRANCH

PRANAV RAJ (27193), w.e.f 21-DEC-15

BHATIA VARUN (27196), w.e.f 21-DEC-15

SAGAR SHAKTI (27222), w.e.f 21-DEC-15

RAWAT NITIN (27199), w.e.f 21-DEC-15

HALDEKAR PALLAV (27200), w.e.f 21-DEC-15

SANGWAN AMIT (27201), w.e.f 21-DEC-15

TAMTA AMIT RAI (27202), w.e.f 21-DEC-15

RANA SATYENDER SINGH (27206), w.e.f 21-DEC-15

REDDY GOVINDU DINESH KUMAR (27211), w.e.f 21-DEC-15

GULIA MANISH (27213), w.e.f 21-DEC-15

MARATHE SHAILENDRA SURENDRA (27230), w.e.f 21-DEC-15

KHAN SAIFUL ISLAM (27215), w.e.f 21-DEC-15

KATOCH ROHIT (27218), w.e.f 21-DEC-15

NEERAJ KUMAR (27220), w.e.f 21-DEC-15

SATISH BHOPI SAMEET (27221), w.e.f 21-DEC-15

KUMAR ADEESH PREM (27229), w.e.f 21-DEC-15

AGARWAL RAJESH (27197), w.e.f 21-DEC-15

HOODA MANDEEP (27204), w.e.f 21-DEC-15

KANDALKAR YOGESHWAR K (27207), w.e.f 21-DEC-15

JOHRI YATHARTHA (27210), w.e.f 21-DEC-15

DIXIT NEELESH (27216), w.e.f 21-DEC-15

LALL SAIDEEP (27224), w.e.f 21-DEC-15

VINAYAK AGASHE ANAND (27228), w.e.f 21-DEC-15

DHANKHAR ASHISH (27194), w.e.f 21-DEC-15

KRISHNAKANTH P (27195), w.e.f 21-DEC-15

ARORA CHITWAN (27198), w.e.f 21-DEC-15

SANGWAN AMIT (27201), w.e.f 21-DEC-15

AWASTHI GAURAV (27203), w.e.f 21-DEC-15

AZAM ALLY (27205), w.e.f 21-DEC-15

DHANANJAY JAGTAP RAHUL (27212), w.e.f 21-DEC-15

BHATNAGAR GAURAV (27214), w.e.f 21-DEC-15

DASH BIKASH KUMAR (27217), w.e.f 21-DEC-15

KULKARNI AMIT HARIBHAU (27219), w.e.f 21-DEC-15

ADM BRANCH

PUNIA RAJESH (27208), w.e.f 21-DEC-15

CHAVALA SANDEEP D (27223), w.e.f 21-DEC-15

FLT LT TO BE SUBSTANTIVE SQN LDR

F(P) BRANCH

MAHAJAN KARAN (30763), w.e.f 24-DEC-15

MUDGEL PANKAJ (30765), w.e.f 24-DEC-15

CHAUDHARY MANVENDRA KUMAR (30754), w.e.f 24-DEC-15

PATHANIA PRASHANT SINGH (30755), w.e.f 24-DEC-15

ARYAN YASH (30756), w.e.f 24-DEC-15

MAHALANOBIS ROOP (30757), w.e.f 24-DEC-15

POWAR SANDIP KRISHNAJI (30761), w.e.f 24-DEC-15

MAHTO ROSHAN (30751), w.e.f 24-DEC-15

SAINI GAGAN JIT SINGH (30752), w.e.f 24-DEC-15

DESALE TANMAY DILIP (30766), w.e.f 24-DEC-15

KUMAR MANOJ (30776), w.e.f 24-DEC-15

KUMAR ABHISHEK (30777), w.e.f 24-DEC-15

SHARMA PAWAN (30780), w.e.f 24-DEC-15

ANOOP SL (30787), w.e.f 24-DEC-15

SAXENA ANKUR (30716), w.e.f 24-DEC-15

SHARMA NITIN (30737), w.e.f 24-DEC-15

KHATRI AMIT (30739), w.e.f 24-DEC-15

SINGH HARJASLEEN (30741), w.e.f 24-DEC-15

SYAL NAMANSH (30742), w.e.f 24-DEC-15

CHENGAPPA THIMMAYA MANDAPANDA (30743), w.e.f 24-DEC-15

KUMAR RAJESH (30745), w.e.f 24-DEC-15

PRASAD DEEPAK (30746), w.e.f 24-DEC-15

SHEKHAR RAVI (30750), w.e.f 24-DEC-15

GOPIKRISHNAN P (30719), w.e.f 24-DEC-15

VALIYAVEETIL SUDHEEP (30721), w.e.f 24-DEC-15

DESWAL RAJESH (30722), w.e.f 24-DEC-15

SINGH ABHIMANYU (30725), w.e.f 24-DEC-15

SINGH JASPAL (30730), w.e.f 24-DEC-15

GHEMUD SANKALP SHIVAJI (30732), w.e.f 24-DEC-15

SQN LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR

ADM BRANCH

SATYENDRA KUMAR CHAUHAN (25193), w.e.f 02-APR-2012

SUNDERESAN IYER (25197), w.e.f 02-APR-2012

TAPESH CHAUDHARY (25206), w.e.f 02-APR-2012

SREENIVAS PRASAD GIDDA (25207), w.e.f 02-APR-2012

M DURAI RAJ (25208), w.e.f 02-APR-2012

ANISH KUMAR NAIR (25210), w.e.f 02-APR-2012

ANIL KUMAR MALIK (25211), w.e.f 02-APR-2012

P PRAJESH (25212), w.e.f 02-APR-2012

N MANJUNATH (25221), w.e.f 02-APR-2012

ACHIN PILLAI (25223), w.e.f 02-APR-2012

GN SATISH (25226), w.e.f 12-APR-2012

SHANTANU (25228), w.e.f 12-APR-2012

ADM BRANCH

DEVI LAL (27308), w.e.f 17-JAN-16

SAXENA ANIL KUMAR (27302), w.e.f 17-JAN-16

SHUKLA RAKESH KUMAR (27304), w.e.f 17-JAN-16

ILAMURUGU PORCHELVAN M (27305), w.e.f 17-JAN-16

SHARMA SUSHIL KUMAR (27303), w.e.f 17-JAN-16

MAM CHAND (27306), w.e.f 17-JAN-16

YADRAM (27307), w.e.f 17-JAN-16

EDN BRANCH

VATS RAVINDER KUMAR (27309), w.e.f 17-JAN-16

FLT LT TO BE SUBSTANTIVE SQN LDR

F(P) BRANCH

SOOD SHIKHA (30853), w.e.f 24-DEC-15

DHAWALE NEHA (30857), w.e.f 24-DEC-15

RATHEE ANJALI (30856), w.e.f 24-DEC-15

PRAKRUTHI RAMESH (30854), w.e.f 24-DEC-15

SQN LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR

DINESH SABHARWAL(26899), w.e.f 18-MAR-15

ADM BRANCH

NAIR SUNIL JANARDHANAN (26752), w.e.f 15-DEC-14

JOSHI SURESH (26753), w.e.f 15-DEC-14

CHERIAN GIMMY (26754), w.e.f 15-DEC-14

ADHIKARI SUMAN (26755), w.e.f 15-DEC-14

AMBREASH (26756), w.e.f 15-DEC-14

MENON VIJAYKUMAR CN (26757), w.e.f 15-DEC-14

SALARIA VIJAY PRATAP SINGH (26758), w.e.f 15-DEC-14

SINGH AJIT (26759), w.e.f 15-DEC-14

GHOLBA NIRANJAN DILIP (26760), w.e.f 15-DEC-14

RUDRASHANKER BALIAR SINGH (26761), w.e.f 15-DEC-14

ANTONY LIBEN (26762), w.e.f 15-DEC-14

SRIVASTAVA PRIYANG PRAKASH (26763), w.e.f 15-DEC-14

SUBBAIAH TP (26764), w.e.f 15-DEC-14

SHARMA RITESH (26766), w.e.f 15-DEC-14

YADAV AJAY KUMAR (26767), w.e.f 15-DEC-14

LGS BRANCH

PANDEY MANOJ KUMAR (26769), w.e.f 15-DEC-14
SINGH VIRENDER (26770), w.e.f 15-DEC-14
RAI SANJAY KUMAR (26771), w.e.f 15-DEC-14
MADHVAN MURALI (26772), w.e.f 15-DEC-14
VINOD KUMAR B (26774), w.e.f 15-DEC-14
KISHORE LAXMANA A (26775), w.e.f 15-DEC-14
RANA MOHAN (26776), w.e.f 15-DEC-14
GURUPRASAD BR (26777), w.e.f 15-DEC-14

FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

F(P)BRANCH

GINNI CHAUDHARY(32216), w.e.f 29-DEC-13
NAZIA MODIN NADAF (32214), w.e.f 29-DEC-13
NISHA NAIN (32215), w.e.f 29-DEC-13

WG CDR TO BE SUBSTANTIVE GP CAPT(TS)

F(P) BRANCH

CHOPRA PANKAJ (21555), w.e.f 14-DEC-17
DANDDAPANY SENDHIL KUMAR (21539), w.e.f 14-DEC-17
SHRAMA ASHOK KUMAR (21566), w.e.f 14-DEC-17
SINGH SHIV RAM (21570), w.e.f 14-DEC-17
SINGH JITENDER (21522), w.e.f 14-DEC-17
CHEEMA G S (21577), w.e.f 14-DEC-17
CHHABRA SANDEEP SINGH (21512), w.e.f 14-DEC-17
KALIA SANJIT SINGH (21552), w.e.f 14-DEC-17
ANAND RAO TH (21560), w.e.f 14-DEC-17
MARCIHO YASHWANT (21571), w.e.f 14-DEC-17

ADM BRANCH

RAO EGA PRASAD (21618), w.e.f 14-DEC-17
VELAYUDHAN SUNIL (21610), w.e.f 14-DEC-17
CHATTERJEE PINAKI (21625), w.e.f 14-DEC-17
SATDEV MANOJ KUMAR (21621), w.e.f 14-DEC-17
PHILIP SURESH (21611), w.e.f 14-DEC-17
AGARWAL ANIL (21606), w.e.f 14-DEC-17
SHARMA RAJINDER KUMAR (21623), w.e.f 14-DEC-17
TAMANG ROHIT CHANDRA (21612), w.e.f 14-DEC-17
SINGH JAGWINDER JEET (21620), w.e.f 14-DEC-17
TANGRI SM (21622), w.e.f 14-DEC-17
SHARMA RAJESH (21607), w.e.f 14-DEC-17
CHOUDHARY ABHIJIT (21617), w.e.f 14-DEC-17
KAPOOR AVINASH (21615), w.e.f 14-DEC-17
TRIPATHI RAKESH (21619), w.e.f 14-DEC-17

LGS BRANCH

REDDY VANGA KRISHNAKANTH (21640), w.e.f 14-DEC-17
SRIVASTAVA ALOK (21641), w.e.f 14-DEC-17
PRADEEP HUGH MASCARENHAS (21648), w.e.f 14-DEC-17
SANJIV KUMAR (21645), w.e.f 14-DEC-17
WIDHANI VIVEK (21632), w.e.f 14-DEC-17
MENEZES AQUENAS PAUL (21644), w.e.f 14-DEC-17
BHASKARAN PUTHUMANGALATH PURUSHOTHAMAN (21638), w.e.f 14-DEC-17
SHENOY PRABHAKAR PREMANAND (21636), w.e.f 14-DEC-17
TYAGI AJAY KUMAR (21629), w.e.f 14-DEC-17
CHANDRASEKHAR M S S (21646), w.e.f 14-DEC-17
SHANKER RAJAT (21647), w.e.f 14-DEC-17
SINGH HARPREET (21634), w.e.f 14-DEC-17

WG CDR TO BE SUBSTANTIVE GP CAPT(TS)

ACCTS BRANCH

NAIR RAKESH KUMAR (21650), w.e.f 14-DEC-17
JOSHI AVNISH (21654), w.e.f 14-DEC-17
SANJAY KUNDU (21657), w.e.f 14-DEC-17

F(N) BRANCH

NADKARNI YATIN MOHAN (21593), w.e.f 14-DEC-17
AHLUWALIA DEEPAK (21602), w.e.f 14-DEC-17
PRASAD SANKARA NEELAKANDA (21588), w.e.f 14-DEC-17
JAIN VIPIN KUMAR (21598), w.e.f 14-DEC-17
JHA AJIT KUMAR (21600), w.e.f 14-DEC-17
PAUL SHYAMAL KUMAR (21586), w.e.f 14-DEC-17
PRAVEEN N P (21590), w.e.f 14-DEC-17
PANWAR RAJEEV (21592), w.e.f 14-DEC-17
RAVI KIRAN (21589), w.e.f 14-DEC-17
SINGH SANJAY KUMAR (21597), w.e.f 14-DEC-17

ADM BRANCH

SANJEEV S (21595), w.e.f 14-DEC-17

AE(M) BRANCH

THOMAS K ABRAHAM (22370), w.e.f 04-APR-18
SAMEER PRABHASH KANWALKER (22361), w.e.f 04-APR-18
SUNIL KUMAR LALWANI (22360), w.e.f 04-APR-18
APPINI CHAKRADHARAM (22375), w.e.f 04-APR-18
RAYADURGA SHUDDALA NAGARAJ (22371), w.e.f 04-APR-18
MANOJ KUMAR SHARMA (22365), w.e.f 04-APR-18
G SATISH CHANDER (22364), w.e.f 04-APR-18
SINGAM SHETTY JAGADISH (22372), w.e.f 04-APR-18

AE(L) BRANCH

ATRE R JAGDISH (22399), w.e.f 04-APR-18
YADAV RAJESH KUMAR (22407), w.e.f 04-APR-18
RIYAZ P M (22059), w.e.f 04-APR-18
MISHRA SHREEKUMAR (22387), w.e.f 04-APR-18
KRISHNA MOHAN YELLAPADDI (22401), w.e.f 04-APR-18
BARADIA JITENDRA KUMAR N (22406), w.e.f 04-APR-18
VENKATESH K N (22414), w.e.f 04-APR-18
SAWHNEY ATUL (22419), w.e.f 04-APR-18
DHAGA SANDEEP (22383), w.e.f 04-APR-18
MISHRA SIBASANKAR (22385), w.e.f 04-APR-18
GUPTAN SASI (22395), w.e.f 04-APR-18
SRIVASTAVA RAJESH (22389), w.e.f 04-APR-18
PILLAI BIJU BHASKARAN (22393), w.e.f 04-APR-18
KALE VISHWAS SHANKAR (22388), w.e.f 04-APR-18
DANTALE HARISH C (22411), w.e.f 04-APR-18
DESHMUKH RAVI RAMRAO (22394), w.e.f 04-APR-18
JHA ABDESH KUMAR (22021), w.e.f 04-APR-18
KSHIRSAGAR NITIN NARAYAN (22408), w.e.f 04-APR-18
GOPARAJU RAMANA KUMAR (22403), w.e.f 04-APR-18
SINGH DHARAM PAL (22400), w.e.f 04-APR-18
MALIK JAVAID ANAYAT (22402), w.e.f 04-APR-18
SINGH BIRENDER (22397), w.e.f 04-APR-18
SURESH BABU KIZHAKKE VALAPPIL (22386), w.e.f 04-APR-18
SAHU RAJESH (22382), w.e.f 04-APR-18

AE(M) BRANCH

JAIKISH J (22427), w.e.f 04-APR-18

F(P) BRANCH

CHAUHAN ANIL (21721), w.e.f 08-FEB-18
SEHGAL LALIT (21723), w.e.f 08-FEB-18
GILL BHUPINDER SINGH (21253), w.e.f 15-JUN-17
JOSEPH DEEPAK (21277), w.e.f 15-JUN-17
KOCHHAR GURPREET SINGH (21278), w.e.f 15-JUN-17
SETHI AVINASH CHANDRA (21264), w.e.f 15-JUN-17
JEJI JAIDEEP SINGH (21281), w.e.f 15-JUN-17
GUPTA PANKAJ (21218), w.e.f 15-JUN-17
KUSHWAHA AVINASH (21260), w.e.f 15-JUN-17

ADM BRANCH

SHARMA BIMAL KUMAR (21324), w.e.f 15-JUN-17
CHANDAWAT RANVEER SINGH (21316), w.e.f 15-JUN-17

SINGH HITENDRA PAL (21307), w.e.f 15-JUN-17
NAREN G U (21345), w.e.f 15-JUN-17
DHAWAN SANJAY (21344), w.e.f 15-JUN-17
GUPTA RAJEEV (21331), w.e.f 15-JUN-17
NATH SUBROTO KUMAR (21315), w.e.f 15-JUN-17
JOSEPH WILSON (21311), w.e.f 15-JUN-17
KAMBUKAL JOSEPH JAMES (21332), w.e.f 15-JUN-17
KUMAR KKANDRAL RAJENDRA (21348), w.e.f 15-JUN-17
MISHRA NAVEEN (21338), w.e.f 15-JUN-17
NADAR HILLERY EDWARD (21334), w.e.f 15-JUN-17
PATHAK DEEPEESH (21330), w.e.f 15-JUN-17
NANDKUMAR IKKANDATH (21325), w.e.f 15-JUN-17
SINGH RAKESH (21341), w.e.f 15-JUN-17
SHARMA AKELLA RAVI NARSIMHA (21313), w.e.f 15-JUN-17
TRIPATHI VANCHHIT (21320), w.e.f 15-JUN-17
AHUJA VASUDEVA (21317), w.e.f 15-JUN-17
KUMAR SAMEESH (21308), w.e.f 15-JUN-17
AMRITE ATUL ARVIND (21322), w.e.f 15-JUN-17
MOHAN VARANASI KRISHNA (21319), w.e.f 15-JUN-17

LGS BRANCH

TRIPATHI ARUN (21357), w.e.f 15-JUN-17
AWASTHI MRIDUL (21362), w.e.f 15-JUN-17
RATTAN SHUBH (21354), w.e.f 15-JUN-17
MARWAHA PRADEEP (21351), w.e.f 15-JUN-17
TOMAR SATEEN (21356), w.e.f 15-JUN-17
BABU AMALAN R (21352), w.e.f 15-JUN-17
GOSAIN SANJEEV KUMAR SINGH (21358), w.e.f 15-JUN-17
CHANDRA ROHIT (21360), w.e.f 15-JUN-17
SHARMA DEEPAK (21363), w.e.f 15-JUN-17

EDN BRANCH

SRINIVAS EMANI (21377), w.e.f 15-JUN-17
NATARAJ THIRUMALISAMY (21369), w.e.f 15-JUN-17
CHAUHAN YAVRAJ SINGH (21374), w.e.f 15-JUN-17
BHATNAGAR RAVINDRA (21372), w.e.f 15-JUN-17
KUMAR ANAND (21370), w.e.f 15-JUN-17
KATIYAR AYUSH (21376), w.e.f 15-JUN-17
JAMES VALIATHALZHATHU THOMAS (21367), w.e.f 15-JUN-17
MOHAPATRA PRADIP KUMAR (21373), w.e.f 15-JUN-17

MET BRANCH

RAMARAO VENKATA KOTHA (20816), w.e.f 15-JUN-17
MISHRA SASANKA SEKHAR (20815), w.e.f 15-JUN-17

CHATURVEDI SAUMITRA (20814), w.e.f 15-JUN-17

MEHTA ANUPAM (20813), w.e.f 15-JUN-17

F(N) BRANCH

THOMAS SAJIMON (21288), w.e.f 15-JUN-17

KASHYAP ARUN PRASAD (21286), w.e.f 15-JUN-17

DHAMNE NITIN SHANTARAM (21291), w.e.f 15-JUN-17

CHAKRAVARTY DIPANKAR (21295), w.e.f 15-JUN-17

KULKARNI MAHESH KUMAR (21299), w.e.f 15-JUN-17

SWITTENS K A F (21298), w.e.f 15-JUN-17

MITRA DEVJIT (21289), w.e.f 15-JUN-17

AGGARWAL VIJAY KUMAR (21293), w.e.f 15-JUN-17

DIXIT SANJAY (21297), w.e.f 15-JUN-17

ATREYA PRASHANT (21300), w.e.f 15-JUN-17

AE(M) BRANCH

SREESH PRADEEP (22007), w.e.f 04-OCT-17

MALI VENU MADHAV REDDY (22097), w.e.f 04-OCT-17

CHOWDHARY DEEPAK RAI (22101), w.e.f 04-OCT-17

SINGH SUNIL KUMAR (22096), w.e.f 04-OCT-17

GOPAKUMAR RAVINDRAN NAIR (22012), w.e.f 04-OCT-17

CHACKO THOMAS (22008), w.e.f 04-OCT-17

CHRISTOPHER JULIAN (22010), w.e.f 04-OCT-17

SREEDHARAN VINOD (22102), w.e.f 04-OCT-17

KAVADE MURALIDHAR A (22016), w.e.f 04-OCT-17

SHINU G (22099), w.e.f 04-OCT-17

AE(L) BRANCH

JANI SAJAL N (22032), w.e.f 04-OCT-17

MUGESH RAJESWARAN (22027), w.e.f 04-OCT-17

BRAICH DALJIT SINGH (22052), w.e.f 04-OCT-17

SHUKLA AMOL ARUN (22065), w.e.f 04-OCT-17

BHARDWAJ VINAY (22022), w.e.f 04-OCT-17

GOAL KAMAL DEEP (22037), w.e.f 04-OCT-17

KOHLI ANIL (22051), w.e.f 04-OCT-17

MURUGANANDAM VENKATACHALAM (22062), w.e.f 04-OCT-17

PATEL SUNIL V (22043), w.e.f 04-OCT-17

BHARATH NARSIMMAN NAIDU (22029), w.e.f 04-OCT-18

GANESH JAI (22095), w.e.f 04-OCT-17

PARANJPE NEERAJ VINAYKUMAR (22094), w.e.f 04-OCT-17

K ELANCHEZHIAN
Wg Cdr
JDPO-3(D)

No. 12, dated 18th December 2018—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

LT COLS TO BE SUBSTANTIVE COL (BY TIME SCALE)

IC Number	Rank	Name	Arm	Subs Date
IC-46876X	Lt Col	PJ Shrikhande	AOC	07 Nov 2017
IC-46904Y	Lt Col	Hari Prasad	INF	07 Nov 2017
IC-46917W	Lt Col	RB Singh	ARTY	22 Apr 2018
IC-46927A	Lt Col	NR Bhide	ARTY	22 Apr 2018
IC-49783N	Lt Col	R Katoch	AC	09 Jun 2016
IC-50612N	Lt Col	RS Shekhawat	INF	08 Jun 2017
IC-50813M	Lt Col	KR Singh	EME	14 Dec 2017
IC-51024K	Lt Col	Vinay Bali	AOC	14 Dec 2017
IC-52683N	Lt Col	A Daniel	ENGRS	15 Dec 2017
V-00467L	Lt Col	KB Mrutyunjaya	RVC	20 Jan 2017

LT COLS TO BE SUBSTANTIVE COL (BY TIME SCALE)

IC Number	Rank	Name	Arm	Subs Date
IC-46956P	Lt Col	P Hardas	AC	22 Apr 2018
IC-51044A	Lt Col	S Pal	EME	14 Dec 2017
IC-51048W	Lt Col	OSC SG	GUARDS MECH	14 Dec 2017
IC-51141X	Lt Col	Ajay Bhushan	EME	13 Jun 2018
IC-51215F	Lt Col	Satish Kumar	ARTY	13 Jun 2018
IC-51262Y	Lt Col	Sanjay Kumar	ARMY AVN	13 Jun 2018
IC-51304A	Lt Col	Sanjeev Singh	INF	13 Jun 2018
IC-51320X	Lt Col	Virender Singh	INF	13 Jun 2018
IC-51322H	Lt Col	M Rauthan	INF	13 Jun 2018
IC-51351X	Lt Col	MP Vijayan	INF	13 Jun 2018
IC-51352A	Lt Col	A Pandey	ASC	13 Jun 2018
IC-51353H	Lt Col	Vijay Singh	INF	13 Jun 2018
IC-51354L	Lt Col	TH Luwangcha	INF	13 Jun 2018
IC-51357Y	Lt Col	Ajay Uniyal	INF	13 Jun 2018
IC-51380M	Lt Col	AK Pathak	EME	13 Jun 2018
IC-51381P	Lt Col	Amrender Jit Singh	AAD	13 Jun 2018
IC-51384H	Lt Col	KR Krishna	INF	13 Jun 2018
IC-51419N	Lt Col	SS Thakur	AEC	13 Jun 2018
IC-53087N	Lt Col	Hemant Kumar Dave	ENGRS	14 Jun 2018
IC-53098A	Lt Col	SK Nayak	EME	14 Jun 2018
IC-50871W	Lt Col	N Abrol	ARTY	14 Dec 2017
IC-50898N	Lt Col	Avtar Singh	INF	14 Dec 2017
IC-50977H	Lt Col	MV Joshi	INF	14 Dec 2017
IC-50978L	Lt Col	Munish Pabbi	INF	14 Dec 2017
IC51079W	Lt Col	SH Ranade	SIGS	14 Dec 2017
IC-51171P	Lt Col	IP Mishra	AOC	13 Jun 2018
IC-51172X	Lt Col	B Prasad	INF	13 Jun 2018

IC-51208L	Lt Col	S Jaggi	ASC	13 Jun 2018
IC-51256L	Lt Col	Jaiveer Singh	ASC	13 Jun 2018
IC-51259Y	Lt Col	IS Mann	ASC	13 Jun 2018
IC-51293Y	Lt Col	Sandeep Sharma	EME	13 Jun 2018
IC-51296M	Lt Col	S Tallapaneni	INF	13 Jun 2018
IC-51303X	Lt Col	Sumit Pant	INF	13 Jun 2018
IC-51312Y	Lt Col	UK Rao	ASC	13 Jun 2018
IC-51329M	Lt Col	SK Singh	EME	13 Jun 2018
IC-51332M	Lt Col	Gautam Das	AAD	13 Jun 2018
IC-51335A	Lt Col	D Mishra	ARTY	13 Jun 2018
IC-51342W	Lt Col	DPS Yadav	INF	13 Jun 2018
IC-51360Y	Lt Col	B Prashar	ASC	13 Jun 2018
IC-51363M	Lt Col	R Goyal	AOC	13 Jun 2018
IC-51394M	Lt Col	RK Sadana	INF	13 Jun 2018
IC-51417H	Lt Col	DS Rathore	MF	13 Jun 2018
IC-52326L	Lt Col	SK Singhal	ENGRS	12 Jun 2017
IC-53067A	Lt Col	S Sharma	EME	14 Jun 2018
IC-53085H	Lt Col	S Vohra	SIGS	14 Jun 2018
IC-53095M	Lt Col	JP Singh	ENGRS	14 Jun 2018
IC-53112F	Lt Col	NK Chaturvedi	ENGRS	14 Jun 2018
IC-55063H	Lt Col	Shashi Kumar	ENGRS	19 Apr 2018
IC-46937K	Lt Col	PA Newton	INF	22 Apr 2018
IC-50735A	Lt Col	AK Vashisht	AOC	14 Dec 2017
IC-50904W	Lt Col	V Sardana	SIGS	14 Dec 2017
IC-51147Y	Lt Col	AK Yadav	AOC	13 Jun 2018
IC-51232F	Lt Col	A Kumar	INF	13 Jun 2018
IC-51235P	Lt Col	SS Chandel	GUARDS MECH	13 Jun 2018
IC-51258W	Lt Col	PS Jouhal	INF	13 Jun 2018
IC-51298X	Lt Col	Pramod Singh	ARTY	13 Jun 2018
IC-51331K	Lt Col	APS Sandhu	ASC	13 Jun 2018
IC-51392F	Lt Col	DS Parmar	ARTY	13 Jun 2018
IC-53079P	Lt Col	Ajay Dhawan	EME	14 Jun 2018
IC-53084A	Lt Col	MM Swamy	ENGRS	14 Jun 2018
IC-53088W	Lt Col	A Dutt	EME	14 Jun 2018
IC-51076H	Lt Col	SK Singh	ASC	14 Dec 2017
IC-51189L	Lt Col	P Sabharwal	ARMY AVN	13 Jun 2018
IC-51214Y	Lt Col	AK Ahuja	INF	13 Jun 2018
IC-51330F	Lt Col	RD Singh	MECH INF	13 Jun 2018
IC-51387W	Lt Col	BS Gahlawat	INF	13 Jun 2018
IC-53092Y	Lt Col	Manoj Kumar AV	EME	14 Jun 2018
IC-46563Y	Lt Col	PK Singh	INF	24 Apr 2017
IC-46720A	Lt Col	P Sangwan	INF	23 Apr 2017
IC-47744W	Lt Col	G Chaturvedi	MECH INF	11 Jun 2014
IC-50736H	Lt Col	S Dhaliwal	INF	14 Dec 2017
IC-51374Y	Lt Col	MS Thosar	SIGS	13 Jun 2018

PERMANENT COMMISSION
MAJOR TO BE SUBSTANTIVE LT COL (BY SELECTION)

Ps No	Name	Arm	Subs Date
IC-33466 Nov	Harjit Singh	Inf	30 Nov 1993

NAVIN KUMAR
Dy Dir
MS-8 A

ARMY BRANCH

No. 13, dated 19th December 2018—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

(INTELLIGENCE CORPS)

TO BE NB SUB INT (GD)

S/No Rank and Name Old Army No New JC No Dt of Promotion

HAV INT GD JACK PILLAR M SANGMA 7431297H JC812468F, 25 JAN 2018/ 01 JAN 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Jan 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD VINOD KUMAR G 15473368L JC812469K 01 JAN 2018

HAV INT GD BHUPEN HATIMATA 14640874K JC812470Y 01 JAN 2018

HAV INT GD PARMINDER SINGH 3400235H JC812471F 01 JAN 2018

HAV INT GD RAGESH VT 14640878A JC812472K 01 JAN 2018

HAV INT GD MELAWANE SACHIN SHRIRANG 14640879H JC812473M 01 JAN 2018

HAV INT GD AJAY KUMAR 3998929Y JC812474P 01 JAN 2018

HAV INT GD ROOP LAL 13762934M JC812475X 01 JAN 2018

HAV INT GD LABHA SINGH 14426572H JC812476A 01 JAN 2018

HAV INT GD WIKENDER SINGH 7431298L JC812477H, 13 FEB 2018/01 JAN 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Jan 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD SHANAWAZ AHMAD KHANDY 7431301A JC812478L 01 JAN 2018

HAV INT GD SHEESH RAM YADAV 4192756L JC812479N, 23 JAN 2018/01 JAN 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Jan 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD MOHMAD RAFIQ KHAN 7431302H JC812480H 01 JAN 2018

HAV INT GD RANVEER SINGH 2894813A JC812481L 01 JAN 2018

HAV INT GD PRADEEP KUMAR 2490986M JC812482N 01 JAN 2018

HAV INT GD DINESH SHARMA 3998993W JC812483W 01 JAN 2018

HAV INT GD G PRASHANTH KUMAR 15137036X JC812484Y 01 JAN 2018

HAV INT GD SHER SINGH 2491045L JC812485F 01 JAN 2018

HAV INT GD KULDEEP SINGH 3999039L JC812486K 01 JAN 2018

HAV INT GD ASHWANI KUMAR 3999046F JC812487M 01 JAN 2018

HAV INT GD RAVINDER RANA 2491123X JC812488P 01 JAN 2018

HAV INT GD ANIL KUMAR TIWARI 13698996H JC812489X 01 JAN 2018

HAV INT GD MANJEET PATHANIA 2491199X JC812490M 01 JAN 2018

HAV INT GD M JAYA KUMAR 14640955K JC812491P 01 JAN 2018

HAV INT GD TAPAS KUMAR JANA 15611049A JC812492X, 02 FEB 2018/ 01 JAN 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Jan 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD MOHINDER SINGH 13760099X JC812494H, 14 FEB 2018/ 01 MAR 2017*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Mar 2017 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD RAUT VASANT SHANKAR RAO 14639898F JC812495L, 13 FEB 2018/ 01 JUN 2017*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Jun 2017 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD SARAVANA BAVAN S 14640958X JC812496N 01 FEB 2018

HAV INT GD SANDEEP KUMAR 2894999P JC812497W 01 FEB 2018

HAV INT GD BALAMURUGAN P 14640960P JC812498Y 01 FEB 2018

HAV INT GD CHANDRA NATH PAL 15137224Y JC812499F 01 FEB 2018

HAV INT GD JAVID AHMAD FOMDA 7431304N JC812500L 01 FEB 2018

HAV INT GD SREE KUMAR S 15319036Y JC812501N 01 FEB 2018

HAV INT GD RAJESH P 14640942M JC812571M, 18 APR 2018/ 01 FEB 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Feb 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD ASHOK KUMAR 9103535F JC812502W 01 FEB 2018

HAV INT GD TRYAMBAKESHWAR 14641046L JC812503Y 01 FEB 2018

HAV INT GD NAVNEET KUMAR MISHRA 14925409Y JC812504F 01 FEB 2018

HAV INT GD SIVA KUMAR K 14427081Y JC812505K 01 FEB 2018

HAV INT GD KARAN BIR SINGH 3400351L JC812506M 01 FEB 2018

HAV INT GD SUKHJINDER SINGH 3400473P JC812507P 01 FEB 2018

HAV INT GD NIRMAL SINGH 15561866A JC812508X 01 FEB 2018

HAV INT GD MIRGAL SHARAD SHANTARAM 2796334H JC812509A 01 FEB 2018

HAV INT GD UMESH CHANDRA JOSHI 14925444F JC812510P 01 FEB 2018

HAV INT GD SANTOSH KUMAR YADAV 15475832H JC812511X 01 FEB 2018

HAV INT GD VINOD KUMAR 15475839M JC812512A 01 FEB 2018

HAV INT GD KAMAL KISHORE 2693028N JC812513H 01 FEB 2018

HAV INT GD KISHAN LAL YADAV 4192939F JC812514L 01 FEB 2018

HAV INT GD PULIN BIHARI JENA 15611143K JC812515N 01 FEB 2018

HAV INT GD MITU CHANDRA NATH 7431291F JC812516W, 13 FEB 2018/ 01 FEB 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Feb 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD MANIVANAN K 14640887F JC812517Y 01 FEB 2018

HAV INT GD VINOD 15475392A JC812518F, 26 FEB 2018/ 01 FEB 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Feb 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD SURINDER PAL 4477164H JC812519K 01 MAR 2018

HAV INT GD RABINDER SINGH 3400394A JC812520Y 01 MAR 2018

HAV INT GD SHAILENDRA KUMAR 15475794X JC812521F 01 MAR 2018

HAV INT GD SWAPAN KUMAR NATH 7431314X JC812522K 01 MAR 2018

HAV INT GD OM PRAKASH VISHNOI 14925524Y JC812523M 01 MAR 2018

HAV INT GD KADAM RAMESH HINDURAO 2796500L JC812524P 01 MAR 2018

HAV INT GD SEVA SINGH 15137867W JC812525X 01 MAR 2018

HAV INT GD GANGA SINGH RAWAT 4081196P JC812526A 01 MAR 2018

HAV INT GD SHITENDRA MAWLONG 7431316H JC812527H 01 MAR 2018

HAV INT GD TANWADE SOMNATH MADHAV 2796564W JC812528L 01 MAR 2018

HAV INT GD SUNEEL KUMAR 4193121Y JC812529N 01 MAR 2018

HAV INT GD VIJAY KUMAR 14427707L JC812530H 01 MAR 2018

HAV INT GD PUSHPENDRA SINGH RAJPUT 14427713Y JC812531L 01 MAR 2018

HAV INT GD PRAHLAD SINGH 15611361H JC812532N 01 MAR 2018

HAV INT GD TARUN PAUL 14925788A JC812533W 01 MAR 2018

HAV INT GD BALJEET SINGH 2491661L JC812539X, 02 APR 2018/ 01 APR 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Apr 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD BALTEJ SINGH 2491672X JC812540M 01 APR 2018

HAV INT GD PANKAJ KUMAR SINGH 4277774L JC812541P 01 APR 2018

HAV INT GD PUSHKAR THAKUR 15476963A JC812542X 01 APR 2018

HAV INT GD KHEKUTO I SUMI 4367815L JC812543A, 02 APR 2018/ 01 APR 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Apr 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD RAJESH KUMAR 15477205P JC812544H 01 APR 2018

HAV INT GD DHIRENDER SINGH KARASSI 4081284L JC812545L 01 APR 2018

HAV INT GD UMED SINGH 4081290Y JC812546N 01 APR 2018

HAV INT GD HARI SINGH JATAV 14428188A JC812547W, 04 APR 2018/01 APR 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Apr 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD KAMLESH KUMAR RAJAK 15138489P JC812548Y 01 APR 2018

HAV INT GD RINKU KARMAKAR 14640954F JC812549F 01 APR 2018

HAV INT GD VIKASH RANJAN 14925799M JC812550W 01 APR 2018

HAV INT GD JASWINDER SINGH 3400974P JC812551Y 01 APR 2018

HAV INT GD KULDEEP SINGH 13762978K JC812552F 01 APR 2018

HAV INT GD BACHE SINGH 4193016H JC812553K 01 APR 2018

HAV INT GD KRAPENDRA SINGH 4193160X JC812554M 01 APR 2018

HAV INT GD JITENDER KUMAR 15562158A JC812555P 01 APR 2018

HAV INT GD JATINDER SINGH 3400985F JC812556X, 25 APR 2018/ 01 APR 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Apr 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD MANOJ KUMAR 4081346A JC812557A, 02 APR 2018/ 01 APR 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Apr 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD BALJINDER SINGH 2491198P JC812558H 01 APR 2018

HAV INT GD SANJAY KUMAR 13763293X JC812559L 01 APR 2018

HAV INT GD JAYANTA DUTTA 14640951N JC812560A 01 APR 2018

HAV INT GD SANDEEP SINGH PAWAR 3192394Y JC812561H, 02 APR 2018/ 01 APR 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Apr 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD MAHENDER SINGH PARIHAR 4191695M JC812562L 01 APR 2018

HAV INT GD RAKESH CHAND 14641237A JC812563N 01 APR 2018

HAV INT GD DEEPAK KUMAR BHATT 4193215W JC812564W 01 APR 2018

HAV INT GD DWARIKA PRASAD PANDEY 14641254A JC812565Y 01 APR 2018

HAV INT GD RAJAN SINGH 4193247Y JC812566F, 02 APR 2018/ 01 APR 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Apr 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD SHRI KANTA DAS 7431303L JC812567K, 26 APR 2018/ 01 APR 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Apr 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD AJAYAN A 6941620M JC812572P, 19 MAY 2018/ 01 APR 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Apr 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD SATYAVEER SAHARN 15769383F JC812573X, 05 MAY 2018/ 01 APR 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Apr 2018 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD KAPIL TAMANG 9422994N JC812574A, 30 JUN 2018/01 MAY 2017*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 May 2017 without effect on pay and allowances)

HAV INT GD DHARAMPAL GURJAR 2994791F JC812575H 30 JUN 2018/01 JUN 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Jun 2018 without effect on pay and allowances)

TO BE NB SUB CLK (SD)

HAV CLK SD RAJ KUMAR 9422958H JC812467Y 01 JAN 2018

HAV CLK SD JAY PRAKASH MISHRA 4277427M JC812493A 01 FEB 2018

HAV CLK SD A MAYAZHAKAR 4277545A JC812534Y, 26 MAR 2018/01 MAR 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Mar 2018 without effect on pay and allowances)

HAV CLK SD ARUN KUMAR 4080114P JC812538P, 02 APR 2018/01 APR 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Apr 2018 without effect on pay and allowances)

HAV CLK SD BHOLA GHOSH 8033625M JC812568M 01 MAY 2018

HAV CLK SD SAMIR KUMAR BISWAS 4190856X JC812569P 01 MAY 2018

HAV CLK SD PRASANTA KUMAR MISHRA 15613121K JC812570K 01 MAY 2018

HAV CLK SD BHADAURIYA SANTOSH KUMAR13763233H JC812581W, 17 JUL 2018/01 JUN 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Jun 2018 without effect on pay and allowances)

TO BE NB SUB TCL

HAV TCL VIRENDRA SINGH 14838131M JC812535F 10 MAR 2018

HAV TCL YASH PAL SINGH 4193569Y JC812536K 10 MAR 2018

HAV TCL TAMBADE PRAVIN ATMARAM 15568179M JC812537M 10 MAR 2018

HAV TCL CHOUGULE MILIN BABAN 14848400F JC812576L, 30 JUN 2018/ 01 JUN 2018*

*(Granted seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Jun 2018 without effect on pay and allowances)

SUNIL KUMAR SHARMA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 14, dated 20th December 2018—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Nb Sub Vikram Singh Shekhawat	(2889722M now JC-472060Y)	15 Nov 2017/*01 Jul 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jul 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ajay Kumar	(2890872P now JC-472061F)	20 Dec 2017/*06 Jul 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06th Jul 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Majid Khan	(2889045A now JC-472062K)	20 Nov 2017/*03 Aug 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 3rd Aug 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Naresh Kumar	(2889742A now JC-472063M)	01 Dec 2017/*03 Aug 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 3rd Aug 2017 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Rajbeer Singh	(2892602Y now JC-472064P)	01 Jan 2018/*03 Aug 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 3rd Aug 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Gian Chand	(2892722X now JC-472065X)	01 Jan 2018/*07 Aug 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07th Aug 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vijay Pal	(2893420X now JC-472066A)	06 Nov 2017/*16 Aug 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16th Aug 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ravinder	(16019643P now JC-472067H)	09 Nov 2017/*21 Aug 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Aug 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ajit Singh	(2892264M now JC-472068L)	23 Oct 2017/*26 Aug 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26th Aug 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Raju Ram	(2892334A now JC-472069N)	20 Nov 2017/*28 Aug 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28th Aug 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Gordhan Singh Bhati	(2890106Y now JC-472070H)	03 Oct 2017/*01 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Anil Kumar	(2890401F now JC-472071L)	20 Sep 2017/*01 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shyam Singh	(2889720F now JC-472072N)	13 Nov 2017/*01 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Pappu Ram	(2890107F now JC-472073W)	20 Sep 2017/*01 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajesh Kumar	(2895515W now JC-472074Y)	01 Sep 2017
Nb Sub Shambu Singh	(2890976W now JC-472075F)	01 Sep 2017
Nb Sub Chob Singh	(2892714Y now JC-472076K)	01 Sep 2017
Nb Sub Azmal	(2889180N now JC-472077M)	25 Sep 2017/*01 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Devendra Kumar	(2890470X now JC-472078P)	23 Sep 2017/*01 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ram Kumar	(2892074A now JC-472079X)	11 Nov 2017/*01 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jai Singh	(2892927M now JC-472080M)	01 Sep 2017
Nb Sub Kali Charan	(2894111F now JC-472081P)	01 Sep 2017
Nb Sub Chandra Singh	(2892076L now JC-472082X)	12 Dec 2017/*02 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02nd Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Kapil Poonia	(2896476P now JC-472083A)	01 Jan 2018/*07 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07th Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajveer Singh Tomar	(2892352H now JC-472084H)	27 Nov 2017/*10 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10th Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Raj Kumar	(2889527P now JC-472085L)	21 Dec 2017/*17 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17th Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ram Khilona	(2891734A now JC-472086N)	25 Oct 2017/*18 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18th Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Indra Singh Rathore	(2890614P now JC-472087W)	27 Nov 2017/*18 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18th Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vijender	(2891774F now JC-472088Y)	21 Nov 2017/*19 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19th Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ramesh Kumar	(2890683L now JC-472089F)	26 Oct 2017/*20 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20th Sep 2017 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Poonam Singh Rajput	(2890721W now JC-472090W)	28 Dec 2017/*20 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20th Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ashok Singh Baghel	(2890148L now JC-472091Y)	21 Nov 2017/*24 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24th Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Satish Kumar Gupta	(2890377W now JC-472092F)	25 Oct 2017/*01 Oct 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Nahar Singh Tomar	(2891448Y now JC-472093K)	01 Oct 2017
Nb Sub Narendra Singh	(16011511M now JC-472094M)	01 Oct 2017
Nb Sub Ramesh Singh	(2890525W now JC-472095P)	13 Nov 2017/*01 Oct 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bijendra Singh	(2890848Y now JC-472096X)	13 Nov 2017/*01 Oct 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Naresh Singh	(2891309P now JC-472097A)	13 Nov 2017/*01 Oct 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ladu Singh	(2889798M now JC-472098H)	01 Dec 2017/*01 Oct 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vinod Kumar Singh	(2891049P now JC-472099L)	01 Oct 2017
Nb Sub Ved Pal	(2889788H now JC-472100P)	15 Dec 2017/*01 Oct 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajesh Kumar	(2889192H now JC-472101X)	18 Nov 2017/*01 Oct 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sandeep Kumar	(2891485M now JC-472102A)	20 Nov 2017/*01 Oct 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Arvind Singh	(2889873L now JC-472103H)	28 Nov 2017/*02 Oct 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02nd Oct 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Satyaveer Singh Naruka	(2891393A now JC-472104L)	01 Jan 2018/*02 Oct 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02nd Oct 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jaivir Singh	(2891684A now JC-472105N)	30 Oct 2017/*05 Oct 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05th Oct 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ramesh Singh Nirwan	(2890266Y now JC-472106W)	15 Jan 2018/*29 Oct 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29th Oct 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rishi Kesh	(2890755K now JC-472107Y)	26 Dec 2017/*30 Oct 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30th Oct 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Deepak Kumar Jakhmola	(2891574L now JC-472108F)	07 Dec 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Jay Singh Negi	(2891578F now JC-472109K)	07 Dec 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajesh	(2889357W now JC-472110Y)	20 Nov 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jagpal Singh	(2891719L now JC-472111F)	03 Nov 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahendra Singh Choudhary	(2890133H now JC-472112K)	18 Nov 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bag Singh Udawat	(2891407P now JC-472113M)	18 Nov 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Karn Singh	(2890248W now JC-472114P)	18 Nov 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajesh Kumar Punia	(2888471F now JC-472115X)	18 Nov 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Narendra Kumar	(2890327L now JC-472116A)	18 Nov 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jagmohan Singh	(2890257X now JC-472117H)	30 Nov 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vinod Singh Shekhawat	(2889734F now JC-472118L)	23 Nov 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Parvin Kumar	(2890999X now JC-472119N)	10 Nov 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Saty Pal	(2889545X now JC-472120H)	21 Dec 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ajai Pal Singh	(2889795Y now JC-472121L)	18 Nov 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Deva Ram	(2890918M now JC-472122N)	24 Nov 2017/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shiv Ram Singh Bhadauria	(2891944A now JC-472123W)	25 Jan 2018/*01 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vinod Kumar Payal	(2891540X now JC-472124Y)	27 Dec 2017/*02 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 2nd Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Virender Kumar	(2890613M now JC-472125F)	08 Dec 2017/*05 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05th Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Satendra Kumar Singh	(2890059M now JC-472126K)	16 Dec 2017/*09 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09th Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mukesh Kumar	(2891080F now JC-472127M)	22 Jan 2018/*30 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30th Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Barun Kumar Mandal	(2891613Y now JC-472128P)	15 Dec 2017/*01 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Suresh	(2891623H now JC-472129X)	08 Dec 2017/*01 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Jai Bhagwan Singh	(2891624L now JC-472130M)	12 Dec 2017/*01 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Manohar Singh	(2891790Y now JC-472131P)	20 Dec 2017/*01 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dhermendra Pratap Singh	(2891056L now JC-472132X)	01 Dec 2017
Nb Sub Santosh Kumar Singh	(2891642N now JC-472133A)	26 Dec 2017/*01 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Amar Singh	(2890268K now JC-472134H)	26 Dec 2017/*01 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajesh Kumar	(2890287P now JC-472135L)	22 Dec 2017/*01 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahender Singh	(2890288X now JC-472136N)	22 Dec 2017/*01 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2017 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Pardeep Kumar	(2892796M now JC-472137W)	01 Dec 2017
Nb Sub Sanjay	(2890154Y now JC-472138Y)	27 Dec 2017/*01 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sunil	(16017199L now JC-472139F)	08 Dec 2017/*01 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Pratap Singh Ranawat	(2890962W now JC-472140W)	01 Feb 2018/*09 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09th Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Baljit	(2889666Y now JC-472141Y)	25 Jan 2018/*09 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09th Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Anup	(2891868Y now JC-472142F)	12 Mar 2018/*09 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09th Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sharwan	(472143K now JC-472143K)	07 Apr 2018/11 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11th Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Pradeep Kumar Jena	(2891848L now JC-472144M)	17 Jan 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Sunil Kumar	(2891872F now JC-472145P)	13 Jan 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Hajari Lal	(2895138L now JC-471942N)	08 Mar 2017/*19 May 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19th May 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Pravesh Kumar Singh	(2890579X now JC-471943W)	01 Apr 2017/*23 Dec 2016
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23rd Dec 2016 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Hanuman Prasad Jat	(2890583A now JC-471944Y)	01 Apr 2017/*01 Jan 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shish Ram Shaharan	(2889651W now JC-471945F)	14 Mar 2017/*01 Feb 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stFeb 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jaiber Singh	(2891024H now JC-471946K)	01 Apr 2017/*01 Feb 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Brijendra Bahadur Singh	(2895296A now JC-471947M)	02 Mar 2017/*01 Feb 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Suresh Kumar	(2892289Y now JC-471948P)	10 Feb 2017/*01 Feb 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Narendra Singh	(2889640K now JC-471949X)	01 Mar 2017
Nb Sub Santosh Kumar Singh	(2890936P now JC-471950M)	01 Mar 2017
Nb Sub Bhawani Singh	(2890080P now JC-471951P)	25 Mar 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahendra Pal Singh	(2895944X now JC-471952X)	02 Apr 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ishwar Singh	(2889670F now JC-471953A)	02 Apr 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Pabudan Singh	(2890895W now JC-471954H)	01 Mar 2017
Nb Sub Guman Singh	(2890939H now JC-471955L)	01 Mar 2017
Nb Sub Rajendra Singh	(2890707K now JC-471956N)	03 Mar 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stMar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bhanwar Singh	(2890312H now JC-471957W)	03 Mar 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stMar 2017 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Shailendr Partap Singh	(2890368P now JC-471958Y)	03 Mar 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stMar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bhoop Singh	(2890718W now JC-471959F)	27 Mar 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stMar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Surendra Singh	(2889693H now JC-471960W)	01 Mar 2017
Nb Sub Balbir Singh	(2890794H now JC-471961Y)	03 Mar 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahendra Singh	(2890799F now JC-471962F)	05 Mar 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Surendra Singh	(2891992A now JC-471963K)	15 Mar 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Babu Lal Saran	(2892377P now JC-471964M)	01 Mar 2017
Nb Sub Tulcha Ram Siyag	(2892398L now JC-471965P)	18 Mar 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Udai Singh	(2891171L now JC-471966X)	01 Apr 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajesh Kumar	(2890663X now JC-471967A)	03 Mar 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Manvir Singh	(2890665H now JC-471968H)	03 Mar 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sharwan Lal Jat	(2890105W now JC-471969L)	01 Mar 2017
Nb Sub Umendra Singh	(2892222A now JC-471970A)	25 Apr 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sugreen, SM	(2891459L now JC-471971H)	01 Mar 2017
Nb Sub Manveer Singh	(2893157X now JC-471972L)	23 Mar 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Raj Kumar Rathore	(2892809Y now JC-471973N)	17 Mar 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stMar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Hema Ram	(2893612P now JC-471974W)	02 Mar 2017/*01 Mar 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stMar 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Dilip Kumar	(2891164P now JC-471975Y)	01 Apr 2017
Nb Sub Desh Raj	(2889681N now JC-471976F)	10 May 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Parmar Pratap Rajsi	(2889036Y now JC-471977K)	01 Apr 2017
Nb Sub Rajveer	(2888963A now JC-471978M)	03 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dhana Ram	(2890387A now JC-471979P)	01 Apr 2017
Nb Sub Bhawani Singh Shekhawat	(2889970H now JC-471980K)	22 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sharwan Kumar	(2891679P now JC-471981M)	01 Apr 2017
Nb Sub Laxman Singh	(2890940X now JC-471982P)	03 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Apr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mool Singh Bhati	(2890966M now JC-471983X)	01 Apr 2017
Nb Sub Mahinder Singh	(2890995F now JC-471984A)	09 May 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 2017 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Dharmvir Singh	(2889802K now JC-471985H)	01 Apr 2017
Nb Sub Ram Niwas	(2889998H now JC-471986L)	07 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Devender Kumar	(2889694L now JC-471987N)	03 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Babu Ram	(2890621L now JC-471988W)	02 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Prahlad Ram	(2890619N now JC-471989Y)	02 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Satyapal Singh	(2892229K now JC-471990N)	25 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Narender	(2891712F now JC-471991W)	25 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ravi Perakash	(2892212W now JC-471992Y)	25 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Azad Singh	(2892586M now JC-471993F)	12 May 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Babu Lal Choudhary	(2892400X now JC-471994K)	01 Apr 2017
Nb Sub Surrender	(2890293H now JC-471995M)	03 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Basir Ahamad	(2890164H now JC-471996P)	06 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dan Singh	(2890900W now JC-471997X)	10 May 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bhanwar Lal Bhakar	(2890111K now JC-471998A)	05 May 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Apr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Puran Singh	(2891699H now JC-471999H)	03 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Apr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Naresh Kumar	(2889797K now JC-472000K)	03 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jitendra Bahadur Singh	(2892058H now JC-472001M)	01 Apr 2017
Nb Sub Rajender Singh	(2892109L now JC-472002P)	02 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Subhash Chand Jat	(2892295M now JC-472003X)	04 May 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Channa Ram Ishram	(2893212H now JC-472004A)	01 Apr 2017
Nb Sub Sunil Kumar	(2892003Y now JC-472005H)	07 May 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Satandar Singh Bhadoria	(2892366H now JC-472006L)	25 Apr 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vikesh Kumar Singh Kushwah	(2892372W now JC-472007N)	01 Jun 2017/*01 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stApr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ajeet Singh	(2892760N now JC-472008W)	25 Apr 2017/*02 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02nd Apr 2017 without effect on pay & allces)		

Nb Sub/Clk Vipin Kumar Rathi	(2891182X now JC-472009Y)	01 May 2017
Nb Sub Rajendra Singh Rathore	(2889794W now JC-472010N)	01 May 2017
Nb Sub Lokender Singh	(2894173F now JC-472011W)	01 May 2017
Nb Sub Sona Ram	(2890320F now JC-472012Y)	06 May 2017/*01 May 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stMay 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mohammad Emamudin Khan	(2890436X now JC-472013F)	06 May 2017/*01 May 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stMay 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Surender Singh	(2889398A now JC-472014K)	01 May 2017
Nb Sub Ranjeet Singh	(2895780M now JC-472015M)	01 May 2017
Nb Sub Pankaj Kumar Rathi	(2889304X now JC-472016P)	06 May 2017/*01 May 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stMay 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Somveer	(2889337H now JC-472017X)	06 May 2017/*01 May 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stMay 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jai Prakash	(2890323P now JC-472018A)	25 May 2017/*01 May 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stMay 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub (RT) Rajesh PD Singh	(15164917A now JC-472019H)	19 May 2017

TO BE NB SUB

Nb Sub Manoj Kumar	(2892445X now JC-472020X)	22 Aug 2017/*27 Apr 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27th Apr 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Anuruddh Singh	(2891575N now JC-472021A)	12 Jun 2017/*07 May 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07th May 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ishwar Singh	(2892621K now JC-472022H)	23 Aug 2017/*07 May 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07th May 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jasbir Singh	(2889314F now JC-472023L)	28 Jun 2017/*19 May 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19th May 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Yogendra Singh Chahar	(2890845L now JC-472024N)	09 Jun 2017/*20 May 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20th May 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahendra Singh Tanwar	(2890041W now JC-472025W)	10 Jun 2017/*01 Jun 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jun 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Surendra Singh	(2890009F now JC-472026Y)	01 Jun 2017
Nb Sub Mangla Ram	(2888733M now JC-472027F)	01 Jun 2017
Nb Sub Narender Kumar	(2890132A now JC-472028K)	01 Jun 2017
Nb Sub Mahendra Singh	(2891568X now JC-472029M)	01 Jun 2017
Nb Sub Mir Singh	(2889377K now JC-472030F)	05 Jun 2017/*01 Jun 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jun 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Kishna Ram Hardu	(2892404N now JC-472031K)	01 Jun 2017
Nb Sub Ajit Singh	(2892285H now JC-472032M)	24 Jun 2017/*01 Jun 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jun 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Samundra Singh	(2892463A now JC-472033P)	30 Jun 2017/*01 Jun 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJun 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahender Singh	(2890051A now JC-472034X)	01 Jul 2017
Nb Sub Madan Singh	(2891434Y now JC-472035A)	01 Jul 2017
Nb Sub Rajender Singh	(2890454A now JC-472036H)	23 Aug 2017/*01 Jul 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJul 2017 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Bhawani Singh	(2889846F now JC-472037L)	01 Jul 2017
Nb Sub Parmal Singh	(2890520X now JC-472038N)	05 Jul 2017/*01 Jul 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jul 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Khet Singh Bhati	(2893918X now JC-472039W)	13 Jul 2017/*01 Jul 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jul 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Santosh Kumar Singh	(3996257Y now JC-472040L)	08 Jul 2017/*01 Jul 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jul 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Manohar Singh Solanki	(2890877N now JC-472041N)	25 Aug 2017/*14 Jul 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14th Jul 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Davinder Singh, SM	(2891481W now JC-472042W)	25 Aug 2017/*20 Jul 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20th Jul 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Rahul Singh Rathore	(2891191Y now JC-472043Y)	01 Aug 2017
Nb Sub/Clk Bhavendra Singh	(2891509L now JC-472044F)	01 Aug 2017
Nb Sub/Clk Shamim Ali	(2891512L now JC-472045K)	01 Aug 2017
Nb Sub Laxman Singh	(2890319M now JC-472046M)	01 Aug 2017
Nb Sub Jagdev Singh	(2890321K now JC-472047P)	01 Aug 2017
Nb Sub Sanjay Kumar	(16020361H now JC-472048X)	30 Aug 2017/*01 Aug 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Aug 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rakesh Kumar Singh	(2891421F now JC-472049A)	30 Aug 2017/*01 Aug 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Aug 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Suresh Singh	(2889727L now JC-472050P)	09 Sep 2017/*01 Aug 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Aug 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Twinkle	(2890147H now JC-472051X)	01 Aug 2017
Nb Sub Pappu Singh Tomar	(2890821F now JC-472052A)	01 Sep 2017/*01 Aug 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Aug 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Maha Singh	(2890276H now JC-472053H)	22 Aug 2017/*01 Aug 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Aug 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Surendra Singh	(2892037M now JC-472054L)	22 Aug 2017/*01 Aug 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Aug 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Parsa Ram Choudhary	(2891563Y now JC-472055N)	01 Sep 2017
Nb Sub/Clk Raghvendra Singh	(2891567P now JC-472056W)	01 Sep 2017
Nb Sub/Clk Ved Ram	(2891569A now JC-472057Y)	01 Sep 2017
Nb Sub Gosai Dhirajgar Amrutgar	(2889253P now JC-472058F)	15 Sep 2017/*01 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dinesh Kumar Singh	(2891390M now JC-472059K)	05 Sep 2017/*01 Sep 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Kishan Singh	(2892792W now JC-472146X)	08 Feb 2018/*17 Oct 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17th Oct 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Prema Ram Hudda	(2890131X now JC-472147A)	08 Feb 2018/*03 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03rd Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sunil Kumar Singh	(2891834L now JC-472148H)	20 Feb 2018/*08 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08th Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Krishan Kumar	(2892826Y now JC-472149L)	08 Feb 2018/*14 Nov 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14th Nov 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ram Ratan	(2891668H now JC-472150A)	26 Mar 2018/*02 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 2ND Dec 2017 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Pramod Kumar	(16012633H now JC-472151H)	18 Feb 2018/*08 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08th Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Subh Karan	(2889962K now JC-472152L)	26 Mar 2018/*16 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16th Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Narendra Singh Tomar	(2893958Y now JC-472153N)	14 Mar 2018/*24 Dec 2017
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24th Dec 2017 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Clk Satypal	(2891875P now JC-472154W)	09 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Clk Satyendra Singh	(2891898W now JC-472155Y)	09 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Kaushalendra Singh	(2892321H now JC-472156F)	14 Apr 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Raj Kumar Singh Rathaur	(2892323N now JC-472157K)	06 Apr 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rakesh Kumar Singh	(2890370M now JC-472158M)	08 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Shish Ram Mahala	(2889587K now JC-472159P)	12 Apr 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahender Singh	(2890444W now JC-472160K)	15 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ram Prasad	(2890391H now JC-472161M)	17 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sunil Kumar Singh	(2890012F now JC-472162P)	22 Jan 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Kamlesh Kumar Singh	(2890022L now JC-472163X)	21 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sumer Singh Rathore	(2891306F now JC-472164A)	03 Jan 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Deepak Singh	(2890146A now JC-472165H)	12 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Balbir Singh	(2889580A now JC-472166L)	05 Apr 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ved Pal Singh Shekhawat	(2890317F now JC-472167N)	05 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sunil Kumar	(2891722L now JC-472168W)	24 Jan 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Nav Ratan	(2891731M now JC-472169Y)	15 Jan 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rameshwar Prasad	(2891735H now JC-472170N)	16 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Tejpal Singh	(2891759M now JC-472171W)	16 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Raisa Ahmed	(2889000A now JC-472172Y)	10 Apr 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Narendra Singh Sisodia	(2890896Y now JC-472173F)	23 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Durga Ram	(2892132Y now JC-472174K)	05 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Balbir Singh	(2892177Y now JC-472175M)	16 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Gian Singh	(2892178F now JC-472176P)	22 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vikas Singh	(16019285P now JC-472177X)	31 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dungar Singh	(2890897F now JC-472178A)	23 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajendra Prasad	(2891495W now JC-472179H)	23 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dharamvir Singh	(2891697X now JC-472180X)	23 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Zakir Hussain	(2891535M now JC-472181A)	25 Jan 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vinod Singh	(2892144N now JC-472182H)	13 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jangbir Singh	(2890298F now JC-472183L)	24 Jan 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sanjive Kumar	(2892521Y now JC-472184N)	05 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahendra Singh Solanki	(2890342A now JC-472185W)	24 Jan 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bhupendra Pratap Singh	(2891657W now JC-472186Y)	28 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahipal Singh	(2891730K now JC-472187F)	05 Apr 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Raj Karan	(2893009M now JC-472188K)	05 Apr 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Daya Shankar Singh	(2889762N now JC-472189M)	27 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Madan Singh Bhati	(2890394W now JC-472190F)	24 Jan 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Nand Singh Rathore	(2890458W now JC-472191K)	03 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sant Ram	(2892830F now JC-472192M)	17 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ramesh Kumar	(2889557M now JC-472193P)	01 Jan 2018
Nb Sub Chhattar Singh	(2892376M now JC-472194X)	22 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mohan Singh	(2891320N now JC-472195A)	17 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Sanjay Singh	(2892084K now JC-472196H)	17 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Shyam Narayan Singh	(2892096Y now JC-472197L)	17 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Surendra Singh Rana	(2889599Y now JC-472198N)	01 Jan 2018
Nb Sub Atendra Singh	(2890786K now JC-472199W)	17 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Talevar Singh	(2891666X now JC-472200A)	07 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ajit Singh	(2892242N now JC-472201H)	12 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vivek Pratap Singh	(2891661Y now JC-472202L)	25 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Gurubeer Singh	(2892407F now JC-472203N)	13 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Niranjana Kumar Singh	(2892085M now JC-472204W)	17 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Balram	(2890521A now JC-472205Y)	20 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ganeander Kumar Rana	(2891423M now JC-472206F)	17 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Nemi Chand	(2889819X now JC-472207K)	17 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Gopal Singh	(2890609K now JC-472208M)	28 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Anil Singh Kushwah	(2890632X now JC-472209P)	09 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Manoj Singh	(2890887X now JC-472210K)	28 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajesh Kumar	(2890184W now JC-472211M)	26 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Veer Singh	(2892263K now JC-472212P)	13 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Suresh Kumar	(2890997M now JC-472213X)	27 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Parvinder Kumar	(2890998P now JC-472214A)	27 Feb 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rajendra Prasad	(2890241M now JC-472215H)	26 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Janak Singh Dagur	(2891928H now JC-472216L)	13 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Narpal Singh Naruka	(2892888Y now JC-472217N)	06 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ghan Shyam	(2890564P now JC-472218W)	06 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mukesh Kumar	(2891930A now JC-472219Y)	07 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01stJan 2018 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Bharat Singh	(2892077N now JC-472220N)	17 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Surender Singh	(2892491M now JC-472221W)	13 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Pardeep Singh	(2891763P now JC-472222Y)	26 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ashok Kumar	(2891958A now JC-472223F)	08 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ashok Singh	(2891859X now JC-472224K)	26 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bagh Singh	(2891865L now JC-472225M)	26 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Deepa Ram	(2892080N now JC-472226P)	25 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Omvir Singh	(2894248N now JC-472227X)	10 Apr 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Anil Kumar	(2894301N now JC-472228A)	09 Apr 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Surendra Singh	(2895856F now JC-472229H)	05 Apr 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Narendra Pal Singh	(2892549Y now JC-472230X)	31 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Harvir Singh	(2892553F now JC-472231A)	31 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mangi Lal	(2893203F now JC-472232H)	31 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Raj Kapoor	(3997514X now JC-472233L)	16 Apr 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Begraj Singh	(2893886A now JC-472234N)	25 Jan 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Surender	(2895019P now JC-472235W)	10 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Narveer	(2894573N now JC-472236Y)	10 Mar 2018/*01 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Solanki Dinesh Bhai Dudha Bhai	(2889771P now JC-472237F)	16 Feb 2018/*04 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04th Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Dharmendra	(2889905H now JC-472238K)	21 Feb 2018/*04 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04th Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Onkar Singh	(2890037N now JC-472239M)	16 Feb 2018/*04 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04th Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vijay Pal	(2890112M now JC-472240F)	16 Feb 2018/*04 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04th Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Daya Ram	(2890114X now JC-472241K)	16 Feb 2018/*04 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04th Jan 2018 without effect on pay & allces)		

Nb Sub Anurag Singh	(2893992Y now JC-472242M)	16 Feb 2018/*04 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04th Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Devender Singh	(2894222Y now JC-472243P)	16 Apr 2018/*18 Jan 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18th Jan 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Raja Ram	(2891921Y now JC-472244X)	07 Mar 2018/*01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Ajai Singh	(2891922F now JC-472245A)	07 Mar 2018/*01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub/Clk Mahendra Singh	(2891980L now JC-472246H)	07 Mar 2018/*01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Manoj Kumar	(2890475W now JC-472247L)	19 Mar 2018/*01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahendra Singh	(2892196K now JC-472248N)	08 Mar 2018/*01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Subhash Chandra	(2893760A now JC-472249W)	05 Apr 2018/*01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Vijay Pratap Singh	(2891063F now JC-472250L)	07 Apr 2018/*01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Om Prakash Khedar	(2890122W now JC-472251N)	16 Feb 2018/*01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Narendra Singh	(2890235Y now JC-472252W)	16 Feb 2018/*01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Mahendra Singh	(2890247N now JC-472253Y)	20 Feb 2018/*01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ravinder Kumar	(2891478W now JC-472254F)	07 Apr 2018/*01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Ramesh Singh Tanwar	(2891396N now JC-472255K)	07 Apr 2018/*01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Amarjeet	(2891220H now JC-472256M)	27 Feb 2018/*01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Virendra Singh	(2890316Y now JC-472257P)	16 Feb 2018/*01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Bhoop Singh	(2890783W now JC-472258X)	09 May 2018/ *01 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jagvir Singh	(2891327X now JC-472259A)	27 Feb 2018/*04 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04th Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Upendra Singh	(2891057N now JC-472260P)	01 Mar 2018/*12 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12th Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Rabari Nagaji Bhai Soma Bhai	(2889917X now JC-472261X)	19 Mar 2018/*21 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Feb 2018 without effect on pay & allces)		
Nb Sub Jangbir	(2894704N now JC-472262A)	17 Apr 2018/*25 Feb 2018
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25th Feb 2018 without effect on pay & allces)		

T.D. PRASHANTH RAO
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 15, dated 21st December 2018—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform:—

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Lt Col Deepak Saxena	TA(M)-1160	AMC (TA)	31 Jan 2014 (AN)
Lt Col Sanjay Basarkar	TA-42158	Engineer (TA)	31 Mar 2017 (AN)

SUDERSHAN KUMAR
Under Secy